



# माटिदेह



युवा मुनि अमित सागर जी

प्रकाशन चन्द्रा कापी हाउस  
प्रकाशकीय : अनिल कुमार जैन, चन्द्रा कापी हाउस, आगरा

## प्राप्ति-स्थान : T.O.

- (१) डॉ. आर. डी. जैन, इन्द्रा कालोनी/अरविन्द सर्टफ,  
तेल मिल कम्पाउण्ड C/o श्री दिग्म्बर जैन रत्नत्रय मंदिर,  
नसिया जी कोटला रोड, फिरोजाबाद (उ. प्र.)
- (२) चन्द्रा कापी हाउस, हास्पीटल रोड आगरा (उ. प्र.)
- (३) डॉ. एस. सी. जैन, पी-७, ग्रीन पार्क एक्स.  
नई दिल्ली-१६, फोन : ६८६८७२२
- सर्वीक्षा भेजने पता
- (४) यास्ट जैन फाउण्डेशन, ५६/२, बिरहाना रोड, कानपुर  
(उ. प्र.) फोन नं. ०५१२-३५२२३६,
- (५) चन्द्रा साझी एम्पोरियम, हास्पीटल रोड, आगरा-३

पूर्व सस्करण ट, सन् १९६९-६६ तक १०,००० प्रतियाँ (लघु)

प्रस्तुत सस्करण : सन् १९६७ (वृद्ध) ७,००० प्रतियाँ

मूल्य : आचरण-चिन्तन-मनन-सर्वीक्षा


### © सर्वाधिकार सुरक्षित-प्रकाशकाधीन

मुद्रक : चन्द्रा कापी हाउस

हास्पीटल रोड, आगरा (उ. प्र.) फोन नं. ३६०६०८, ३६०९६५

## हमारी-भावना

आज की “दिशाहारा” युवा-पीढ़ी के  
 अनसूझे-अनबूझे-खोये हुये  
 अनेक मानस-प्रश्नों को  
 यथार्थ की धरा पर समाधित करने वाले  
 वैयक्तिक-पारिवारिक-सामाजिक-धार्मिक,  
 मौलिक एवं वैज्ञानिक अनुभूतियों से ओतप्रोत  
 लोक हितकारी, अनुसन्धानपूर्ण चिन्तन सहित  
 मुनि श्री अमितसागर जी के  
 जीवन्त-प्रवचनों का  
 अद्वितीय-अमूल्य-अनूठा-संकलन  
 एक बार आद्योपान्त पढ़कर  
 “मन्दिर” कृति को कृतार्थ करें।



अनिल कुमार जैन

चन्द्रा कापी हाउस, हास्पीटल रोड, आगरा (उ. प्र.)  
 फोन नं. : (०५६२) ३६०९६६५, ३६०६०८, २६२२२६, २६५६६७

## जीवन्त परिचय

जन्म	२६-६-१९६३।
जन्मस्थान	ग्राम दुगाला कलां, तहसील-खुरद, जिला सागर (म.प्र.)।
पिता श्री	स्व. गुलाब चन्द जैन।
मातृ श्री	सुमित्रा बाई जैन (वतंमान मे आर्थिका प्रवेशमर्ती माता जी पटटाचाय श्री अभिनन्दन सागर जी संघस्थ)
बचपन का नाम	अमितकुमार जैन।
बन्धु श्री	कैलाशदल्ल जी, क्रष्णभक्तमार जी एवं पवनकुमार जी।
बहिन श्री	स्व. गुणमाला जी एवं भोना जी।
जाति	परवार।
शिक्षा	हाईस्कूल (कृषि विज्ञान) श्री शश्वर्नाथ नि जैन गृहस्कूल खुरद, जिला सागर (म.प्र.)।
ब्रह्मचर्य व्रत	२२-२-१९८५, बड़ा, जिला सागर (म.प्र.) (मुनि श्री पृथ्वीदल्ल सागर जी द्वारा) ४-१० १५-८ विजयादशमी, असमेर (गढ़.)।
मुनि दीक्षा	उग्रायं शिरोमणि श्री धर्ममार जी मदाराज।
दीक्षा गुरु	आचार्य वल्य श्री श्रुतसागर जी मदाराज।
शिक्षा गुरु	दिन्दी, मम्हन्त, प्राकृत, अग्रोर्जा एवं प्रान्तोदय भाषायेः
भाषा-ज्ञान	अनेक जैन वित्र कथायेः, नैतिकता के आदर्श, मन्दिर, “दाल विज्ञान पाँचों भाग” और खिन टेखा आत्मा।
प्रकाशित कृतियाँ	(प्रवचन सकलन), बोलती मार्टी (महाकाव्य) अनुत्तर यात्रा (प्रवचन-सकलन)।
अप्रकाशित कृतियाँ	अनुभूति द्वे द्वार (मुक्तक रचना); अनध्यं अनुभव (कविता रचना); कल्पण मन्दिर (पद्यानुवाद); कुरल काव्य (पद्यानुवाद), अपने-सपने (शायरी-गजने); अपना परिचय (प्रवचन-संकलन)।
जीवन्त कृतियाँ	मुनि श्री आदित्य सागर जी, मुनि श्री आस्तिक्य सागर जी, मुनि श्री अनुकम्पा सागर जी संघस्थ।
समाधिस्थ	मुनि श्री सर्वेंग सागर जी, मुनि श्री भव्य सागर जी मुनि श्री अमर सागर जी, मुनि श्री अभय सागर जी।

## परमागम-स्तुति

शारदे ! शरद-सी शीतल, शुभ वाणी दे दो मुझे,  
 आपके द्वारे हम, भिक्षा लेने आये हैं।  
 ज्ञान का प्रकाश करो, मोहतम नाश करो,  
 कण्ठ में बिराजो मेरे, दिक्षा लेने आये हैं।  
 आपकी चतुरभुज, चार अनुयोग धरें,  
 ज्ञान-हंस स्पष्ट भेद-विज्ञान धारे है।  
 ऐसी जिनवाणी मेरी आत्मा सुधार करे,  
 जिनके “अमित” बार चरण पद्मारे है॥१॥  
 मात जिनवाणी तेरी-स्तुति है बार-बार,  
 तार-तार हुर्या मेरी-चुँदगी सम्हार दे !  
 आगम के शब्द-शब्द, मैं है मात ! दर्श तेरा,  
 वही दर्श आज निज-पूत ये निशार दे !  
 यूं तो मेरा जीवन ही, वाहन तुम्हारा मात !  
 ध्यार दे ! निहार दे ! दुलार-पुचकार दे !  
 हंसवाहिनी मैं तेरा गोद में पड़ा हुआ हूँ,  
 भाव को सुबोध दे, निखार दे माँ शारदे !॥२॥  
 शारदे नमस्कार करता हूँ बार-बार,  
 दीजिये समयसार, साथ मैं नियमसार  
 ज्ञान का रथणसार, दे दो प्रवचनसार,  
 आत्मा का हो सुधार, करो मन मैं उत्तर।  
 परम-पदारथ सार, दे दो पंचास्तिकाय,  
 पाऊँ मैं भी बोध ऐसा, रक्षा करूँ षड्निकाय।  
 ज्ञान निधि ऐसी पाऊँ, मन होवे निर्विकार  
 ‘अमित’ नमस्कार, करता हूँ बार-बार॥३॥

## कृति का कृत्य

‘मन्दिर’ प्रवचन-पुस्तक की वैज्ञानिक-मनोवैज्ञानिक धार्मिक-आगमिक-व्यावहारिक व्याख्यायें, आपके जीवन के उलझे हुये प्राथमिक धर्म पहनुओं पर प्रकाश डालती है क्योंकि हमें धर्म को कही खोजना नहीं है। धर्म तो अनादि काल से स्वयं सिद्ध—‘खोजा’ हुआ है। लेकिन हमारे योग उपयोग से खोया हुआ है। अतः हमें धर्म की ‘सर्व’ नहीं करनी है ‘रिसर्व’ करनी है। यानि जो धर्म हमारे योग-उपयोग से विस्मृत हो चुका है, उसे ही हमें खोजना है। खोजने का पुरुषार्थ आप करे तो आपका स्वागत है। अन्यथा मंटिर-प्रवचन कृति ने आपके खोजने की प्रक्रिया भी आपके सामने रख दी। अब तो मात्र आपको अपने जीवन में प्रयोग करना है, अनुभूतियों से गुजरना है, क्योंकि आप जब मन्दिर आयें तो आपको बिल्कुल मन्दिर जैसी ही पवित्र अनुभूति हो। मन्दिर हमारे अन्दर अवतरित हो जाये। जैसे—हम मिटाई खाते हैं तो मिटाई की मार्टा अनुभूति के साथ ही हम दूसरे लगते हैं।

‘मंटिर’ प्रवचन कृति में प्रत्येक स्तर के व्यक्तियों की शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न किया गया है, अतः इस कृति को किसी पथ-सम्प्रदाय से अनुबंधित नहीं करना। यदि आपके मन में किसी पथ-सम्प्रदाय-आन्माय का आग्रह-दुराग्रह है तो कृपया आपके लिये यह कृति बिल्कुल अनावश्यक है, आप इसे न पढ़ें।

यदि आप पथ-आन्माय का दुराग्रह एक तरफ रखकर सुनेंगे-पढ़ेंगे तो आप अवश्य ही धर्म की जीवन्त अनुभूति कर सकेंगे। क्योंकि “धर्म एक जीवन्त अनुभूति है” और धर्मशास्त्र, अनुभूति के प्रतिबिम्ब हैं। “वास्तविक धर्म वह है जो हमारी अनुभूति से होकर गुजरे”। हमें अपने होने का अहसास कराये। हमारे अपने अस्तित्व का बोध प्रदान करे। जब हमारी विशुद्ध अनुभूति, आगम-शास्त्रों से मिलती है तो समझ लेना कि हम धर्म को उपलब्ध हो गये। आगम, अनुभव की कसौटी है। अनुभव रूपी कसौटी पर अनुभूति रूपी स्वर्ण को कसकर परखा जाता है।

अतः इस कृति में किसी पथ-सम्प्रदाय-आन्माय का आग्रह, है ही नहीं। फिर भी देश-काल में प्रचलित मान्यताओं का विवेचन जरूर है। लेकिन किसी मान्यता के साथ कोई आग्रह नहीं है। फिर भी हमारा कहना है कि धर्म का कभी सरलीकरण नहीं होता है, क्योंकि धर्म तो स्वयं में सरल ही है। धर्म एक ऐसा सांचा / ढाँचा है जो हर युग के व्यक्ति के लिये बराबर हैं। फिर भी धर्म के साधनों का सरलीकरण करना यानि अपने और दूसरों के प्रमाद-आलस्य को बढ़ाना है। “अपनी सहूलियत के लिये धर्म में किया गया सुधार ही पथ या सम्प्रदाय

बन जाता है”। फिर भी धर्म का मूल्य, अमूल्य है, हमेशा एक रूप ही रहता है, अन्य वस्तुओं के मूल्य की तरह घटता-बढ़ता नहीं है।

एक कुशल दुकानदार के पास, ग्राहक क्या चाहता है?, का मनोविज्ञान होता है। अन्तिक एक अकुशल दुकानदार जो उसके पास है, उसे बेचने का, ग्राहक से खर्गशने का विशेष आग्रह रहता है। टीक वैसे ही एक कुशल वक्ता की बात है कि श्रोता क्या चाहता है? श्रोता के ज्ञानानुसार प्रवचन सामग्री जुटाना-सुनाना एक कुशल वक्ता का लक्षण है। लेकिन एक अकुशल वक्ता को, जो उसे आता है, उसे ही बोलने का, श्रोताओं को सुनाने का आग्रह होता है।

वर्तमान भौतिक युग के व्यस्ततम समय में आपकी चेतना धर्म से कैसे जुड़ी रहे, इस मनोविज्ञान के साथ ही कुछ नियमों-उपनियमों की परिचर्चा हमें करनी है। क्योंकि जो कर्म मन्दिर जी नहीं जाते हैं, समयाभाव के कारण उनमें भी मन्दिर जाने की अनुकूलता जगे और जो जाते हैं, उनमें दृढ़ता बढ़े।

आप पुस्तक को पढ़कर-देखकर धबड़ाये नहीं। आप आठ दिन तक थोड़ा-थोड़ा करके, पुनः-पुनः मात्र एक ही प्रवचन पढ़ें। प्रवचन पढ़कर अनुभव करे कि हमें अभी तक घर से निकलकर मन्दिर जी आने तक की कितनी जानकारी थी और कितनी नहीं? आप पूरी पुस्तक एक साथ पढ़ने से धबड़ा सकते हैं कि इतनी सारी बातें कौन ध्यान रखे? बड़ा झगड़ है। अतः आप आठ दिन में मात्र एक ही प्रवचन बार-बार पढ़े, जिससे आपके सम्प्रकारों में मन्दिर की हर क्रिया का चिन्तन-भाव पूर्ण हो जाएगा। पुनः आठ दिन बाद इस पढ़ी हुई विधि को प्रयोग में लायें। प्रथम प्रयोग विधि को प्रारम्भ करते ही दूसरा प्रवचन पढ़ना शुरू करे। इसी प्रकार आठ दिन पढ़ना, फिर उसका प्रयोग करना। इस तरह लगभग पैतालीस दिनों में आप एक नई प्रयोग विधि से मन्दिर जी में आना सीख जायेगे। इन्हीं दिनों में आप शमोकार मंत्र, चत्तारी दण्डक आदि को अर्थ सहित याद करते हुये पुस्तक के अलावा कुछ स्तुति, स्तोत्र पाठ आदि मौखिक याद कर ले। मन्दिर जी, सामग्री ले जाने के लिये एक-एक डिब्बी परिवार के हार सदस्य को दे दीजिये। डिब्बी में उतनी ही सामग्री रखें जितनी उस दिन आपको मन्दिर जी में चढ़ानी है। इससे आपका प्रमाद छूटेगा एवं शुभ संकल्प की तरफ आपका ध्यान भी रहेगा।

इस ‘मन्दिर’ पुस्तक की अभी तक आठ संस्करणों में लगभग दस हजार प्रतियाँ छप चुकी हैं। अब नवों संस्करण से विशेष चिन्तनपूर्ण प्रवचनों की श्रृंखला के साथ निकल रहे हैं। इस कृति को व्यवस्थित संस्करण में तैयार करने के लिये यानि कैसेट से प्रवचन सुनकर, पृष्ठों पर उतारने का दुर्लभ कार्य सुश्री दीपि (शानू) जैन, सरकुलर रोड, फिरोजाबाद (उ. प्र.) एवं

सन्दीप कुमार जैन, नया शहर इटावा (उ. प्र.) ने बड़ी लगन और मेहनत से किया। दोनों श्रद्धालु अनन्त आशीर्वाद के पात्र हैं। इस प्रवचन पुस्तक 'मन्दिर' का प्रभाव भौतिकता में भटके हुये युवक / युवतियों पर अवश्य हुआ है और आगे भी होगा। जिन्होंने इस कृति के प्रकाशन का भार बहन किया, वे तथा लेजर टाइप सैटिंग-आवरण अर्थित जैन सुपुत्र विजेन्द्र चन्द जैन, नई दिल्ली तथा प्रकाशक एवं मुद्रक चन्द्रा कापी हाउस, हास्पीटल रोड, आगरा (उ. प्र.) सभी शुभाशीष के पात्र हैं।

ॐ नमः

सम्मेदाचल- मधुवन

जिना गिरिडीह (बिहार)

११-१०-८७

विजया दशर्मा

## आपकी समस्यायें और उनके समाधान

(१) यदि आपके घर से मन्दिर जी पास है तो सुबह-शाम (रात्रि) में दोनों समय मन्दिर जी परिवार सहित जाइये एवं सुबह के समय दर्शन-अभिषेक-पूजन, शाम को आरती-भजन-स्वाध्याय-पाठ आदि करियेगा ।

(२) यदि आपके घर से मन्दिर जी लगभग एक कि. मी. है तो प्रतिदिन प्रातःकाल ही स्नानादि करके यथायोग्य सामग्री लेकर परिवार सहित ही जाये ।

(३) यदि आपके घर से मन्दिर जी दो कि. मी. या इससे अधिक है एवं स्कूल, कालेज, दुकान, अफिस आदि के रास्ते में पड़ता हो और आपका स्वयं का वाहन-गाड़ी, स्कूटर, मोटर साइकिल है तो उसे रोककर या किराये के वाहन को रोककर या छोड़कर मन्दिर जी में दर्शन करने जरूर जाना चाहिये ।

(४) यदि आपके घर से मन्दिर जी ५ से १० कि. मी. दूर है तो सप्ताह में छुट्टी के दिन सपरिवार अवश्य मन्दिर जी जाना चाहिये ।

(५) मन्दिर जी जाने के साथ-साथ ही प्रतिदिन अपने घर में गत्रि को सामूहिक णमोकार मन्त्र, मेरी भावना, छहढाला, आलोचना पाठ आदि को जरूर पढ़ना चाहिये । इससे मानसिक शान्ति तो मिलती ही है, इसी के साथ घर का पर्यावरण भी परिशुद्ध होता है ।

(६) घर में स्वाध्याय करने के लिए ऐसा शास्त्र होना चाहिये जो सभी को समझ में आये जिससे ज्ञान एवं चरित्र में वृद्धि हो । अतः इसके लिये सम्यकत्व कौमदी, श्रेणिक चरित्र, पाण्डव पुराण, प्रद्युम्न चरित्र, पघ्य पुराण, धर्म परीक्षा आदि ग्रन्थ लाकर पढ़ना चाहिये ।

**नोट:-** यदि यह पुस्तक आपको अच्छी लगे तो आप सभी को पढ़ायें । उत्सव, व्रत, त्वीहार, जन्मदिवस, पुण्यसूति के उपलब्ध में बॉटने एवं छापने योग्य समझें तो लागत मूल्य पर छपाइये । ट्रस्ट-न्यास-फाउण्डेशन आदि द्वारा छपाना चाहते हो तो उनके नाम, वित्र, परिचय सहित छपवा सकते हैं ।

(प्रकाशक)

## संस्कार से संस्कृति

जीवादि तत्त्व प्रतिपादकाय,

सम्प्रकल्प-मुख्याष्ट-गुणार्णवाय ।

प्रशान्त रूपाय-दिगम्बराय,

देवाधिदेवाय-नमो जिनाय ॥

जय बोलो देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की.....

शारदे । शरद सी शीतल.....

जय बोलो श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की.....

जय बोलो गुरुवर्य आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज की.....

जय बोलो अहिंसामर्यी विश्व धर्म की.....

जीवन मे कर्मा कर्मा ..... मे-सग्न, छोटी-सी-छोटी बाते बहुत कठिन हो जाती हैं समझने के लिये, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बाते सरल हैं। सरल हैं इसलिये हमारे मन में उन सग्न-सी बातों मे आकर्षण-नगाव या टिक्कचर्सी नहीं होती है। खास करके गोज-रोज मंदिर जी जाने जैसी प्रक्रिया पर। हमारे विद्वान-साधु-आचार्य जी भी कम बोलते हैं इस प्रक्रिया पर, क्योंकि वे समझते हैं कि सब समझदार हैं, मंदिर जी जाते हैं। इस विषय पर क्या बोलें ? हाँ, बोलेंगे भी तो मंदिर जी आना चाहिये, दिना मंदिर जी आये तो आऐ जैन ही नहीं हो सकते। मंदिर जी आने से आपके स्वर्ग की साठ सुनिश्चित है। बस ऐसी कुछ रटी-रटाई सी बाते हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह कुछ हेर-फेर करके सुनते बने जायेंगे। क्या इतना ही सुनना है ? नहीं, अब हमें अपने जीवन मे मन्दिर जी आने का क्या महत्व है ? मंदिर क्या है, मंदिर मे कौन हैं, कैसे हैं, क्यों हैं आवश्यक ? आदि-आदि इन्ही प्रश्नों को समझना है हमे। वैज्ञानिक-मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-धार्मिक-आगमिक तौर-तरीकों से संस्कारों को सुरक्षित रखने की पद्धति संस्कृति कहलाती है। संस्कृति वही जीवन्त है जिसके संस्कार सुरक्षित आवरित हैं। हमारे जीवन के संस्कारों का प्रथम-आदि मंगलाचरण मन्दिर है। क्योंकि जब बालक/ बालिका को जन्म के चालीस-पैंतालीस दिनों बाद माँ के साथ मन्दिर जी लाया जाता है, तब श्री जिनदर्शन कराकर, नमोकार महामन्त्र बालक/ बालिका के कानों मे सुनाया जाता है। इसी के साथ ही उन्हे मध्य (शराब), मांस, (गोस्त), मसु (शहद) एवं पचोदम्बर (बड़, पीपल, पाकर, गूलर, कटूमर) का त्याग कराकर अष्ट मूल गुण धारण कराये जाते हैं। इस कार्य को गृहस्थाचार्य (पण्डित), विद्वान त्यागी एवं

मुनि-आचार्य या कोई समझदार-बुर्जुग पुरुष या महिला भी सम्पन्न करवा सकते हैं। इन बालक/बालिकाओं के आठ वर्ष के बड़े होने तक इस त्याग की जिम्मेदारी माता-पिता या पालन-पोषण करने वाले कुटुम्बीजनों पर रहती है। सभी को चाहिये कि इन बालक/बालिकाओं को आठ वर्ष तक अपने हाथों से खान-पान में औषधि आदि में भी मध्य-मांस-मधु का सेवन नहीं करायें।

आठ वर्ष की उम्र के बाद इन बालक/बालिकाओं को समझा दें कि ये वस्तुयें (मध्य-मांस-मधु आदि) अत्यन्त अपवित्र हैं। तुम्हें बचपन में इनका नियम दिया गया था। अतः अभी तक हमने तुम्हारे नियम पालन कराने का पूर्ण ध्यान रखा। अब तुम इस नियम का पूर्णतः पालन करना, अन्यथा “निन्दित वस्तु के सेवन से तुम्हारा सुन्दर जीवन भी निन्दित हो जायेगा। प्रशासित वस्तु के सेवन से तुम्हारे जीवन में पूज्यता-पवित्रता आयेगी जिससे तुम्हारा आत्म-गौरव बढ़ेगा और तुम दुर्गतियों के दुःखों से बच जाओगे।”

आज जैन धर्म के आचार्य-साधु एव प्रबुद्ध व्यक्ति इस बात का चिन्तन-मनन-विचार एव अनुभव कर रहे हैं कि हमारी धर्म संस्कृति के संस्कारों की कमी, हमारी युवा पीढ़ी में होती जा रही है, लेकिन उनके संस्कारों के विकास के लिये ऐसा कोई ठोस उपाय नहीं खोजा-सोचा जा रहा है जो तुरन्त कार्य रूप में परिणत हो। तब लगता है कि —

“साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले का  
अफसोस ना करते हैं इमदाद नहीं करते।”

ठीक ही है, अफसोस करना उनका, क्योंकि जो स्वयं तैरना नहीं जानते, वे डूबने वाले को कैसे बचा सकते हैं? जिन्हें स्वयं तैरना सीखने में रुचि नहीं, वे मात्र पुस्तक यड़कर तैरना थोड़े ही सीख सकते हैं। अतः जिन्हें पानी में तैरना आता है, वे पानी में डूबते हुये व्यक्ति को नहीं देख सकते। परन्तु तुरन्त कूदकर उसे बचाने का प्रयत्न करेंगे या जो तैरना जानते हैं उन्हें/उसे बचाने की सूचना चिल्ला-चिल्लाकर देते हैं, जिससे कोई तैरने वाला व्यक्ति इस आवाज को सुनकर तुरन्त आ जाता है और पानी में डूबने वाले को बचाने का प्रयत्न करता है। पुनः उस हल्ला मचाने वाले व्यक्ति के मन में भी पानी में तैरने की भावना एवं साहस आ जाता है। कई बार तो डूबते हुये व्यक्ति को बचाने की प्रबल भावना में, बिना तैरने वाले व्यक्ति पानी में कूद जाते हैं जिससे डूबने वाले के साथ स्वयं ही डूब जाते हैं। अतः पानी में तैरना सीख लेना चाहिए, अन्यथा पानी में डूबना/डूबाना सुनिश्चित है।

बहुत पुरानी बात है। एक सौदागर समुद्र के रास्ते से व्यापार करता था नाव में बैठकर। व्यापार करते-करते उसे बहुत दिन हो गये। व्यापार में वह यहाँ से माल नाव में लादकर ले जाता एवं दूसरे द्वीप में उस माल को बेचकर वहाँ से कम लागत का माल नाव में भरकर ले आता। इस प्रकार वह सौदागर दुहरा व्यापार कर खूब थन कमाता था।

एक दिन उसका एक पुराना मित्र उसे गस्ते में मिला और उससे कहने लगा कि भाई, तुम्हारा मार्ग समुद्री मार्ग है, बहुत खतरनाक मार्ग है और नाव मी अब बहुत पुरानी हो गई है। न जाने कब समुद्र में ऐसा आंधी—तृफान आ जाये या कोई जनीय जीव-जन्तु नाव को पलट दे ? अतः तुम अब तैरना सीख नो । गाँव में एक कुशल तैराक आया हुआ है, तीन दिन में ही तैरना सिखा देता है ।

अपने मित्र की बात सुनकर सौदागर बोला कि तैरना सीखने के लिये तीन दिन चाहिये । हमारे पास तो तीन मिनट का भी समय नहीं है । हमारी नाव लदी खड़ी है जाने के लिये । तीन दिन में तो हम लाखों रुपयों का व्यापार इधर से उधर कर देंगे । क्या जरूरत तैरना सीखने की ? क्यों फालतू समय पानी में तैरना सीखने में लगाया जाये ? आज की जिन्दगी में तो व्यक्ति को भरने तक का समय नहीं है । दूसरा भी कोई भरे तो रविवार का दिन ठीक रहता है, रविवार छुट्टी का दिन है फिर भी उस दिन उसकी अर्थी में पैदल चलकर शमशान घाट नहीं जायेगा । मात्र खानापूर्ति के लिये गाड़ी में बैठकर सीधा शमशान घाट पहुँच जायेगा । यह हमारी समय की व्यस्तता का प्रमाण पत्र है ।

मित्र ने सौदागर को बहुत समझाया । लेकिन सौदागर ने मित्र से आग्रह किया कि हमारे पास तीन दिन का समय नहीं है पानी में तैरना सीखने के लिये । हाँ, समुद्र में खतरे से निपटने के लिये कोई आसान तरीका हो तो बताओ । तब उसका मित्र बोला कि तब तो तुम एक काम करो— दो खाली पीपे (कुपे) बाजार से खरीद लो और उन्हे झलवा (पैक) कर जाओ तुम नाव में बैठते हो उसके नीचे रख लेना और जब समुद्र में ऐसा कोई खतरा हो, नाव ढूबने लगे तो दोनों पीपों को लेकर कूद जाना, जिससे तुम ढूबने से बच जाओगे । सौदागर ने सोचा— यह तो बहुत आसान तरीका है पानी में ढूबने से बचने का । उसने अपने मित्र को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया ।

सौदागर ने बाजार से दो खाली पीपे खरीदे और उन्हे सीन (पैक) बन्द करवा कर नाव में अपनी सीट के नीचे रख लिया और चल पड़ा व्यापार करने विदेश यात्रा पर । इस बार व्यापार में बहुत लाभ हुआ उस सौदागर को । अतः सौदागर ने सोचा कि इस देश में स्वर्ण सस्ता है और हमारे देश में महँगा है । क्यों न यहाँ से सोना खर्गिदकर उन दोनों खाली पीपों में भर लूँ, सुरक्षित के सुरक्षित अपने पास ही पीपे रखे रहेंगे । जरूरत पड़ी तो उन्हें पकड़कर समुद्र में कूद भी सकते हैं । ऐसा सोचकर उसने उन दोनों पीपों में स्वर्ण के सिक्के भर लिये और नाव में अपनी सीट के नीचे रख लिये ।

क्या हुआ ? समुद्र के बीच पहुँचते ही समुद्र में ऐसा आंधी-तृफान आया कि कभी नहीं आया । नाव पानी में धूमने लगी, दिशाहीन हो गई और समुद्र का पानी नाव में भरने लगा ।

नाथियों ने बहुत कोशिश की नाव बद्धाने की लेकिन नाव जब ढूबने लगी तो सभी नाविक तो तैरना जानते थे, वे तो पानी में तैरने लगे। सौदागर ने सोचा— मेरे पास तो दो पीपे हैं, इन्हें लेकर कूद जाऊँगा तो सोना भी बच जायेगा और मैं भी। लेकिन जैसे ही सौदागर उन स्वर्ण से भरे हुये पीपों को लेकर समुद्र में कूदा, आज तक ऊपर श्वास लेने तक नहीं आया। जैसे ही डूबा जलीय जन्मुओं ने खा लिया।

जिस प्रकार उस सौदागर के पास पानी में तैरना सीखने के लिये तीन दिन का समय नहीं था। सो पानी में ढूबकर मर गया। एक अवसर भी दिया कि खानी पीपों को पास रखना। इसके सहारे भी तुम तैर सकते हो पानी से। लेकिन उस सौदागर ने लोभ के कारण उन खाली पीपों को भी पाप रूपी स्वर्ण से भर लिया और ससार समुद्र में ढूब गया।

उसी प्रकार से जो हमें मनुष्य-जन्म ससार समुद्र से पार होने के लिये मिला था, यह जीव व्रत-नियम-संयम आदि के माध्यम से आत्मिक शक्ति को जाग्रत करके संसार समुद्र तिर सकता है। लेकिन यदि आपके पास इतना समय नहीं है व्रत-नियम-संयम पालन करने के लिये तो कम से कम “मंदिर” एक ऐसा खाली पीपा है जिसके सहारे से भी व्यक्ति संसार सागर का किनारा पा सकता है। लेकिन व्यक्ति ने मंदिर जैसी प्रक्रिया की उपेक्षा कर दी या उसे भी नाना प्रकार की सासारिक आकांक्षाओं की पूर्ति का स्थान बना लिया, जिससे यह जीव ससार समुद्र में ढूब गहा है। अतः कम से कम ‘मंदिर जी’ जैसा खाली पीपा अपने पास हमेशा सुरक्षित रखें और हमेशा मंदिर जी जाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें।

‘समयाभाव’ आज के हर वर्ग के, हर व्यक्ति का एक तकियाकलाम बन गया है। यदि उनसे पूछा जाये कि आप सुबह प्रतिदिन मंदिर जी जाते हो, स्वाध्याय (धर्म ग्रन्थ) करते हो, साधु-त्यागी, सत-महात्म, विद्वानों की संगति करते हो, प्रवचन सुनते हो आदि-आदि। तो इन सभी बातों का एक ही उत्तर मिलेगा-समय नहीं मिलता। जब धर्म कार्य के लिये समय नहीं मिलता है तो सुबह घूमने जाना, टी.वी. देखना, अखबार-मैगजीन, नॉविल आदि पढ़ना, पार्टी क्लब आदि में जाना, घटों डाक्टर के यहाँ लाइन लगाकर इन्तजार करना। इन सबके लिये समय कहाँ से मिल गया? तो कहते हैं कि यह तो समय की माँग है पुकार है, आज विज्ञान का युग है, विश्व की हरेक जानकारी होना परमावश्यक है। क्या आपने कभी सोचा कि जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ, उसके कितने सस्कार हमारे पास हैं? हमें इसकी कितनी जानकारी है।

जब हमें धर्म के बीज रूप सस्कार विन्द-प्रतीकों के प्रति श्रद्धा-आस्था नहीं होगी, तब हमारा धर्म-संस्कृति जीवित कैसे रह सकती है, फिर हम कहते किरें कि धर्म संस्कृति का अभाव-हास होता जा रहा है। अतः इस धर्म संस्कृति रूपी दीपक को जलाये रखने के लिये संस्कारों का

तेज डालना जरूरी है, अन्यथा हम सब पर पापों का अन्धेरा छा जायेगा। अतः आप अपनी धर्म-संस्कृति के दीपक को अपनी ओँओ से बुझते हुये नहीं देखें। बॉल्कि स्वयं संस्कारवान बनकर दूसरों को भी सुसंस्कारवान बनने की प्रेरणा दें, अन्यथा इस संस्कृति के जलते संस्कारों का तेज कम है। ऊपर से भौतिकता की अंधी आंधी का भी जोर है। कब तक यह संस्कृति दीप जला रह सकता है? यह कल्पना आप स्वयं करें।

इन सबके जिम्मेदार हम सब हैं। यदि हम सब मिलकर दृढ़तापूर्वक संकल्प लेकर जाग्रत हो जायें तो खोये हुये संस्कारों को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि कभी है तो संकल्प की। जिन्होंने तीव्र संकल्प कर लिया, उनका चेतना-शक्ति रोम-रोम से जाग जाती है। यदि वास्तव में आपको धर्म-संस्कृति के प्रति जाग्रत होना है तो संकल्प कीजियेगा। हमारे सुसंकल्प ही संस्कृति के प्रति जगा सकते हैं। क्योंकि संकल्प से शक्ति संचित होती है, शक्ति सचय से कार्य में उत्साह-उमंग एव आदर होता है। जहाँ पर उत्साह-उमंग-आदर होगा, वहाँ नियम से कार्य को सफलता मिलेगी।

संकल्प वही है जिसमें उत्साह हो, अच्छे कार्य करने का पूर्ण समय हो, समय पर ही हर कार्य को सम्पादित करे। क्योंकि संकल्प करने से हमारा झटकता हुआ उपयोग स्थिर हो जाता है, जिससे उत्साह एव आनन्द की अनुभूति होती है। संकल्प की भाषा में लेकिन, किन्तु परन्तु, अगर, तागर-मगर जैसे शब्द नहीं होते हैं क्योंकि संकल्प की भूमि पर ही संस्कार के बीज बोये जाते हैं, उसी में धर्म संस्कृति के फल-फूल लगते हैं। अतः हम पहले-पहल केवल मन्दिर जीं जाने तक का नियम बना ले, संकल्प ले ले। पुनः धीरे-धीरे ही 'मन्दिर जी' सम्बन्धी अन्य जानकारियों के साथ हम भावनात्मक तरीके से जुड़ते चले जायें। मात्र मन्दिर जी आना ही आपके आपने खोये हुये संस्कारों को पुनः स्थापित, निर्मापित करने के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

आज बस इतना ही

बोनो महावीर भगवान की.....

देवा-सुरेन्द्र-नर-नाग-समर्चितेभ्यः

पाप-प्रणाशकर-भव्य-मनोहरेभ्यः ।

घंटा-घजादि-परिवार विभूषितेभ्यो,

नित्यं नमो जगति सर्वं जिनालयेभ्यः ॥

जय बोलो त्रिकाल वन्दनीय कृत्रिमा-कृत्रिम जिनालयों की.....

शारदे ! शरद-सी शीतल.....

जय बोलो श्री द्वादशांग जिनयाणी माता की.....

जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री घर्मसागर जी महाराज की...

जय बोलो अहिंसामयी विश्व धर्म की .....

आदर्श दर्पण को कहते हैं । दर्पण का कार्य हमारी मुखाकृति पर आई हुई विकृति को दिखाना है, छुटाना नहीं । विकृति को जानकर छुटाने का हमें स्वयं प्रयत्न-पुरुषार्थ करना होता है । बास्य शरीर में आई हुई विकृति को तो हम दर्पण से जान सकते हैं, परन्तु अन्तरंग की विकृति को बताने वाला क्या कोई ऐसा दर्पण है जिससे हमें अपने अन्दर के विकारों का ज्ञान हो सके ? आज के युवा हृदय की बातें बड़ी अजूबी नगती हैं । मन्दिर जी में जाकर क्या करें ? वहाँ तो पत्थर की मूर्ति है । पत्थर की उपासना से हमें क्या मिल सकता है ?

पत्थर भी यदि कभी परमात्मा बने होते तो ।

हम इन्सान बनने के पहले पत्थर बन गये होते ॥

अतः मन साफ होना चाहिये । व्यर्थ के आड़म्बर से क्या लाभ ? ऐसे ही बहुत से प्रश्न प्रायः कितने मनों में उठा करते हैं । धर्म एक 'समीचीन (सच्ची) श्रद्धा' का विषय है और श्रद्धा गुणों के प्रति होती है । जिस प्रकार आप अपने कमरे में अपने पूज्यनीय माता जी, पिता जी, दादा जी आदि का चित्र लगाते हो । यह चित्र तो मात्र कोरे कागज पर खिंची हुई कुछ रेखाओं का समीकरण है अथवा रंगीन कैमरे से लिया गया एक सुन्दर चित्र है । परन्तु आप उनके गले में पुष्पमाला या हार पहनाकर, अगर बल्तियाँ-दीपक जलाकर, उनके प्रति आप अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं । उनके गुणों का स्मरण करते हुये, चरणों को स्पर्श करते हुये, उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं । कहते हैं कि यह हमारी माता जी हैं, पिता जी, दादा जी हैं, आदि । इनसे हमें प्रेरणा मिलती है उनके समान पुरुषार्थ करने की याद आती है, उनके विनम्र स्वभाव की, उनके उज्ज्वल चरित्र की, मान, प्रतिष्ठा, गौरव की ।

इसी प्रकार से अन्य-अन्य चित्रों को देखकर अतीत का इतिहास हमारे सामने सजीव होकर धूमने लगता है । जैसे-चित्तीड़गढ़ का किला मेवाड़ के महाराणा प्रताप की शूरवीरता का एवं

उनके ही वकादार मर्त्री भामाशाह की दानवीरता का परिचय देता है। ज्ञांसा का किला महारानी नक्षमोद्याइ के पौरुष की याद दिलाता है। अन्य स्वतन्त्रता की नड़ाई में नड़ने वाले देशभक्तों की मृतियाँ, देश को आजादी दिलाने में दिये गये अपने तन-मन-धन के बलिदान की आज भी हमे प्रेरणा दे रहे हैं। जब इन सब वस्तुओं, व्यक्तियों से कुछ न कुछ हमें प्रेरणा मिलती है, तब क्या इस पाषाण की प्रतिमा का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा।

शाबाश पत्थरो होशयारी इसको कहते हैं।

बिन तरसे ये तो पत्थर ये, तरासे तो खुदा निकले॥

यह प्रतिमा भी उन महामानवों की है, जिन्होने अपने मनुष्यत्व का सम्पूर्ण विकास करके केवल ज्ञान ज्योति को उपलब्ध कर लिया। पुनः ससार के जीवों को हितोपदेश देकर कल्याण-पद मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे सर्वज्ञ, वीतर्गी एवं हितोपदेशी हीं जिनका नक्षण है, वे मगवान अनन्त पूर्ण ज्ञानवान हैं। इनका जीवन अत्रित्र आन्तरिकता से आदश रूप है। अतः जिनका अन्तरंग आदर्श होगा, उन्हीं के अन्दर हम झाँककर हीं अपने अन्तरंग के विकारों को देख सकते हैं।

अतः ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानीजनों की प्रतिमा जहाँ पर विशेष विद्यि से प्राण- प्रतिष्ठा (पञ्च कल्याणक) पूर्वक स्थापित होती है, उसे हम मन्दिर कहते हैं। मन्दिर भी नवदेवता ओ (पञ्च परमेष्ठा जिनवार्णा, जिनधर्म, जिनचैत्य, जिन वैत्यालय) में से एक देवता स्वप्न पूज्यर्णीय माना गया है, जिसे हम वैत्यालय भी कहते हैं। प्रतिमा प्रतिष्ठापन से पूर्व ही इन मन्दिरों का शुद्धिकरण मन्त्रों के द्वारा होता है। “मन्दिर का यथार्थ अर्थ संस्कृत के अनुसार शरण होता है। संसार के दुःखों से भयभीत प्राणियों के सहारे को ‘शरण’ कहते हैं। अतः प्रति दिन मन्दिर जी-आने का मतलब है—अपने आपको दुखों से मुटकारा दिलाने का उपक्रम करना।

हमें बचपन से ही मन्दिर जी जाने की प्रेरणा दी जाती रही। चाहे वह प्रेरणा हमें धर्मगुरुओं से मिलती हो या हमारे विद्वान, पण्डित, समाज, धर, कुटुम्ब, परिवर्त आदि से किन्तु मन्दिर जाने से, देव दर्शन करने से हमें क्या मिल सकता है? हमें मन्दिर कैसे आना चाहिये, देव दर्शन कैसे करना चाहिये? आदि महत्वपूर्ण विषयों को जब तक हम वैज्ञानिक-मनोवैज्ञानिक एवं मौलिक विन्तन की भूमिका से धार्मिक महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस धर्म की प्रथम भूमिका में होने वाली मन्दिर आने की, देव दर्शन की किया की उपेक्षा कर देते हैं। अतः आज हमें इस विषय पर चर्चा शुरू करनी है कि मन्दिर जाने से पूर्व की हमारी क्या भूमिका होना चाहिये?

## ब्रह्म बेला का महत्व

विश्व की प्रायः सभी धर्म संस्कृतियों प्रातः काल वी ब्रह्मबेला को महत्व देती हैं परन्तु हमे यह नहीं मानुम कि ब्रह्म बेला कहते किसे हैं, इसका क्या महत्व है ? सूर्योदय के चौबीस मिनट पहले से सूर्योदय के चौबीस मिनट के बाद तक का समय ब्रह्म बेला या ब्रह्ममुहूर्त कहलाता है। इसे ही आत्म-जागरण का समय कहा है। क्योंकि तीर्थांकरों की वाणी इसी मुहूर्त में खिरती है। जिस प्रकार सरोवर में कमल दल इसी समय खिलते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारा हृदय-कमल भी खिल जाता है, जिससे हमारे जीवन में निरोगता का संचार होता है एवं इस समय मन में जो भी शुभ संकल्प लिये जाते हैं, दुहराये जाते हैं। जिससे व्यक्ति के अन्दर आत्म विश्वास एवं कार्य करने की दृढ़ क्षमता उद्भूत होती है। प्रातः काल उठकर क्या विचार करना चाहिये, इस विषय में प० आशाधर जी ने सागरधर्मामृत ग्रन्थ में लिखा है कि-

**ब्रह्मे मुहूर्ते उत्त्याय पञ्च नमस्कार कृते सति ।  
कोऽहं! को मम! किं निज धर्मः इति विविन्द्येत् ॥**

अर्थात् ब्रह्म मुहूर्त में निन्द्रा छोड़कर पञ्च नमस्कार (यमोकार) मन्त्र कम से कम नव बार पढ़ना चाहिये। यदि आपके पास समय है तो पूरे एक सौ आठ बार जपना चाहिये। विश्व में यमोकार मत्र ही सार्वभौमिक सर्वकालिक मत्र है जिसे हर परिस्थिति में मौनप्रवृक्षं जपा जा सकता है। कहा भी है-

**अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ।  
थ्यायेत्पञ्च नमस्कारं, सर्वं पापै प्रमुच्यते ॥**

अत आप अपने शरीर-वस्त्रो आदि की शुद्धि का विचार न करते हुये पञ्च नमस्कार मन्त्र का ध्यान-जाप कर सकते हैं। इसमें कोई दोष-पाप नहीं है। इसके बाद स्वयं का विचार करना चाहिये कि मैं कौन हूँ ? मनुष्य हूँ, जैन हूँ, आत्मा हूँ। इस संसार में मेरा कौन है ? इस संसार में सब स्वार्थी जीव है। स्वार्थ पूरा होने पर कोई नहीं पूछता। अतः धर्म के समान मेरा अन्य कोई निरपेक्ष निस्वार्थ बन्धु हितकारी नहीं है। मेरा क्या धर्म है, कर्त्तव्य है ? जैसे- मैं एक साधारण शावक हूँ, गृहस्थ हूँ। इसलिये मेरा प्रमुख धर्म तो देव-पूजा, गुरु-उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये षड् आवश्यक कर्म ही हमारा धर्म है। पुनः मन में विश्वकल्प्यण की भावना करें कि आज का दिन विश्व के समस्त प्राणियों को मंगलमय हो। संसार के समस्त प्राणी सुख शान्ति प्राप्त करें। मेरा किसी भी जीव के प्रति वैर-भाव नहीं हो। राजा-प्रजा एवं राष्ट्र का अमंगल दूर हो। सर्वत्र शांति हो। सभी के दुख, दरिद्र दूर हों। इस प्रकार शुभ विचार

प्रतिदिन करना चाहिये। शुभ विद्यारो को संस्कारित करने के लिये 'जिसने रागदेष कामादिक जीते .....' वाली, मेरी भावना याद कर लेना चाहिये और उसे गुन-गुनाते रहना चाहिये।

पुनः आँखें खोलकर, दोनों हस्त कमलों को जोड़कर, दोनों अंगूठों को छोड़कर, शेष बीच की आठ उँगलियों के चौबीस पौरों में चौबीस तीर्थकरों के नाम स्मरण करते हुये, हाथों को देखें। कई महानुभावों को चौबीस भगवानों के नाम भी याद नहीं होंगे। यदि नाम याद हुये भी तो उनके बिन्ह याद नहीं होंगे। अतः उनकी स्मृति के लिये चौबीस तीर्थकरों के नाम बिन्ह सहित लयबध्य पढ़ सकें, याद कर, सकें इस उद्देश्य से बोलो-

ऋग्भवनाथ के बैन बोलो, अजितनाथ के हाथी ।

सम्भवनाथ के घोड़ा बोलो, अभिनन्दन के बन्दर ।

सुमतिनाथ के चक्रवा बोलो, पद्मप्रभ के लाल कमल ।

सुपार्वनाथ के सांथिया बोलो, चन्द्रप्रभ के चन्द्रमा ।

पुष्पदन्त के मगर बोलो, शीतलनाथ के कल्पवृक्ष ।

श्रेयासनाथ के गैंडा बोलो, वासुपूज्य के भैंसा ।

विमलनाथ के शूकर बोलो, अनन्तनाथ के सेही ।

धर्मनाथ के बज्रदण्ड बोलो, शान्तिनाथ के हिरण ।

कुन्त्युनाथ के बकरा बोलो, अरहनाथ के मछली ।

मणिलनाथ के कलतशा बोलो, मुनिसुव्रत के कम्तुआ ।

नमिनाथ के नीलकमल हैं, नेमिनाथ के शंख ।

पार्वतनाथ के संप बड़ा है, महावीर के सिंह ।

हाथ (कर) दर्शन का महत्व अन्य शास्त्रों में भी बताया गया है-

कराग्रे वसते लहसी, कर मध्ये सरस्वती ।

कर मूले तु गोविन्दः प्रभाते कर दर्शनम् ॥

अर्थात् हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का, मध्य भाग में सरस्वती का एवं मूल भाग में हारि ! प्रभो !! ईश्वर !!! का निवास है। अतः प्रति दिन प्रातःकाल कर (हाथ) का दर्शन करना चाहिये।

उपर्युक्त श्लोक बोलते हुये अपने हाथों को देखो। यह मनोवैज्ञानिक एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। इससे व्यक्ति के हृदय में आत्म-निर्भरता, स्वावलम्बनता की भावना का उदय होता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो वह अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में दूसरों की तरफ, दूसरों का मुख देखने का अभ्यासी बन जाता है। अतः संसार में मनुष्य जो भी भला या बुरा कार्य करता है, हाथों से ही करता है। ये हाथ ही धर्म-अर्थ-काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की कुंजी हैं।

मूल श्लोक में बताया गया है कि मानव जीवन की सफलता के लिये संसार में तीन अवलम्बनों की आवश्यकता है— लक्ष्मी यानि धन, सरस्वती यानि ज्ञान और गोविन्द यानि ईश्वर या धर्म । संसार अवस्था में इनमें से एक के बिना जीवन अधूरा है । ये तीनों लक्ष्यभूत अवलम्बन, हमारे हाथ, जो कि कर्म का प्रतीक हैं, इसमें निवास करते अर्थात् अपने हाथों के द्वारा ही शुभाशुभ कार्य करके हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं । इसलिये अपने हाथों को देखते हुये श्लोक में निःसृत भावना को अपने हृदय में बिटाना चाहिये । भावना करना चाहिये कि मैं अपने जीवन में एक आदर्श व्यक्ति बनूँ । मैं किसी के सहारे न रहकर अपने हाथों से परिश्रम करके घनोपार्जन से दरिद्रता को, विद्या-उपार्जन से मानसिक जड़ता-अज्ञानता को एवं प्रभोभक्ति से मोक्ष पद की सिद्धि करूँगा ।

### मन्दिर जाने से पूर्व क्या करें ?

इस प्रकार शुभ संकल्प करके दैनिक शौचादिक क्रियाओं से निपटकर, उने हुये जल से स्नान करना । नहाते समय शैम्पू या चर्बीयुक्त साबुन प्रयोग नहीं करना चाहिये । पुनः शुल्षे हुये साधारण वस्त्र पहनकर मन्दिर जी आना चाहिये । क्योंकि यदि हम चमकीले-भड़कीले वस्त्र पहनकर मन्दिर जी आते हैं तो अन्य लोगों का मन, भगवान के दर्शन-पूजन-स्वाध्याय से हट जायेगा, जिससे हमें पापबन्ध होगा । वैसे प्राचीन समय की मन्दिर आदि आने की वेषभूषा, स्त्री-पुरुषों के लिये पीले या सफेद रंग की साफी-घोती-दुपट्टा या, जिससे व्यक्ति अपने आप में संयमित रहता था और धर्म-ध्यान में खूब मन लगता था । याद रहे कि हमें चमड़े के बने बेल्ट, जूते-चप्पल, पर्स आदि प्रयोग में नहीं लाने चाहिये । क्योंकि जिस जानवर का वह चमड़ा होगा, उसी जाति के समूर्छन जीव (बैकटीरिया) हमारे शरीर के स्पर्श से उत्पन्न होकर मरते रहते हैं । माता- बहिनों को अपने ओठों में लिपिस्टिक या नाखूनों में नेलापालिस नहीं लगाना चाहिये क्योंकि ये दोनों वस्तुये जीवों के खून से निर्भित होती हैं सेन्ट आदि भी हिंसक तरीके से निर्भित होते हैं । अतः मन्दिर जी आते समय इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिये । ध्यान रहे कि हमारा मुख भी जूठा नहीं होना चाहिये, अर्थात् मुख में लांग, इलाइची, सौंफ, सुपाड़ी, तम्बाखू, गुटका, पान मसाला आदि नहीं होना चाहिये । मुख शुद्धि से हमारे पाठ या मन्त्रोच्चारण एवं शरीर की शुद्धि बनी रहती है एवं हमारे अन्दर पूज्यों का बहुमान एवं विनम्र गुण प्रगट होता है ।

हमें अपने घर से ही शक्त्यानुसार शुद्ध मर्यादित जल-चन्दन अक्षत-पुष्प-नैवेद्य-दीप-धूप और फलादि यथायोग अष्टदश्य याती या डिविया आदि में रखकर, ईर्यापथ यानि नीचे चार हाथ जमीन देखकर चलना चाहिये ।

मन्दिर जी में भगवान को निश्चित यही द्रव्य चढ़ाना चाहिये, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह तो श्रद्धा-भक्ति-शक्ति के अनुसार ही द्रव्य चढ़ाया जा सकता है। इस विषय में पण्डित श्री सदासुखदास जी ने 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' ग्रन्थ की टीका में निम्न रूप से लिखा है-

समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना-अपना सामर्थ्य, देशकाल के योग्य अनेक स्त्री, पुरुष, नपुसक, धनाढ़्य-निर्धन, सरोग-निरोग जिनेन्द्र की आराधना करे हैं। कोई ग्राम निवारी हैं, कोई नगर निवारी है। कोई वन निवारी हैं, कोई अति छोटे ग्राम में बसने वाले हैं। जिनमें कोई तो अति उज्ज्वल अष्ट प्रकार की सामग्री बनाय पूजन के पाठ पढ़िकरि पूजन करें हैं। कोई कोरा सूखा जव, गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, उड्ड, मूग, मोठ इत्यादि धन्य की मूठी ल्याय चढ़ावें हैं। कोई गोटी चढ़ावै है। कोई राबड़ी चढ़ावै है, कोई अपनी बाड़ी तै पुष्प ल्याय चढ़ावै है। कोई टाल, भाट अनेक व्यञ्जन चढ़ावै है। कोई नाना प्रकार के धेवर, लाडू, पेड़ा, बरफी, पूर्णी, पूवा इत्यादि चढ़ावै हैं। कोई वन्दना मात्र ही करें हैं। कोई स्तवन, कोई गीत-नृत्य-वादित्र ही करै है। ऐसे जैसा ज्ञान, जैसी सगति, जैसा सामर्थ्य, जैसी धन-सम्पदा, जैसी शक्ति, तिस प्रमाण देश काल के योग्य जिनेन्द्र का आगाधक मनुष्य है। तै बीतराग का दर्शन, स्तवन, पूजन, वन्दना करि भावनि के अनुकूल उन्नम मध्यम, जघन्य पुण्य का उपार्जन करें हैं।'

कैवली के वा प्रतिमा के आगे अनुगग करि उत्तम वस्तु धरने का दोष नाहिं। उनके विशिष्टता होती नाहि। धर्मानुराग तै जीव का भला लोय है?'

अतः हमें इस विषय में किसी से विवाद नहीं करना चाहिये कि मन्दिर जी में हम क्या चढ़ायें, क्या नहीं? बल्कि विवाद की जगह विवेक से काम लेना चाहिये। तभी हमें इस क्रिया का सही फल प्राप्त होगा। हमारी मुनि दीक्षा अजभेर (राज०) मे हुई। वहाँ पर लगातार पौच नसियाँ बर्नी हैं। पहली नसिया जो सोनी जी की नसिया के नाम प्रसिद्ध है। क्योंकि इसमें सोने (स्वर्ण) की सुन्दर-सुन्दर रचनायें हैं। उन्हे देखने के लिए देशी-विदेशी, जैनी-अजैनी सभी लोग आते हैं। इसी नसिया जी में अनन्त चतुर्दशी एवं निर्वाण लाडू के दिन सोनी जी के परिवार से शुद्ध धर का बना नैवेद्य (व्यञ्जन-पकवान) आज भी चढ़ाया जाता है। बुन्देलखण्ड (म. प्र.) में कई स्थानों पर हमने विहार किया। महावीर जयन्ती पर अनन्त चतुर्दशी निर्वाण लाडू पर पञ्चामृत अभिषेक एवं शुद्ध धर का या मंदिर में ही बना नैवेद्य (व्यञ्जन-पकवान) आज भी जैन मन्दिरों में चढ़ाया जाता है। इटावा (उ.प्र.) में चातुर्मास हुआ, वहाँ भी श्रावकों ने पञ्चामृत की धारा एवं कई प्रकार की शुद्ध मिठाइयाँ बनाकर अनन्त चतुर्दशी को चढ़ायीं। और

१. रत्नकरण्ड श्रावकाचार, पृष्ठ २०६-२१०, पं. सदासुखदास जी टीका-प्रकाशक श्री मध्य क्षेत्रीय मुमुक्षु मण्डल संघ, सागर (मध्य प्रदेश) से उद्धृत।

२. पं. टोडरमल जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अद्याय ५, पृ. २४९।

इस विषय में हम विशेष अधिक क्या कहें ? बारह बष्ठों में होने वाले जैन कुम्ह मेला, दिश्व के नवे आश्चर्य गोमटेश्वर बाढ़ुबली का पञ्चामृत आभिषेक हम सबकी अच्छा का केन्द्र होता है जहाँ उत्तर-दक्षिण का भेद भिट जाता है। इससे अधिक सजीव-सटीक प्रमाण और क्या हो सकता है हम सबके लिये। अतः इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की अपेक्षा मन्दिर जी में चढ़ाने वाली सामग्री में भेद हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान के दर्शन के लिये जाते समय कुछ न कुछ अपने साथ सामग्री ले जाते हैं। परन्तु एक प्रश्न उठता है कि भगवान तो वीतरागी हैं, उन्हें इस सामग्री को चढ़ाने से क्या प्रयोजन ? सुनो नीतिकारों ने कहा है कि-

रिक्त पाणिनैव पश्येत् राजानां देवतां गुरुं ।  
नैमित्तिक विशेषण फलेन फलमादिशेत् ॥

अर्थात् राजा, देवता, गुरु, नैमित्तिक यानि वैद्य, ज्योतिषी के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिये, अर्थात् कुछ न कुछ मेंट लेकर ही जाना चाहिये। क्योंकि फल की प्राप्ति फल से ही होती है। जिस भावना के साथ हम मन्दिर जी जा रहे हैं, उस भावना की सफलता हमारे द्रव्य के साथ निहित है, तभी तो कहा है कि-

द्रव्यस्य शुद्धि-मधिगम्य यथानुसर्पं,  
भावस्य शुद्धि-मधिका-मधिगन्तु कामः ।  
आलंबनानि विविधान्य-दलम्ब्य बलान्,  
भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञं ॥

शास्त्रों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि प्राचीन समय में लोग जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करते समय हीरा, मोती, पन्ना-माणिक आदि बहुमूल्य जवाहरत चढ़ाया करते थे। दर्शन कथा में मनोरमा ने गजमुक्ता प्रतिदिन चढ़ाकर भगवान के दर्शन कर्त्त्वी, तब भोजन कर्त्त्वी, ऐसा नियम लिया था और उसका पालन भी परीक्षा देकर किया। धन्य है ऐसी भव्यता को। अतः भगवान के मन्दिर में सोना-चाँदी आदि द्रव्य चढ़ाना हमारी अच्छा-भक्ति का द्योतक है। द्रव्य चढ़ाना हमारे परिणामों को विशुद्ध बनाने में नियमित है तथा जितने द्रव्य को हम प्रशो चरणों में अर्पण करते हैं, उतना हमारा 'लोभ' का त्याग होता है। द्रव्य, सामग्री हाथ में होने से हमें रास्ते में भी मन्दिर जी जाने-देव दर्शन का संकल्प बना रहता है।

अहो ! देखो !! राजगृही में भगवान महावीर स्वामी के समवशरण की ओर तिर्यक्रम गति का जीव 'मेढ़क' अपने मुख में कमल पुष्प की पांखुड़ी लेकर जा रहा था, किन्तु अकस्मात् राजा श्रेणिक के हाथी के पैरों के नीचे दबकर भरा, सो समवशरण के दर्शन के शुभ संकल्प से देव पदवी को प्राप्त हुआ। सुना है, गरीब सुदामा जब नारायण श्रीकृष्ण से मिलने द्वारिका

गये थे, तब वे भी अपने घर से एक पोटली में चावल भेट देने हेतु साथ ले गये थे। जब तियंत्र जैसे साधनहीन प्राणी एवं गरीब सामान्य मनुष्य भी लोक व्यवहार में अपने पूज्यों के पास खाली हाथ नहीं जाते हैं तब हम लोग साधन-सम्पन्न होते हुये भी तीन लोक के स्वामी के दर्शन करने खाली हाथ आते हैं। तो उस दर्शन का कोई फल हमें मिलने वाला नहीं है।

“प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अच्छी किस्म के १०० ग्राम चावल, दो-चार बादाम, सुपाड़ी, लौंग, इलाइची, छुहारे, चिटके आदि मिलाकर प्रतिदिन चढ़ाना चाहिये। जब आप लोग प्रतिदिन व्यसनों- चाय, पान, जदां, सिंगरेट आदि में पचासों रुपया खर्च कर देते हों, तब क्या श्री जिनेन्द्र देव को पाँच रुपये की सामग्री भी श्रद्धा भाव से नहीं चढ़ा सकते हैं? माता-बहिनें भी व्यर्थ के फैशन में प्रतिदिन पचासों रुपया खर्च कर देती हैं, लेकिन भगवान को सामग्री चढ़ाने में कंजूसी करती है। घर से पूरी डिब्बी भरकर मंटिर जी आती हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सामग्री चढ़ाकर बच्चा हुई घर वापस ले जाती है। इस तरह एक दिन की भरी हुई डिब्बी चार-छह दिन तक चल जाती है।

हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि आपके घर कोई मेहमान मिठाई का भरा डिब्बा लाये और आपके सामने ही डिब्बे को खोलकर मिठाई के चार टुकड़े आपके बर्तन में रख दे और बार्का अपने साथ ही वापस घर ले जाये तो आपको कैसा लगेगा? या आप किसी के घर मेहमान बनकर जाये और इस प्रकार आप करे तो दूसरों को कैसा लगेगा? थोड़ा सोचने-विचारने की बात है कि आप लोग तीन लोक के स्वामी के सामने क्या करते हैं? ऐसा करने से हमें क्या फल मिलेगा? अतः हम अपने घर से सामग्री उतनी ही ले जायें जितनी हमें उस दिन मन्दिर जी में चढ़ानी है।

बहुधा लोग एक प्रश्न यह भी करते हैं कि मन्दिर जी में अधिकाशतः चावल ही क्यों चढ़ाये जाते हैं? मुझे? चावल व्यक्ति के जीवन की खाद्य सामग्री का प्रमुख भोजन है। डर प्रान्त के गरीब-अभीर लोग इसका उपयोग खाने में करते हैं। डमारे तीर्थकरों के दीक्षा के उपरान्त अधिकांशतः शीरान्न (चावल की खीर) से ही पारणा हुये। डमारे भोजन के एक ग्रास का प्रमाण भी एक हजार चावलों से माना जाता है।

चावल से छिलका अलग होने पर उसमें पुनः अंकुरित होने की शक्ति नष्ट ही जाती है। यानि जमीन में बोने से चावल उगता नहीं है। चावल सफेद होने से शुक्ल लेश्या का प्रतीक है। चावल के दाने में कोई जीव-जन्तु अपना घर नहीं बना सकता। अखण्ड (जो टूटे न हों) चावलों को अक्षत भी कहते हैं। उन्हें चढ़ाकर अक्षय पद की कामना करते हैं इत्यादि, कई कारणों से मन्दिर जी में चावल चढ़ाने का अधिक महत्व है।

पुनः एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब हमारे प्रभो! बीतरागी हैं, ना तो वे हमें कुछ

देते हैं और न हमसे कुछ माँगते हैं, तब हम उनके लिये इतनी बहुमूल्य सामग्री क्यों चढ़ाते हैं? कुछ सामग्री जैसे- फूल-दीप-धूप-फल चढ़ाने में तो कुछ हिंसा या सावधाता भी होती है, फिर हम उन्हें क्यों चढ़ाते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वामी समन्तभद्राचार्य जी ने स्वयंभूस्त्रोत्र में तीर्थकर वासुपूज्य जी की स्तुति करते हुये दिया है-

न पूजार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाय! विवान्त वैरे।

तथापि ते पुण्य-गुण स्मृतिर्नः पुनातु वित्तं दुरिताष्जनेष्यः ॥ ५७ ॥

पूज्यं जिनं त्वा-चर्यतो जनस्य, सावद्य लेशो बहुपूज्य राशी।

दोषाय नालं कणिका विषस्य, न दूषिका शीत शिवाम्बु राशी ॥ ५८ ॥

हे वीतराग प्रभो! आपकी पूजा करने पर आप प्रसन्न नहीं होते एव आपकी निन्दा करने पर आप वैर धारण नहीं करते हैं। फिर भी संसारी प्राणी आपके निर्मल गुणों का स्मरण करके अपने मलिन दिन को पवित्र कर नेते हैं ॥ ५७ ॥

“यद्यपि पूज्यों की अर्चना में कुछ आरभ्म (हिंसा) होता है और आरभ्म सावद्य यानि पाप है, किन्तु आपकी पूजा से असाम पुण्य राशि अर्जित होती है। इस अपेक्षा से यह सावद्यता अत्यन्त अल्प है।” जैसे- समुद्र की अमृत समान जल राशि में यदि विष की एक बूँद गिर जाये तो समुद्र का पानी जहरीला नहीं हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी पूजा आदि से प्राप्त विशाल पुण्य राशि के सामने पाप की एक छोटी-सी बूँद का क्या महत्व है? अर्थात् कुछ भी नहीं। पूजा-शील-दान-उपवास आदि दिना सावद्यता (हिंसा) के नहीं हो सकते हैं ऐसा ‘जयद्वला’ पुरु प्रथम, पृष्ठ ६९ में लिखा है। अज वैज्ञानिक शोषणों से सिद्ध हो चुका है कि मन्दिरों में धार्मिक अनुष्टानों से होने वाले अहिंसक यज्ञों में शुद्ध धी आदि की आहूति से पर्यावरण परिशुद्ध होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय के धी से यज्ञ करने पर वायुमंडल में एटमिक रेडिएशन का प्रभाव क्षीण होता है। एक तोला (दस ग्राम) ग्राम के धी से यज्ञ करने से एक टन आक्सीजन बनता है। अतः मन्दिरों में धी के दीपक जलाये जाते हैं। लेकिन दीपक को कांच या लोहे की जाली से ढककर रखें। जिससे त्रस जीवों की हिंसा भी नहीं हो इतना विवेक रखें। अतः आचार्यों के वाक्य प्रामाणिक मानकर दूसरों की कुछ मनमानी चातों को महत्व नहीं देना चाहिये।

‘धवला’ पुस्तक में आचार्य श्री वीरसेन स्वामी से एक शिष्य ने बहुत ही सुन्दर प्रश्न किया है कि हे भगवन्! जब अरिहंत के चार धातिया कर्म नष्ट हो गये, उनमें जो अन्तराय कर्म नष्ट होने से, उनके अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त भोग, अनन्त उपभोग एवं अनन्त वीर्य प्रगट हुआ। अतः भगवान अनन्त दान के दाता हुये तो फिर वे हमें अनन्त दान क्यों नहीं देते हैं? यदि देते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखता, पिलता है? आचार्य वीरसेन स्वामी इसका उत्तर

देते हुये कहते हैं कि हे भक्त ! भगवान तो अनन्त दान निरन्तर देते ही रहते हैं। यदि वे अनन्त दान नहीं दे तो उनका महत्व ही घट जायेगा । लेकिन जेने वाले का लाभान्तराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो उसे उस अनन्त दान का लाभ नहीं मिल सकता है ।

आप सबने अकृत पुण्य (धन्य कुमार) का चरित्र पढ़ा / सुना होगा । उसने पूर्व भव में मन्दिर के धन को खाया, फिर भी उसका जन्म एक नगर सेठ के यहाँ हुआ किन्तु उसके गर्भ में आते ही सेठ का धन नष्ट हो गया एव उसके पैदा होते ही वह सेठ मर गया । अतः उसका नाम अकृत पुण्य रखा गया । किसी तरह उसकी माँ ने मेहनत-मजदूरी करके उसे पाला-पोसा । जब वह चौदह-पन्द्रह वर्ष का हुआ, एक दिन किसी सेठ के खेत में मजदूरों के साथ उसने भी मजदूरी की । शाम को मजदूरी बांटते समय मजदूरों ने उस बालक को मजदूरी देने की अनुमोदना सेठ से की, तब उस बालक का परिवर्य सेठ ने पूछा । तब लोगों ने बतलाया कि यह हमारे पुगने नगर सेठ का नड़का है । उनकी पृत्यु के बाद इसकी माँ और यह मजदूरी आदि करके ही पेट पालते हैं ।

सेठ को उस बालक पर बढ़ी डया आर्या । सेठ ने सभी मजदूरों को तो निश्चित मजदूरी देकर विदा किया । लेकिन उस अकृत पुण्य को सेठ जी ने करुणा भाव से सोने-चाँदी आदि कीमती द्रव्य दिया । लेकिन जैसे ही अकृत पुण्य के हाथों में वह कीमती द्रव्य आया, वैसे ही अंगारों के समान गर्भी से उसके हाथ जलने लगे, जिससे अकृत पुण्य को बहुत बेढ़ा हुई और उसने वह कीमती द्रव्य वहीं छोड़ दिया । पुनः सेठ जी ने विचार किया कि इसे कुछ अधिक चने देना चाहिये । सोना-चाँदी इसके भाग्य में ही नहीं है । अतः उसे एक बड़ी पोटली में चने वांछकर दिये । लेकिन पोटली में छिप होने से घर आते-आते थोड़े से चने उस पोटली में बचे ।

अतः कहने का तात्पर्य यह है कि मन्दिर जी में जो भी धन-द्रव्य-सामग्री चढ़ाते हैं, वह हमारे लाभान्तराय कर्म के क्षय-क्षयोपशम में कारण अवश्य बनता है, जिससे हमें चाहीं अनचाही अनुकूल वस्तुओं की प्राप्ति अनायास ही होती है । इसलिये ऐसा कभी मत सोचो कि मन्दिर जी में द्रव्य चढ़ाने से कुछ नहीं होता । जब मन्दिर जी का निर्माल्य द्रव्य छाने से दरिद्रता मिल सकती है, तब मन्दिर जी में द्रव्य चढ़ाने से धन-वैभव मिल जाये तो क्या आश्चर्य है ।

आज बस इतना ही  
बोलो महार्वीर भगवान की.....

देवाधिदेव ! परमेश्वर ! वीतराग !  
 सर्वज्ञ ! तीर्थकर ! सिद्ध ! महानुभाव !  
 ब्रैलोक्य नाथ ! जिन पुण्य ! वर्धमान !  
 स्वामिन ! गतोऽस्मि शरणं चरणं-द्वयं ते !

जय बोलो देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की.....

मात जिनवाणी तेरी स्तुति है बार.....

जय बोलो श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की.....

जय बोलो आचार्य गुरुवर्य श्री धर्मसागर जी महाराज की....

जय बोलो अहिंसामयी विश्व धर्म की.....

कन्ह हमने मन्दिर के महत्व पर, मन्दिर क्यो आना चाहिये, क्या जाना चाहिये ? आदि  
 वातो को सुना था। आज हम चर्चा करेंगे कि अब आगे मन्दिर जी कैसे आना चाहिये  
 आदि ?

### मन्दिर जी आते समय क्या करें ?

धर मे स्नानादि के समय या जबसे जिनेल्ड देव के दर्शन की भावना प्रारम्भ होती है, तभी  
 से उस देव दर्शन का फल एवं महत्व प्रारम्भ हो जाता है, ऐसा हमारे पूर्व आचार्य कहते हैं कि-

जब चिन्तो तब सहस्र फल, लक्ष्या फल गमणेय।

कोड़ा कोड़ी अनन्त फल, जब जिनदर दिट्ठेय॥

अर्थात् जब हमे भगवान के दर्शन करने का विचार-सकल्य मन मे आता है कि अरे ।  
 अर्भी हमें मन्दिर जी जाना है, भगवान के दर्शन करना है। ऐसा चिन्तन आते ही हजार गुणा  
 फल प्रारम्भ हो जाता है। जब आप सामग्री आदि लेकर भक्ति-स्तुति आदि पढ़ते हुये मन्दिर  
 की ओर ईर्ष्यापूर्वक चल देते हैं, तब आपको नाख गुणा फल होता है। नेकिन जब आप  
 मन्दिर जी मे पहुँचकर साक्षात् जिनमूर्ति के दर्शन करते हैं, तब अवश्य ही अनन्त कोड़ा कोड़ि  
 फल होता है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि श्री सम्मेद शिखर जी की प्रत्येक टींक की  
 वन्दना करने से इतने-इतने करोड़ों उपवासो का फल मिलता है। इतना ही नहीं, तत्त्वर्थ सूत्र  
 के रचयिता उमास्वामी आचार्य जी ने भी अन्तिम प्रशस्ति मे लिखा है कि-

दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठते सति।

फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनि पुंगवैः॥

अर्थात् तत्त्वार्थ सूत्र के दस अध्यायों का पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है, ऐसा मुनि श्रेष्ठों ने कहा है।

आज के आधुनिक भीतिक युग में इस प्रकार के फल की चर्चा जब की जाती है, तो कुछ इसे प्रलोभन मानते हैं कि इस फल के लोभ से व्यक्ति मन्दिर आना, तीर्थयात्रा करना, सूत्रादि का पाठ करना आदि सीखे। परन्तु ऐसा है नहीं कि मात्र प्रलोभन हो, दिखावा हो और फल कुछ नहीं मिले।

हमारे पूर्वाधार्यों की दृष्टि बड़ी ही वैज्ञानिक-मनोवैज्ञानिक धर्मी। उन्होंने एक विशुद्ध गणित निकाला। जैसे-पाँच किलो जल को एक किलो शक्कर से यथार्थ मीठा किया जा सकता है, तथा उतने ही जल को दो चम्पच सेकरीन डालकर मीठा किया जा सकता है। मिटास दोनों में बराबर है। लेकिन कहाँ एक किलो शक्कर और कहाँ दो चम्पच सेकरीन। ठीक उसी प्रकार से इतन करोड़ दिन के उपवास करके, व्यक्ति अपने जितने कमों की निर्जरा करके परिणामों की विशुद्धि प्राप्त करता है, उतने कमों की निर्जरा परिणामों की विशुद्धि उसे एक दिन के मन्दिर जाने, शिखर जी की एक टोक की वन्दना करने एवं एक दिन के तत्त्वार्थ सूत्र के पाठ करने से ही सकती है / होती है। यदि भावात्मक तरीके से इन सब कार्यों को किया जाये। अतः इसके फल के बारे में कर्मी हमें शका नहीं होनी चाहिये।

मंटिर जी आते समय रास्ते में कोइं भी स्तुति, स्तोत्र, पाठ, प्रार्थना आदि पढ़ते आना चाहिये। जैसे-दशन स्तुति, भक्तामर स्तोत्र, विनय पाठ, मेरी भावना, आनोदना पाठ, महार्वीराष्ट्रक, मण्डाष्टक, गोमटेश स्तुति आदि, चाहे हिन्दी-संस्कृत-प्राकृत किसी भी भाषा में हो, उन्हे कण्ठस्थ करके ही पढ़ना चाहिये जिससे देव-दर्शन का माहात्म्य प्रगट होता है, उपयोग में स्थिरता आती है। इसी से परिणाम विशुद्धि होती है जो हमारे अशुभ कमों को नष्ट करने में समर्थ होती है। यहाँ ! स्कृत का सरल देव दर्शन स्तोत्र बताया जा रहा है। इसे अवश्य ही कण्ठस्थ याद कर लेना चाहिये।

## देव-दर्शन-स्तोत्र

दर्शनं-देव-देवस्य, दर्शनं पाप नाशनम् ।  
 दर्शनं स्वर्ग सोपानं, दर्शनं मोक्ष साधनम् ॥  
 दर्शनेन जिनेन्द्राणां, साधुनां वन्दनेन च ।  
 न चिरं तिष्ठते पापं, छिद्र हस्ते यथोदकम् ॥  
 वीतराग मुखं दृष्ट्वा, पद्मराग सम प्रभं ।  
 जन्म-जन्म कृतं पापं, दर्शनेन विनश्यति ॥  
 दर्शनं जिन सूर्यस्य, संसार व्यान्त-नाशनम् ।  
 बोधनं वित्त पद्मस्य, समस्तार्थं प्रकाशनम् ॥  
 दर्शनं जिन चन्द्रस्य, सर्वर्मामृत-वर्षणं ।  
 जन्म-दाह-विनाशाय, वर्द्धनं सुख-वारिधे ।  
 जीवादि तत्त्वं प्रतिपादकाय, सम्यक्त्वं मुख्याष्ट गुणार्णवाय ॥  
 प्रशान्त रूपाय दिग्मवराय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥  
 विदानन्दैक रूपाय, जिनाय परमात्मने ।  
 परमात्म-प्रकाशाय, नित्यं सिद्धात्मने नमः ॥  
 अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम ।  
 तस्मात्कारुण्यं भावेन, रक्ष-रक्ष जिनेश्वरः ॥  
 न हि त्राता, न हि त्राता, न हि त्राता जगत्क्वये ।  
 वीतरागात्परो देवो, न भूतो न भविष्यति ॥  
 जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्तिर्दिने-दिने ।  
 सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु, सदा मेऽस्तु भवे-भवे ॥  
 जिन धर्म विनिर्मुक्तो, मा भवेच्चकवर्त्यपि ।  
 स्पाच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि, जिन धर्मानुवासितः ॥  
 जन्म-जन्म कृतं पापं, जन्म कोटि समार्जितम् ।  
 जन्म-मृत्यु जरा रोगं, हन्यते जिन दर्शनात् ॥  
 अद्य भवत्सफलता नयन द्वयस्य,  
 देव त्वदीय घरणांबुज वीक्षणेन ।  
 अद्य विलोक - तिलक प्रतिभासते मे,  
 संसार वारिधि-रथं चुलुक प्रभाणम् ॥

## स्तुति

प्रभो ! पतित पावन में अपावन, चरन आयो शरण जी ।  
 यों विरह आप निहार स्वामी, मेट जामन-मरन जी ॥  
 तुम ना पिडान्या आन मान्या, देव विविध प्रकार जी ॥  
 या बुद्धि सेती निज न जायो, भ्रम गिण्यो हितकार जी ॥  
 भव विकट वन में करम वैरी, ज्ञान धन मेरो हरयो ॥  
 सब इष्ट भूल्यो इष्ट होय, अनिष्ट गति धरतो फिरयो ॥  
 थन घड़ी धन दिवस यों ही, धन जनम मेरो भयो ।  
 अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरश प्रभो ! को लख लयो ॥  
 छवि वीतरायी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पै धरें ।  
 वसु प्रातिडाय अनन्त गुणयुत, कोटि रवि छवि को हरें ॥  
 मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो ॥  
 मो उर हरण ऐसो भयो, मनु रंक चिन्तामणि लयो ॥  
 मैं हायि जोड़ नवाय मस्तक, बीनऊँ तुव चरण जी ।  
 सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, सुनहुँ तारण तरण जी ॥  
 जाचूँ नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी ।  
 'बुध' जाचूँ तुव भक्ति भव भव दीजिये शिवनाथ जी ॥

यह 'प्रभो! पतित पावन' हिन्दी का स्तुति है। इसे भी याद कर नेना चाहिये और नर्या-नर्या विनता स्तुतियाँ भी याठ करते रहना चाहिये। कम से कम सात दिन के लिये सात पाठ याद होने चाहिये जिससे प्रतिदिन एक पाठ भक्ति-भाव पूर्वक अर्थ-बोध करते हुये पढ़ सको।

## मन्दिर प्रवेश विधि

मन्दिर जी में प्रवेश करते समय शुद्ध छने जल से पैर धोने चाहिये। यदि आप जूते, मोजे, चप्पन आदि पहनकर आये हों तो उन्हें यथास्थान ही उतार देना चाहिये। पुनः मन्दिर जी में घण्टा रहता है, उसे क्यों बजाते हैं? घटा बजाते समय हमारे क्या भाव होने चाहिये? ये प्रश्न प्राय मन में उठते अवश्य हैं किन्तु यथार्थ समाधान नहीं मिलने से मन कुपित हो जाता है।

सुनो ! घंटा 'मंगल घण्टि' के प्रतीक रूप में बजाया जाता है। घंटे की

ध्वनि सुनकर दूर के लोगों को भी मन्दिर जी का स्मरण हो जाता है। घंटा बजाते समय हमारे भाव होने चाहिये कि इस घंटे की मंगल ध्वनि तरंगे वहाँ पहुँच जायें, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। ऐसे नन्दीश्वर द्वीप, विदेह सेत्र, कैलाश पर्वत आदि उर्ध्व-मध्य-अधोलोक में जितने कृत्रिम-अकृत्रिम जिन-चैत्यालय विद्यमान हैं, जिन तीर्थसेत्रों की आपने साक्षात् जाकर बन्दना की हो, उनका व्यान करते हुये, 'उनको यह मेरी बन्दना-नमस्कार पहुँचे'। घंटे को हल्के हाथों से तीन बार ही बजाना चाहिये।

मन्दिर जी में लगा घंटा हमारी विशुद्ध भावनाओं को प्रसारित करने के लिये एक "वैज्ञानिक" मंत्र है। भौतिक युग की दूर संचार प्रणाली, ध्वनि प्रसारक यंत्रों के माध्यम से हमारी भाषा-भावनाये एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेकेण्डों में पहुँच जाती है। जैसे-पोस्ट अफिस में तार करने के लिये एक छोटी सी डिब्बी खटखटाइ जाती है। उसमें कई शब्द नहीं बोले जाते। मात्र डिब्बी खटखटाने के ढंग से ही समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है। ठीक उसी प्रकार से ही घंटे का कार्य है। इसकी मंगल ध्वनि हनारा मानसिक प्रदूषण दूर करती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब यद्या रोता है तब उसे झुन-झुने आदि की मधुर ध्वनि सुनाकर चुप किया जाता है।

घंटे की ध्वनि से पर्यावरण भी परिशुद्ध होता है क्योंकि पंचकल्याण के समय घंटे को भी मंत्रों से सरकारित करके लगाते हैं। आपने देखा होगा, लाल मन्दिर, दिल्ली में एक बहुत बड़ा पुराना घटा मन्दिर के चौक में एक शो केस में लगा है। उसमें कई प्रकार के मंत्र भी उत्कीर्ण हैं। इसकी ध्वनि से मंत्रों का प्रभाव उद्घाटित होता था। अभी उसका प्रयोग बन्द है। जहाँ तक उसकी ध्वनि का प्रभाव होता था, वहाँ तक शारीरिक-मानसिक-दैविक एवं भौतिक प्रकोप भी हट जाते थे।

## रोगनाशक है शंखध्वनि

वैज्ञानिक अनुसंधानों से अब यह सिद्ध हो गया है कि शख और घंटे की ध्वनि से गेंगे के कीटाणुओं का नाश होता है। प्रति सेकेण्ड २७ घनफुट शक्ति के जोर से बजाये गये शख की ध्वनि २०० पुट की दूरी के बैकर्टीरिया को नष्ट हर डाकती है। शख ध्वनि से हैंजा, मनेरिया आदि गेंगे के कीटाणु भी नष्ट होते हैं। मिरगी मूर्छा, कंठ माला और कुछ रोगियों के अन्दर शंख ध्वनि से रोगनाशक प्रतिक्रिया होती है। शिकागो के डॉ. वाइनेन का दावा है कि अब तक वे तेरह सौ बहरे रोगियों को शख ध्वनि से ठीक कर चुके हैं। अफ्रीका में जहरीले सर्प के काटने पर घंटा बजाकर इलाज किया जाता है। मास्को की एक अदालत ने तीन वैज्ञानिकों

की समिति घंटा व्यनि परीक्षण के लिए गठित की जिसने सात दिनों तक परीक्षण के बाद घोषित किया कि घंटा व्यनि से तपेदिक रोग ठीक होता है । तपेदिक के अतिरिक्त इससे कई अन्य शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं तथा मानसिक उत्कर्ष भी होता है । मास्को के एक सेनिटोरियम में विगत कई वर्षों से तपेदिक के इलाज के लिए घंटा व्यनि का प्रयोग किया जा रहा है । सामार प्रस्तुति-दीक्षान्त ठाकुर, विश्वभित्र, कलकत्ता (१६-४-१६६७)

आज के वैज्ञानिक युग में तरह-तरह के व्यनि प्रसारण यन्त्रों के चलने से व्यनि प्रदूषण भी होने लगा है जिससे इन धर्म यन्त्रों की व्यनियों का प्रभाव कम हो गया है । फिर भी यदि भक्ति-भावनापूर्वक प्रयोग किया जाये तो सफलताये आज भी मिलती हैं/ मिल सकती हैं । कहीं-कहीं सुरक्षा की दृष्टि से घंटा मन्दिर जी के भीतर लगा रहता है ।

घंटा बजाने के बाद ॐ जय-जय-जय । निस्सही, निस्सही, निस्सही । नमोऽस्तु-नमोऽस्तु-नमोऽस्तु' मध्यम स्वर से (न अधिक जोर से, न अधिक धीरे से) बोलना चाहिये । मन्दिर जी में प्रवेश करते समय "निस्सही" क्यों बोला जाता है ? जिस प्रकार से मनुष्य अपने घर-परिवार की टोलियों की टोलियों बनाकर तीर्थयात्राओं को जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से देवगति के चतुर्निकाय के देवतागण भी अदृश्य होकर तीर्थयात्राओं को आते हैं और जिन-मंटिरों की भक्ति-पूजा आदि करके उप्योगार्जन करते हैं एवं जो मूर्तियाँ उनके मन भा जाती हैं, जो स्थान उन्हे आकर्षित करते हैं, वहाँ पर वे देवतागण अतिशय भी दिखनाते हैं । अतः 'निस्सही' शब्द इसलिये बोला जाता है कि वहाँ पर पहने से आये, मौन भक्ति-पूजा में मग्न अदृश्य देवतागण यदि हों तो उनकी भक्ति पूजा में विघ्न न हो । वे देवतागण 'निस्सही' शब्द सुनकर व्यवस्थित हो जाते हैं एवं आपको भी दर्शन-पूजन-भक्ति के लिये बहुमान स्थान देते हैं । इसी के साथ क्षेत्रीय देवता क्षेत्रपालादिक से मन्दिर जी में प्रवेश की अनुमतिसूचक यह शब्द उच्चारण किया जाता है ।

कुछ लोग 'निस्सही' शब्द का अर्थ अशुभ रागादि विकल्पों को मन्दिर जी के बाहर छोड़ना मानते हैं । परन्तु जब हम लोग घर से मन्दिर जी को ओर चलते हैं, तभी हमारे अशुभ रागादि विकल्प परिणाम सूट जाते हैं, सूट जाने चाहिये । तब फिर 'निस्सही' शब्द से अशुभ रागादि विकल्प सूटते हैं, की युक्ति नहीं लगती है ।

मूल बात प्रामाणिक व्याख्या यह है कि हमारे चरणानुयोग-मूलाचार आदि ग्रन्थों में आचार्यों ने साधुओं एवं श्रावकों के लिये भी तेरह प्रकार की क्रियायें बतालाई हैं । पंचपरमेष्ठी को नमस्कार, छह आवश्यक, निस्सही एवं आस्सही इस प्रकार कुल तेरह क्रियायें लिखी हैं । इसमें निस्सही का प्रयोग तो मन्दिर जी में नगर, ग्राम, घर, शमशान आदि में प्रवेश करने के पूर्व, किसी वृक्ष के नीचे बैठने, लघुशंका, दीर्घशंका करने से पूर्व प्रयोग किया जाता है एवं उस स्थान

को छोड़ते हैं या बाहर निकलते हैं तब 'आस्सही-आस्सही' तीन बार बोला जाता है। अतः इससे सिद्ध है कि 'निस्सही' शब्द का प्रयोग मात्र अशुभ रागादि छोड़ने के लिये नहीं किया जाता, बर्स्क क्षेत्रपालादि से क्षेत्र प्रवेश अनुमति के लिये ही किया जाता है। यदि हमने 'निस्सही' से अशुभ विकल्प छोड़े हैं तो 'आस्सही' से क्या हम अशुभ विकल्प ग्रहण करेंगे?

'निस्सही' शब्द से ही हमारे साथमीं बन्धु भी यदि दर्शन-पूजन-भक्ति करते हुये बीच में खड़े हों तो उन्हें भी संकेत मिल जाता है कि कोई दर्शनार्थी पीछे दर्शन करने आया है। वह भी आपको स्थान देगा, देना चाहिये। इसी के साथ पहले से जो व्यक्ति दर्शन करने वाला है, वह भय आदि से बच जायेगा। क्योंकि मौन-पूर्वक पीछे से दर्शन करने से कभी-कभी आगे बाले पर उसकी परछाइ पड़ने से वह भयभीत हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुये हमारे आचार्यों ने 'निस्सही' आदि शब्दों का विद्यान बनाया है। पुनः णमोकार मन्त्र उसका माहात्म्य एवं चत्तारि दण्डक, इस प्रकार भक्ति-भावपूर्वक पढ़ना चाहिये। जैसे-

**णमो अरिहंताण-**

अरिहंतों को नमस्कार हो।

**णमो सिद्धाण-**

सिद्धों को नमस्कार हो।

**णमो आइरियाण-**

आचार्यों को नमस्कार हो।

**णमो उवज्ञायाण-**

उपाध्यायों को नमस्कार हो।

**णमो लोए-सब्ब-साहूण-**

जोक (विश्व) के सभी साधुओं को नमस्कार हो।

एसो पञ्च णमोकारो, सब्ब पावप्णासाणो।

मंगलाणं च सवेसिं, पठमं हवइ मंगलं॥

**पद्धानुवाद-** यह पञ्चनमस्कार मंत्र, नाशता सब पापों को

मंगलों में सबसे पहला, मंगल कहलाता दो।

अर्थ-यह पञ्च नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और संसार के सभी मंगलों में पहला मंगल है। तभी तो पुष्पदन्त भूतबली आचार्य जी ने षट्खण्डागम ग्रन्थ में मंगलाचरण के स्वप्न में णमोकार मंत्र को लिखा है।

### चत्तारि दण्डक

**चत्तारि मंगल-**

मंगल चार होते हैं।

**अरिहंता मंगल-**

अरिहंत मंगल हैं।

**सिद्धा मंगल-**

सिद्ध मंगल हैं।

**साहू मंगल-**

साधु मंगल हैं।

केवलि पण्णतो धम्मो मगलं-  
चत्तारि लोगुत्तमा-  
अरिहंता लोगुत्तमा-  
सिद्धा लोगुत्तमा-  
साहू लोगुत्तमा-  
केवलि पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा-केवली के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है।  
नोक मे चार उत्तम है।  
नोक में अरिहंत उत्तम है।  
जोक मे सिद्ध उत्तम है।  
लोक में साधु उत्तम है।  
केवलि पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा-केवली के द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है।  
मैं चार की शरण को प्राप्त होता हूँ।  
अरिहंतों की शरण को प्राप्त होता हूँ।  
सिद्धों की शरण को प्राप्त होता हूँ।  
साधुओं की शरण को प्राप्त होता हूँ।  
केवलि पण्णतो धम्मो सरणं पव्वज्जामि-केवली के द्वारा कहे गये धर्म की  
शरण को प्राप्त होता हूँ।

इस प्रकार हाथ जोड़कर बोलते हुये देवी के सामने रखी हुई बेच-चौकी आदि जित पर  
इव्य सामग्री चढ़ाते हैं, हाथ या डिर्झी मे लाये हुये चावल आदि इव्य को निम्न श्लोक बोलते  
हुये मन्त्र को उच्चारण करते हुये चढ़ाये-

उदक चन्दन तन्दुल पुष्पकैः, चरु सुदीप सुधूप फलार्घकैः।  
थदल मंगल गान रवा कुलैः, जिन गृहे जिननाथ-मह-यजे ॥

पौच पुज (ठेरी) मे “ॐ हि श्री गर्भ- जन्म-तप-ज्ञान-निर्वाण कल्याणक प्राप्तये जतादि  
अर्थं निर्वपामीति स्वाहा” अथवा “ॐ हि श्री अरिहंत-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय-  
सर्वसाधुभ्यो जलादि अर्थं निर्वपामिति स्वाहा।” इस प्रकार मंत्र बोलते हुये चढ़ाना चाहिये।  
अब प्रश्न यह उठता है कि मन्दिर जी की प्रतिमा अरिहंतों या सिद्धों की है फिर मंत्र मे आचार्य-उपाध्याय-  
साधु-सर्वसाधु को समर्पित क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह है कि जब इन प्रतिमाओं के  
पंचकल्याणक होते हैं । तब दीक्षा(तप) कल्याणक मे, इनमे साधु-उपाध्याय एवं आचार्य परमेष्ठी  
की दीक्षा के मंत्रों का संस्कार किये जाते हैं । पुनः केवल ज्ञान कल्याणक मे अरिहंतों के गुण  
एवं मोक्षकल्याणक मे सिद्धों के गुण स्वप मंत्रों के संस्कार किये जाते हैं । अतः पंचपरमेष्ठी की  
प्रतीक रूप प्रतिमा को इस तरह अर्थं चढ़ाने मे कोई दोष नहीं हैं । अर्थ कहते हैं मूल्य को  
एवं अर्थ का अर्थ है मूल्यवान या बहुत कीमती होता है, परन्तु पूजा मंत्रों मे अर्थ का मतलब  
जल फलादि आठों द्रव्यों का मिश्रण है । यथार्थ मे जिन जल फलादि को हमने परिश्रम या  
घन आदि खर्च करके अपने स्वामित्व भाव से जोड़ा है । उस सामग्री को मूल्यवान मानते हुये  
अपने पूज्यों को समर्पण करते हुये उसके अधिकार-ममत्व-अपनत्व भाव का त्याग करना ही  
अर्थ है ।

कोई-कोई चावल का ऊँकार, स्थास्तिक, सीं, श्रीं या चन्द्राकार सिद्ध शिला भी बनाते हैं

इसमें भी कोई दोष नहीं हैं । सामग्री को विनय से चढ़ाना चाहिये-फेंकना या फैनाकर नहीं चढ़ाना चाहिये । वेदी के सामने रुपये-पैसे नहीं चढ़ाना चाहिये यदि रुपये-पैसे चढ़ाना ही है तो मन्दिर जी में रखी गोलक में चढ़ाना चाहिये, क्योंकि गोलक के पैसों से मन्दिर जी की सुरक्षा, उपकरण आदि की व्यवस्था होती है ।

चावल आदि चढ़ाने के बाद नमस्कार चाहिये । पुरुषों यानि मनुष्यों को शास्त्रोक्त विधि से पंचांग यानि दोनों पैरों के घुटने, दोनों हाथों की कुहनियाँ सहित दोनों हाथों को नारियल के समान जोड़कर धरती पर रखकर उस नारियल के समान बद्ध हाथों पर अपना सिर रखना एवं अष्टांग यानि सर्वांग से जमीन पर पट्ट लेटकर नमस्कार करना चाहिये । साथु, आर्यिका, महिलाएँ, बच्चियों को गवासन यानि नीचे जमीन पर घुटने टेकते ही घुटनों को बायें हाथ की तरफ तथा पैरों के पंजों को दायें हाथ की तरफ ने जायें, जिस तरह गाय तिरछा बैठती है । पुनः दोनों हाथों की कुहनियाँ जमीन से स्पर्श करती हो तथा दोनों हथेलियाँ नारियल के समान आकृति में होकर जमीन धू रही हो और उसी पर अपना सिर रखकर नमस्कार करना चाहिये । नमस्कारात्मक मुद्राओं का प्रभाव भी हमारे मन-मस्तिष्क एवं शरीर पर पड़ता है । शरीर की बनावट एवं बस्त्रों के पहनाव आदि से स्त्रियों एवं पुरुषों की नमस्कार मुद्राओं में अन्तर आ जाता है । सही तरीके से नमस्कार मुद्रा से प्रतिदिन दर्शन करने पर परिणामों की विशुद्धि में अवश्य ही प्रभाव पड़ता है ।

नमस्कार करते समय भी हमें स्तुति आदि ओलते रहना चाहिये एवं जिनेन्द्र देव के विभिन्न विशेषणों को उच्चारण करते हुये । जैसे- ‘हे सर्वज्ञ ! वीतराग !! हितोपदेशी !!! जन्म जरा-मरण आदि अठारह दोषों से रहित । अतिशय आदि छयालीस गुणों से सहित, अरिहंत परमेष्ठी आपको हमारा अनन्तों-अनन्तों बार नमस्कार हो ।’ ऐसा बोलते हुये, कम से कम तीन बार नमस्कार मुद्रा में नमस्कार करना चाहिये । बैठकर यथायोग्य नमस्कार करने से मानसिक तनाव दूर होता है, विनय गुण प्रगट होता है, पूज्यों के प्रति आदर, बहुमान एवं समर्पण भाव इलकृता है तथा ‘बन्दे तदगुण लभ्ये’ नमस्कार करने से भगवान् जैसे ही वीतरागता आदि गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी भावना करते हुये नमस्कार करना चाहिये । छोटे बच्चों को नमस्कार कराते समय श्रद्धा दो, बुद्धि दो, विवेक दो, सदाचार दो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, आदि बोलना सिखा देना चाहिये ।

आज बस इतना ही  
बोलो महादीर भगवान की.....

श्रीमत्-पवित्र-मकलंक-मनन्त-कल्पम्,  
स्वायं भुवं सकल मंगल-मादि तीर्थम् ।  
नित्योत्सवं मणिमयं निलयं जिनानाम्,  
त्रैलोक्य-भूषण-मंह शरणं प्रपद्ये ॥  
जय बोलो १००८ श्री अरहतं परमेष्ठी भगवान की.....  
शारदे नमस्कार करता हूँ बार.....

जय बोलो श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की.....  
जय बोलो आचार्य शिरोमणि श्री धर्मसागर जी महाराज की.....  
जय बोलो अहिसामयी विश्व धर्म की.....

कल हमने सुना था कि हम मंदिरजी के अन्दर कैसे प्रवेश करे ? कैसे सामग्री चढ़ाये ? कैसे नमस्कार करे ? आदि आदि. ....।

आज हम चर्चा करेंगे कि नमस्कार करने के बाद आगे क्या, कैसे करना है ? नमस्कार करने के बाद प्रायः सर्वा लोग गन्धोदक नेते हैं।

## गंधोदक का महत्व

क्या आपको मानूम है कि गंधोदक कहा, कैसे और क्यों लगाते हैं ? प्रायः प्रतिदिन की भौति आँखों, मस्तक, गला आदि पर गंधोदक लगाते हैं लेकिन गंधोदक लगाते समय निष्ठ श्लोक में से कोई एक या तीनों अवश्य बोलना चाहिए-

निर्मलं निर्मलीं करणं, पवित्रं पाप नाशनं ।  
जिन गन्धोदकं वन्दे, अष्टकर्म विनाशनं ॥

### अथवा

निर्मल से निर्मल अति, श्री जिन का अधिषेक ।  
रोग हरे सब सुख करे, काटे कर्म अशेष ॥

### अथवा

मुक्ति श्री वनिता करोदक-मिदं पुण्यां-करोत्पादकम् ।  
नागेन्द्र त्रिदशोन्द्र वक्ष पदवी, राज्याभिषेकोदकम् ॥  
सम्पद्गान चरित्र दर्शनलता, संवृद्धि सम्पादकम् ।  
कीर्ति श्री जय साथकं तव जिन ! स्नानस्य-गन्धोदकम् ॥

जिनाभिषेक का महत्व जिनसेनाचार्य देव ने आदिपुराण ग्रन्थ में निम्न प्रकार से लिखा है-

माननीय मुनीन्द्राणां जगतामेक पावनी ।

साव्याद्-गन्धाम्बु-धारास्मान् या स्म व्योमाप-गायते ॥ (१३/१६५)

जो मुनीन्द्रों के द्वारा भी सम्माननीय है तथा संसार को पवित्रता प्रदान करने में अनुपम-अद्वितीय है, वह आकाश गंगा के समान प्रतीत होने वाली गन्धाम्बुधारा (अभिषेक) हम सबका कल्याण करे।

जरा सोचने और समझने की जात है कि हमारे व्यावहारिक जीवन के उपयोग में आने वाला साधारण जल भी हमारे द्वारा उच्चारित किये गये शांति मन्त्रों से तथा जिन प्रतिमा को पञ्चकल्याण के समय अंकन्यास विधि से एवं 'सूर्यमंत्र' से प्राण प्रतिष्ठित की गई थीं, उनसे मन्त्रित हो जाता है। क्योंकि पाषाण प्रतिमाओं में भी धातुओं के अश अवश्य ही होते हैं और धातुये विद्युत की सुचालक होती हैं। मारबल के पाषाण में दृढ़ से दही जमाने (बनाने) की शक्ति है। दक्षिण भारत में आज भी कई मूर्तियाँ ऐसी हैं, जिनके अभिषेक जल के प्रयोग से सर्प विष भी उतर जाता है।

प्रतिमाओं में "सूर्यमंत्र" देने का अधिकार दिगम्बर साधु को ही है। जिस प्रकार अखिल विश्व को प्रकाश देने वाला सूर्य अखण्ड शक्ति का स्रोत है। आज का आधुनिक विज्ञान सूर्य ऊर्जा से कई यंत्रों को संचालित कर रहा है। अतः 'सूर्यमंत्र' को साधन रूप सिद्धि प्राप्त करने वाले कुशल वैज्ञानिक हमारे दिगम्बर साधु ही होते हैं। जिस मूर्ति का 'सूर्यमंत्र' मयभील, दृढ़ चरित्र साधु द्वारा दिया गया होगा, वह मूर्ति उतनी ही आकर्षक, चमत्कारी एवं प्रभावकारी होती है।

जल विद्युत का सुचालक है, सार्वभौमिक द्रव्य है, हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अतः जब यह जल जिन प्रतिमा पर अभिषिक्त होता है, तब मूर्ति के चारों ओर प्रवाहित होने वाला 'सूर्यमंत्र' का तेज-ऊर्जा उससे यह जल भी संस्कारित (चार्ज) होकर असाध्य रोगों को दूर करने में समर्थ हो जाता है। मैनासुन्दरी ने इसी गन्धोदक के माध्यम से अपने पति श्रीपाल सहित सात सौ कुष्टियों का कुष्ट रोग दूर कर दिया था।

लेकिन पुनः एक प्रश्न उठता है कि जब यह गन्धोदक असाध्य रोगादि को दूर करने में समर्थ है, इससे हमारे जीवन में होने वाली मानसिक-दैहिक-दैविक व्याधियाँ दूर क्यों नहीं होती हैं? आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आपने सुना होगा कि पारसमणि यदि लोहे से झूं जाये तो लोहा, सोना बन जाता है, परन्तु सोना बनने वाले लोहे के साथ एक शर्त यह भी है कि लोहा जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जंग तरे लोहे को पारसमणि से कितना ही कुआओ, वह लोहा सोना नहीं बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिन तन-मन में संसार

के विषय-कथाय सूर्पा जग लगी हो, उस शरीर को कितना ही गन्धोदक में स्नान कराओ, वह निरोग नहीं हो सकता है। अत गन्धोदक के प्रभाव को देखने के लिए पहले उसकी आस्था होना तो जरूरी है, किन्तु विषय-कथायो से उदासीनता-सयम-त्याग भी जरूरी है।

कुछ लोग विवाद या प्रश्न करते हैं कि गन्धोदक को उत्तमांग (मस्तक-गला तथा नाभि से ऊपर) ही लगाना चाहिए। जिस प्रकार औषधि, खाने की खाई जाती है, लगाने की लगाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से रोगग्रस्त अवस्था में गन्धोदक को सर्वांग में लगाने से कोई विरोध नहीं आता है क्योंकि मैनासुन्दरी ने पति सहित सात सौ कुटियों पर गन्धोदक छिटका था। तब क्या गन्धोदक गलित कुट्टों के घावों पर नहीं लगा? कहा भी है-

“जिण चरण-कमल-गंधोदएण  
तणु सिंचवि कलिमलु हणि उजेण ।  
संसार महावय णासठाइ  
पदि हियहं जेण सुह-भावणाई ॥”

अर्थात्-श्री जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का गन्धोदक लेकर जिसने अपने शरीर को सिंचित किया, उसने कलि-पाप मन का नाश करके, पवित्र हृदय में सुख की भावना को प्राप्त कर लिया। अतः इस विषय में भी हमें विवाद नहीं करना चाहिए।

## तिलक क्यों ?

“तिलक, भारतीय संस्कृति की सम्पत्ता की निशानी है।” तिलक देखकर ही व्यक्ति बिना पूछे ही उसे आर्सिक-धार्मिक समझता है। व्यवहार जगत में भी तिलक मगलता का प्रतीक माना गया है। रक्षाबन्धन, दीपावली आदि पर्वों पर एवं मेहमान होने पर, परदेश या युद्धभूमि में जाने से पूर्व तिलक का महत्व है। तिलक मस्तक पर लगाया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपत्ति-विपत्ति में ठाड़े दिमाग से काम लें। व्यक्ति के मस्तक के ठीक बीचों-बीच कुछ ऐसी नर्से आज्ञा चक्र में होती हैं जिन्हें दबाने से शरीर में, मन में कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। अतः मुख्यतः तिलक मस्तक पर लगाते हैं। पूजा विधि में नव स्थानों पर तिलक लगाया जाता है। तिलक बनाने में मुख्यता: चन्दन-केशर के साथ कपूर धिसकर प्रयोग किया जाता है। तिलक मस्तक पर लगते ही मस्तक का उपयोग बदलने लगता है, व्यान एकत्र होने लगता है। नारी को चन्दन-केशर की बिन्दी सूप तिलक एवं मनुष्य को मैं के समान लम्बा तिलक लगाना चाहिए। तंत्र विज्ञान के अनुसार तिलक लगे व्यक्ति से राजा-मंत्री, जज आदि पढ़े-लिखे उच्चस्तर के लोग भी प्रभावित होते हैं एवं उनके सौचे अनुसार कार्य भी कर देते हैं। अतः

तिलक भी प्रतिदिन लगाना चाहिए।

आज के व्यक्ति तिलक लगाने में शर्म करते हैं या निसने तिलक लगा रखा है, उसकी मखौल-मजाक उड़ाते हैं कि लो । ये आ गये तिलकधारी । पण्डित । पुरारी ॥ जनेऊथारी । आदि-आदि । अतः आप स्वयं सोचें कि ऐसे लोगों के जीवन में जब धार्मिक चिन्हों की उपेक्षा-अवहेलना होती है, तब क्या वे स्वयं इस पवित्र धर्म की आराधना कर पायेंगे ? हाँ ! कोई तिलक लगाकर जनेऊ पहनकर गलत काम करे तो गलती तिलक, जनेऊ की तो नहीं हो जायेगा ? कोई दीपक लेकर कुर्ये में गिरे तो गलती किसकी ? अतः तिलक लगाने में यदि स्वयं को शर्म लगे तो तिलक लगाने वाले का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए । किन्तु स्वयं भी तिलक लगाकर धार्मिकता से गौरवान्ति होना चाहिए ।

कुछ लोग तिलक की, जनेऊ की इसलिए उपेक्षा करते हैं कि तिलक लगाकर, जनेऊ पहनकर धार्मिकता को दिखाने से क्या नाश ? धर्म दिखावे का नहीं, अन्तरग (मन) साफ होना चाहिए । हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आपको धार्मिक चिन्हों को ही धारण करने में गलानि है, तब आपको मन साफ कैसे हुआ ? जिसे खाकी वडी पुलिस की, गहरे हरे रंग की वडी मिलिट्री की, काले रंग का कोट बर्कील का पहनने में शर्म-संकोच होगा, क्या वह राष्ट्र-देश-प्रान्त के कानून की रक्षा कर सकेगा ? आप स्वयं सोचें-विचारें ?

## परिक्रमा क्यों ?

गन्धोदक-तिलक लगाने के बाद वर्षी की तीन प्रदक्षिणा (परिक्रमा) लगानी चाहिए । जहाँ परिक्रमा नहीं, हो वहाँ विकल्प नहीं करना चाहिए । ये तीन प्रदक्षिणा जन्म-जरा-मृत्यु के विनाश हेतु तथा मन-वचन-काय में भक्ति की प्रतीक रूप, बाये हाथ से दाये हाथ की तरफ लगायी जाती है । क्योंकि “आत्मनः प्रकृष्ट दक्षिणीकृत्य अथनं-गमनमिति प्रदक्षिणा” इस व्युत्पत्ति कि अनुसार जो गुणों में श्रेष्ठ हो, उन्हें अपने दक्षिण-पार्श्व (दाहिने हाथ की ओर) रखते हुए जो गमन किया जाये, वही ‘प्रदक्षिणा’ कहलाती है । यह एक व्यवहारिक नियम है कि प्रकृति के कृत्रिम-अकृत्रिम वंत्र जैसे घड़ी, पंख, नक्खों का गमन आदि दाहिनी ओर से ही होता है । इनका बायीं ओर चलना अशुभ है । शादी की भाँवरें भी मंगलता का सूचक है, दायीं ओर से ही लगायी जाती हैं । लोक व्यवहार में पुरुष को उत्तम मानने के कारण से, किसी भी विशेष कार्य में स्त्री को वारीं और रखते हैं और पुरुष को स्त्रियों के दाहिनी ओर छड़ा करते हैं । इसलिए ही सम्भवतः लोक व्यवहार में नारी को ‘वामांगी’ कहा गया है । मंदिर जी भी समवशरण का प्रतीक माना है । अतः चारों दिशाओं में विद्यमान भगवान की छवि अवलोकन करने की शावना परिक्रमा करते समय होनी चाहिए । इस प्रकार परिक्रमा करते समय भी कोई सुन्ति, स्तोत्र, पाठ आदि बोलते रहना चाहिए ।

तीन प्रदक्षिणा टेने के बाद पुनः वेदी के एक ओर खड़े होकर नवबार णमोकार मत्र जपना चाहिए। बहुत से व्यक्ति बहुत जल्दी णमोकार मत्र पढ़कर धौंक लगाकर घर चले जाते हैं और इतने में ही देव दर्शन की विधि को पूरा समझ लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि नवबार णमोकार मंत्र पढ़ने में २७ श्वासोच्छवास का समय लगता है? इतने समय में ही नवबार णमोकार पढ़ना चाहिये, तभी उस मत्र पढ़ने का फल मिल सकता है।

### भोगों के भिखारी

कई-कई लोग मंदिर जी में ब्रिन्कुल मौनपूर्वक आते हैं एवं नमस्कार-परिक्रमा आदि चुपचाप लगाकर बाहर चले जाते हैं। न कोई भक्ति, न कोई स्तुति। इस प्रकार की प्रक्रिया देखकर ऐसा लगता है कि-

धीरे से दर्शन करना, प्रभो! कहीं जाग न जायें।

कल हम धोका देके गये थे, आज भी धोका देने आये हैं॥

जैसे कि उनके मन में चोर धुसा हो, आहट होने पर भगवान के जागने की सम्भावनायें हैं। पहले कई बार हम भगवान को धोका दे करके गये। आज भी धोके से दर्शन करने आया हूँ। भक्त को डर है कि कहीं भगवान जाग गये तो हमसे कहीं कुछ माँग न बैठें। क्योंकि जो स्वयं मंदिर जी में भगवान से माँगने आया हो, वह मंदिर जी में भगवान को क्या दे सकता है?

भूले से आज मैं मन्दिर आया हूँ,  
ये न समझना कुछ त्यागने आया हूँ।  
मैं तो दीवाना हूँ भोगों का जग में,  
यहाँ भी भोगों को माँगने आया हूँ॥

कई लोग भगवान के सामने पञ्चेन्द्रिय के भोगों के भिखारी बनकर आये। भगवान से क्या नहीं माँग? जो नहीं माँगना चाहिए वा, ऐसे धन-स्त्री-पुत्र, कारखाना, नौकरी, व्यापार, हार-जीत, या यूँ कहें कि पाँच पापों की सामग्री। पर कभी हम लोगों ने विचार किया कि हम किनसे क्या माँग रहे हैं? जो पाँच पापों के त्यागी हमेशा के लिए हैं, उन्हीं से हम पाँच पापों की सामग्री माँग रहे हैं, तुच्छ इन्द्रियों की सम्पदा याच रहे हैं। अरे! माँगना ही है तो कुछ शाशक्त माँग, जो कभी हमसे अलग न हो, नष्ट नहीं हो-

इन्द्रादिक पदवी न चाहूँ, विषयों में नाहि लुभाऊँ।  
रामादिक दोष हरीजी, परमात्म निज पद दीजी॥

अतः भगवान के सामने कभी तुच्छ भोगों के भिखारी मत बनो । विराट सम्पदा के स्वार्थी बनो । भगवान के सामने भोगों के भिखारी बनकर मत आइये । बन्धिक भोगों के त्यारी बनकर, उच्चकोटि के दाता बनकर जाइये, तभी देव दर्शन का सही लाभ हो सकता है ।

## प्रशस्तिकरण

नवबार णमोकार मंत्र पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को श्री जिन प्रतिमा जी के चरणों में एकाग्र करके विचारना चाहिए कि, जिन मूर्ति के श्री चरणों से दिव्य ज्योति रूप किरणें उत्पन्न होकर, हमारे हृदय कमल को आकर छू रही हैं जिससे हमारा हृदयकमल विकसित हो रहा है, खिल रहा है । पुनः भगवान के आदर्श पवित्र जीवन सूत्रों को याद करो कि हे प्रभो ! आपने पॉचो पापों को पूर्णतः त्यागकर इस परम पावन पद को प्राप्त किया है, आप धन्य हैं आदि आदि । पुनः दो-तीन बार उस मूर्ति को आप ऊपर से नीचे की ओर ध्यान से देखे । नीचे आमन पीठिका पर प्रशस्ति खुदी है ।

नगभग ग्यारह-बारह सौ वर्ष पहले प्रतिमाओं पर प्रशस्ति लेख नहीं खोदे जाते थे । मात्र बड़े-बड़े शिलालेखों पर गुफाओं में, दीवानों आदि पर शिला लेख उत्कीर्ण किये जाते थे । पुनः जिन प्रतिमाओं पर प्रशस्ति की पद्धति कब-कैसे प्रारम्भ हुई ? इसका कोई शास्त्रोक्त उल्लेख नहीं मिलता । किर भी विन्तन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि हजार वर्ष के लगभग दिगम्बर आचार्यों के सघ भेद जैसे- कष्ट संघ, पुन्नाट संघ, मधुरा संघ, द्राविड संघ आदि-आदि । अतः इन संघ भेदों, के विवाद से बचने के लिए मूल संघ, नाम से प्रशस्ति को प्रतिमा पर उत्कीर्ण किया जाने लगा । स्वस्ति श्री वीर निर्वाण सम्बृद्ध.....श्री कुन्दकुन्दाचार्यमाये मूल संघे सरस्वति गच्छे बलात्कार गण.....आदि सूर्यमंत्र प्रदाता आचार्य मुनि के साथ ही प्रतिष्ठाचार्य एवं मूर्ति निर्माता का नाम भी खुदा रहता है ।

प्राचीन शिलालेखों के अनुसार जब जैन धर्म के दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दो भेद हुए तब, 'मूल संघ' दिगम्बर जैनों का हुआ । क्योंकि बारह वर्ष का अकाल पड़ने से दिगम्बर साधुओं में से ही श्वेताम्बरधारी बने, अतः मूल संघ दिगम्बर धर्म का ही रहा । इसी मूल संघ की शुद्ध परम्परा को कुन्दकुन्दाचार्य देव ने सुरक्षित रखा, तभी से प्रशस्ति में कुन्दकुन्दाचार्य का नाम मूल संघ के साथ बहुमान हेतु उत्कीर्ण किया गया । 'सरस्वति गच्छे' का तात्पर्य है, सरस्वति यानि 'ज्ञान' गच्छ का मतलब है कि 'सात पीड़ियाँ' अर्थात् जिनका ज्ञान सात पीड़ियों से प्राप्तिशील, विशुद्ध एवं निर्विवाद रहा हो । अतः कुन्दकुन्दाचार्य को जो ज्ञान प्राप्त था, वह ज्ञान भगवान महावीर, गौतम गणधर एवं अन्य श्रुत केवलियों की सात पीड़ियों से

निविवाद-सुरक्षत उपलब्ध हुआ था। इसकी प्रामाणिकता भी समयसार के मग्नाचरण में 'मिनमो सुय केवली भगवं' से सिद्ध है। अतः तभी से 'सरस्वती गच्छ' इस प्रकार से प्रमाणित करने के लिए लगाया गया है।

यह तो हमारे समझ में आ गई किन्तु प्रशंसित में यह 'बलात्कार गणे' क्यों निखा है? यह हमारे समझ में नहीं आता। सुनो! इसके पीछे एक घटना है कि जब बारह वर्ष के अकाल में श्रमण मस्कुलि के दो टुकडे दिगम्बर-इवेताम्बर समूह में हो गये। उसके कुछ समय बाद दोनों सम्प्रदाय के अचार्य गिरनार पवत की बद्धना हेतु पधारे। दिगम्बर मुनि संघ के नायक जगत्प्रसिद्ध कुन्दकुन्दाचार्य थे एवं इवेताम्बर संघ के स्थलभद्राचार्य थे। तब इन दोनों समूहों में पवत की बद्धना को लेकर कुछ विवाद हुआ कि हम पुराने हैं, बड़े हैं, सच्चे हैं। अतः सबसे पहले गिरनार पवत की बद्धना हम करेंगे। इस प्रकार के विवाद को सुलझाने के लिए एक तरीका खोजा गया कि इस पवत की अधिष्ठात्री अधिकारी देवी जिसे पहले कह देंगी, वही पहले, पुराना एवं स्तन्ना माना जायेगा और वह सबसे पहले पवत की बद्धना करेगा।

यह प्रमाण दोनों पक्षों को मान्य नहीं। सबसे पहले इवेताम्बर आचार्य ने अधिकारी देवी को बुलवाने की अशक्त वेष्टा दी, किन्तु अधिकारी देवी प्रगट नहीं हुयी और नहीं कुछ हा। ना का जवाब दिया। नेकिन जब दिगम्बराचार्यजी श्री कुन्दकुन्दाचार्यजी ने जोर देकर कहा कि मच थोन, कौन पहले के है? नव आधिकारी देवी प्रगट होकर आवाज देती है कि "आद्य दिगम्बर-आदि दिगम्बर, सत्य पथ निरग्रन्थ दिगम्बर!" इस प्रकार जोर देकर जबरन (बलात) बुलवाने से इस गण का नाम 'बलात्कार गण' प्रसिद्ध हुआ। तभी से प्रशंसित में यह शब्द भी उल्लिखित किया जाने लगा। तभी तो कहा कि-

संघ सहित श्री कुन्दकुन्द गुरु, बद्धन हेतु गये गिरनार।

दाद पद्मो तहैं संशयमति सों, साक्षी वदी अधिकाकार॥

सत्य पंथ निरग्रन्थ दिगम्बर, कहीं सुरी तहैं प्रगट पुकार।

सो गुरुदेव बसौ उर मेरे विघ्न हरण भंगल करतार॥

इसी परम्परा का निर्वाह समन्नभद्राचार्य जैसे दिगम्बर गुरुओं ने किया है। देश-देश के राज्यों की राज्य सभाओं, वादशालाओं में जा-जाकर जैन धर्म के सत्य स्वरूप को बलात् (जबर्दस्ती) प्रगट करके, जैन धर्म की प्रभावना की। शुभचन्द्राचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रन्थ में लिखा है-

धर्मनाशे क्रियाध्वंसे, सुसिद्धान्त सुविप्लवे।

अपृष्ठेऽपि वक्तव्यं, एतत्स्वरूप प्रकाशनं॥

यानि जहाँ धर्म का हक्क हो रहा हो उक्या नष्ट हो रही हो एवं सुसिद्धान्त यानि जैन सिद्धान्त शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ किया जा रहा हो, वहाँ बलात् (जबर्दस्ती) दूसरे के बिना पूछे ही

बोलना चाहिए, बतलाना चाहिए कि धर्म, क्रिया एवं सिद्धान्त का यथार्थ स्वरूप यह है।

## चिन्हकरण

इतनी प्रशस्ति पढ़ने के बाद उसी आसन के ठीक बीचोंबीच एक चिन्ह अंकित होता है। जिन तीर्थकरों की प्रतिमा होगी, उन पर उन्हीं तीर्थकरों का कोई एक चिन्ह होता है। अब प्रश्न उठता है कि इन तीर्थकरों के चिन्ह क्यों होते हैं? इन चिन्हों का तीर्थकरों के पूर्व भव से क्या कोई सम्बन्ध हो सकता है? जैसे- आदिनाथ का बैल से, पाश्वनाथ का सर्प से, महावीर का सिंह से इसी प्रकार अन्य तीर्थकरों के इन चिन्हों का निर्धारण कैसे, कब और कौन करता है? इत्यादि।

प्रायः मभी तीर्थकरों का सम्प्राप्ति समचतुष्प होने से उनकी पहचान नहीं हो सकती। केवल हुण्डापसर्पिणी काल के कारण आठ तीर्थकर भिन्न रग के एवं सोनाह तीर्थकर तपे सोने रंग के हुए, अन्यथा हमेशा चौबीसों तीर्थकर तपे सोने के रग के ही होते हैं। अतः तीर्थकरों की पहचान के लिए चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों का तीर्थकरों के पूर्व भव से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि कई तीर्थकरों के चिन्ह सौयिया, चन्द्रमा, वज्रटण्ड, कलश आदि हैं, इन चिन्हों में जीव पर्याय का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये अचेत अजीव हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि इन चिन्हों का उन तीर्थकरों की पूर्वपर्याय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ससार में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, उन सभी के शरीर में कोई न कोई शुभ या अशुभ चिन्ह होते हैं, यह सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता पुरुष मानते हैं। जो शुभ चिन्ह होते हैं, शुभ फल देते हैं। अशुभ चिन्ह अशुभ फल देते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता पुरुष मानते हैं। अतः तीर्थकरों जैसे महापुरुषों के जन्म से ही शरीर में एक हजार आठ शुभ चिन्ह होते हैं। जो चिन्ह उनके दाहिने पैर के अंगूठे में होता है, उस चिन्ह को जन्माभिषेक के समय सुमेरु पर्वत पर सौधर्मन्द द्वारा घोषित किया जाता है। कहा भी है-

जम्मण काले जस्ते दु दाहिण पायम्भि होइ जो चिण्णाँ।  
तं लक्खण पाउत्तं आगम सुत्तेसु जिण देहं॥

अतः इस प्रकार सिद्ध है कि तीर्थकरों के चिन्ह क्यों, कब और कैसे रखे जाते हैं?

आज बस इतना ही  
बोलो महावीर भगवान की.....

सौम्या: सर्व-विकार भाव-रहिताः, शान्ति स्वरूपात्मकाः ।

शुद्धध्यानमया: प्रशान्त-वन्दनाः श्री प्रतिहार्यान्विताः ॥

स्वात्मानन्द विकाशकाश्च सुभगाश्चैतन्य भावावहाः ।

पञ्चानां परमेष्ठिनां हि कृतया, कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥

जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की .....

शारदे ! शरद-सी शीतल.....

जय बोलो श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की.....

जय बोलो परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज की.....

जय बोलो अहिंसामयी विश्व धर्म की.....

कल आपने सुना था अभिषेक, तिलक, परिकमा, प्रशस्ति, विन्हकरण आदि के बारे मे।

आज आप सुनेंगे कि जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा आपसे क्या कह रही है ?

## जिन बिम्बोपदेश

आज के भौतिकवादी युग मे व्यक्ति की इंश्वरीय आस्था बदल गई, लोगों ने आधुनिक धर्म के परिपालन हेतु घर में उसकी पूर्णतः व्यवस्था कर ली है। इसलिए कहना पड़ा कि-

भौतिकता के युग का देखो धर्म कि कितना सुन्दर है।

टी. वी. घर का चैत्यालय है नगर सिनेमा मंदिर है।

यदि भूले से मंदिर जी आ भी गये तो भागते-भागते, पाँच-दस-पन्द्रह मिनट मे दर्शन करके चल दिये, इसी में अपनी शान समझ ली और भगवान के ऊपर एहसान कि हे भगवान ! देख ने तू मी कि मैं इतने व्यस्त जीवन में भी तेरे दरबार में आता हूँ। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने इतने समय में मंदिर आकर दर्शन करने में क्या उपलब्धि की ? तब आप यही कह सकते हैं कि इतनी देर हमें शान्ति मिलती, जब तक हम मंदिर जी मे रहते हैं। अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो थोड़ी देर के लिए मिलती है, उसका नाम शान्ति नहीं है। शान्ति का स्वरूप तो जीवन में एक बार प्रगट हो गया तो स्थायी हो जाता है। यदि आपने थोड़ी देर के लिए शान्ति अनुभव मान भी लिया तो क्या ? जो व्यक्ति चौबीसों घण्टे मानसिक पीड़ा-सकल्प-विकल्पों से गुजरता है, वह पीड़ा मंदिर जी में आकर थोड़ी बदली हुई लगेगी। लेकिन पाँच, दस-पन्द्रह मिनट में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इतने समय में तो बाहर के संकल्प-विकल्पों को भी विश्रान्ति नहीं मिल पाती और पुनः बाहर निकलते ही संकल्प-विकल्प तीव्रता से शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बिजली का पंखा चौबीसों घण्टे

चलता रहे तो उसका आर्मेचर गर्म हो ही जाता है । जब आप पंखा बंद करते हैं तो थोड़ी देर तक तो पंखा बिना करेट के पूर्व संस्कार से धूमता रहेगा । लेकिन आर्मेचर को ठण्ठा होने के लिए कम से कम घट्टे भर का समय तो अवश्य चाहिए । अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हमारी बुद्धि-मन-विचार चौबीसों घटे विषय-कथाओं में धूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उन्हीं से संस्कारित हो रहे हैं । तब क्या हमारा पाँच-दस पन्द्रह मिनट के मन्दिर आने मात्र से उन विकारों की, विकल्पों की समाप्ति हो सकती है ? उन विकारों की समाप्ति के लिए, शुभ संस्कारों की जागृति के लिए कम से कम एक घटे का समय हमें प्रतिदिन देना होगा । अन्यथा जब हम भगवान के दर्शन कर रहे होंगे, मात्रा जप रहे होंगे, तब हमें सासार के सकल-विकल्प ही सुनाई पड़ते हैं /टिखाई पड़ते हैं । इसलिए अध्यात्म के अनुरागी अमृतचन्द्राचार्य जी ने जीवों के विकल्प समाप्ति हेतु निम्न कारिका कही है-

विरम कि-मपरेणाऽकार्यं कोलाहलेन,  
स्वयमपि निष्पृतः सन् पश्य षष्मास मेकः ।  
हृदय सरसि पुन्सः पुद्रगलाद् मिन्न धाम्नो,  
ननु कि-मनुपलविष्यः भाति किञ्चोपलविष्यः ॥ ३४ ॥ (समयसागर कलश)

हे भव्य ! विराम ले, विराम ले, पर के (विषय-कथाओं) के कोलाहल से विराम लेकर, तृ स्वयं अपने मे स्थिर होकर छह महीने तक अपने स्वरूप को देखने का अभ्यास कर । ऐसा करने से तुझे अपने हृदय सरोवर में पुद्रगल तत्व से भिन्न, ज्ञान तेज से प्रकाशमान तेरी आत्मा तुझे दिखलाई पड़ेगी ।

यथार्थ मे जहाँ हमारे आचार्य प्रभो आवाज दे रहे हैं कि तू छह महीने तक विषय-कथाओं के विकल्पों से विराम लेने की चेष्टा करते हुए अपने आप मे स्थिर होने का पुरुषार्थ कर । यहाँ हमारे पास छह महीने क्या, छह घटे का भी समय नहीं है । छह घटे क्या ? आधा घटे का समय भी निराकुलतापूर्ण नहीं है अपने लिए, आत्मोत्थान के लिए । फिर हम आत्म कल्याण के लिए क्या कल्पना, साधना कर सकते हैं ?

आज तक हमने मन्दिर मे आकर, प्रभो के सामने खड़े होकर भी, प्रभो ! की आवाज नहीं सुनी । परमात्मा के सामने खड़े होकर भी पापों की आवाज-कोलाहल सुनाई दिया । जब तक हमें भगवान के सामने खड़े होकर भी विषय कथाओं का कोलाहल-आवाजे सुनाई देती रहेंगी, तब तक हमारा मन्दिर जी आना सार्थक नहीं होगा । अतः अब थोड़े समय के लिए संसार के इन विषय-कथाओं की आवाजों को, पापों के कोलाहल को सुनना बंद करो । बन्द करो !! बन्द करो !!! और अपने प्रभो ! परमात्मा, ईश्वर, भगवान की आवाज को सुनो ! तुम्हारा प्रभो तुम्हें पुकार रहा है । तुमसे कुछ कह रहा है । यदि तुम्हें उनकी आवाज

सुनाइ नहीं देती तो तुम्हीं उनकी ओर देखो, उनके स्वरूप को देखो ! उनसे पूछो कि इस तरह हाथ पर हाथ रख पद्मासन में क्यों बैठे हो? निश्चल समपाद कायोत्सर्ग मुद्रा में क्यों खड़े हो?

तुम्हें उत्तर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, पूछोगे तो जरूर मिलेगा। वे कह रहे हैं कि जैन धर्म में अरिहन्तों की प्रतिमायें दो ही मुद्राओं में मिलती हैं- एक पद्मासन दूसरी खडगासन। ये दोनों ही आसन योग मुद्रा के प्रतीक हैं यानि इन मुद्राओं से, इन महापुरुषों ने मन-वचन-काय का सम्पूर्ण प्रकार से निरोध कर लिया है या इनने मन-वचन-काय की कुटिलता को जीत लिया है, ऐसा प्रतिमासित हो रहा है। इनके अलावा अन्य मुद्राओं से अहंकार, कषाय-गग-द्वेष आदि प्रतिभासित होते हैं। पद्मासन प्रतिमा के हाथ पर हाथ रखे हुए हैं जिससे भगवान का कृत्य कृत्यपना प्रकट हो रहा है क्योंकि “संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जिसे कुछ भी करना बाकी न रहा हो।” अर्थात् जिन्हें अपने हाथों से कोई भी कार्य करना शेष नहीं रहा हो। आशीर्वाद और श्राप से भी जिनके हाथ दूर हैं। वे हमसे कह रहे हैं कि-

जिस करनी से हम भये, अरिहंत सिद्ध महान।

दैसी करनी तुम करो, हम तुम एक समान॥

एक स्थान पर खडगासन-कायोत्सर्ग मुद्रा होने से, जिनको संसार में परिभ्रमण करना आर्की नहीं रहा, कायोत्सर्ग मुद्रा से इस बात का संकेत मिल रहा है, क्योंकि संसार में भ्रमण काने के लिए पैरों के महारे चलना पड़ता है जिससे पैरों के साथ भी आगे पीछे हो जाते हैं। परन्तु इनकी स्थिर मुद्रा पाप-पुण्य रूप ससार परिभ्रमण की यात्रा को पार कर गये हैं, ऐसा सकेत मिल रहा है।

इसके बाद आप थोड़ा ऊपर की ओर देखते हैं, प्रतिमा में छाती (वक्ष) पर चार पांखुड़ी का एक फूल-सा बना है। यह फूल क्या है? किस बात का प्रतीक है? सुनो! यह चिन्ह तीर्थकरों के एक हजार आठ शुभ चिन्हों में से श्रीवत्स नाम का चिन्ह है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी एवं वत्स का अर्थ है पुत्र अर्थात् जिनको अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख एवं अनन्तवीर्य रूप अन्तरंग अनन्त चतुष्टय लक्ष्मी प्राप्त हुई है एवं बहिरंग में भी समवशरण आदि लक्ष्मी से शोभायमान हैं, ‘श्रीवत्स’ चिन्ह यानि लक्ष्मीपुत्र, नियम से तीर्थकरों के होता है। अरिहंतों के होने का नियम नहीं है। जैसे- भरत-बाहुबली की मूर्तियों पर श्रीवत्स चिन्ह नहीं होता। अतः इससे सिद्ध है कि श्रीवत्स चिन्ह तीर्थकरों के नियम से होता है।

इसके बाद थोड़े ऊपर की ओर देखने से लगता है, “छवि दीतरामी नगन मुद्रा ‘दृष्टि नासा पै धरौ’। मन्द मुस्कानयुक्त मुख, इसका अर्थ है कि जिनका हृदय कमल अन्तरंग ज्ञान

से सुशोभित है, खिला हुआ है। इस के ग से उनके मुख कमत पर भी वह निर्विकार मुस्कान झलक रही है। नासाग्र दृष्टि होने का अर्थ है जिन्होंने अन्तरात्मा का दर्शन कर स्वरूप में लीन हो, “परमात्मा” का पावन पद प्राप्त कर लिया है क्यों कि बहिरात्मा जीव के काम-क्रोध-मद-लोभ की जागृति होने पर उसकी आँखों-पलकों-झौंडों में विकार अवश्य आता है। लेकिन जिनके काम-क्रोध-मद-लोभ स्वरूप विकार नष्ट हो गये हैं, जो बहिरात्मपने के भाव को छोड़कर, अन्तरात्मा के स्वरूप को प्राप्त होते हुए सकल परमात्मा स्वप पद को प्राप्त कर गये हैं। उसी स्वरूप का अवलोकन कर रहे हैं। इसलिये उनकी नासाग्र दृष्टि है।

प्रतिमा के सिर पर जो गोल-गोल धूधराले-धूधराले छल्ले केश-बाल के स्वप में बने हुए हैं। जानते हैं आप- ये क्या है? यह बाल या केश नहीं हैं, इन्हे केश नहीं कहते हैं। उन्हें ‘सीताये’ कहते हैं। ये सीताये उन्ही महान आत्मा के होती हैं जिनके रागादि विकारों से रहित होकर, श्वासोच्छवास का प्रवाह नासिका के छिद्रों से न होकर, स्वमेव बिना इच्छा के तालु के बाल की अर्णी के आठवें भाग प्रमाण, अति सूक्ष्म छिद्र से निकलता हैं। यानि नासिका के छेद से नहीं निकलकर तानु रन्ध्र या ब्रह्मरन्ध्र से निकलती है, यह पूर्ण स्थर्या के वायु का निरोध स्वमेव स्वाभाविक होता है, बाधापूर्वक नहीं होता है। क्योंकि मस्तिष्क से ऊर्जा का नीचे की ओर प्रवाहित होना, भौतिक जगत में प्रवेश है। इससे सांसारिक सुख का अनुभव होता है। लेकिन काम-केन्द्र की ऊर्जा का ऊपर की ओर जाना अध्यात्म उन्नति का कारण है। इससे आर्तिक सुख की अभिवृद्धि होती है।

शरीर विज्ञान के हिसाब से भी शुषुम्ना में ये गाँठे ब्रह्मरन्ध्र वायु के वेग-विशेष से खिलती हैं, यह मनुष्य के शरीर में होने वाली विघ्नु की गति का परिवर्तन है। क्योंकि इस विघ्नु के अध्योगति यानि नीचे जाने से इन्द्रिय भोग आदि का सुख मिलता है एवं ऊर्ध्वगमन करने से वह अपनी धन-ऋण विघ्नु के मिलने से ब्रह्मचर्य का प्रकाश होता है, जिससे शक्ति की वृद्धि तो होती ही है। लेकिन जीवन में स्वतंत्र स्थायी पूर्ण सुख मिलने लगता है। जिनकी शक्ति अपने मेरमण करती है, उन्हीं को आचार्य योगी या उच्चरीतसु कहते हैं।

शरीर विज्ञान की प्रणाली से ही इस मस्तिष्क के चार मुख्य भाग हैं- १. प्रमस्तिष्क (cerebrum), २. अनुमस्तिष्क (cerebellum), ३. मञ्जा सेतु (mons varolii), ४. शुषुम्ना (Medulla Oblongata)। इन चार भागों में बैठे होने पर भी हमारा मस्तिष्क एक गहर विदर से दो गोलाख्तों में बैठा हुआ है। लेकिन इस विदर के नीचे दोनों भाग तंत्रिका तन्तु द्वारा जुड़े हुये हैं। प्रथम प्रमस्तिष्क में अनेकों गहरी सीतायें-वृत् सिकुड़ने होती हैं अर्धात् बहुत सी लहरिकायें होती हैं जिनका व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से भी घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। ये लहरिकायें या धाईयाँ या छल्ले जितनी अधिक मात्रा में होती हैं, मनुष्य

उतना ही बुद्धिमान होता है। अतः इससे सिख्द है कि ये सिर के छल्ले बाल केश नहीं हैं। बालिक योग साधना के माध्यम से प्राप्त की गई ऊर्जा के केन्द्र हैं। यही ऊर्जा केन्द्र प्रारम्भिक दशा में बीजबुद्धि, कोष्ठबुद्धि आदि ऋचियों के रूप में ज्ञान के संग्राहक भी होते हैं। आपने बड़े-बड़े वैज्ञानिकों, दार्शनिकों के बालों को गौर से देखा होगा। उनके बालों में छल्ले या लहरियाँ आती हैं। यही धीरे-धीरे ज्ञान की परिपक्व दशा में मस्तिष्क को आवृत्त करती हैं और पूर्ण संयम साधना से “सीतार्थे” का रूप से नेता हैं।

इसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिमा के ऊपर तीन छत्र लगे हुये हैं। कहीं- कहीं छत्र उल्टे लगाते हैं यानि सबसे छोटा नीचे एवं सबसे बड़ा ऊपर, जबकि बास्तु शास्त्र के हिसाब से सबसे नीचे बड़ा एवं सबसे ऊपर छोटा छत्र लटकाना चाहिये, तभी उन छत्रों का प्रभाव होता है। ये तीन छत्र भगवान के तीन लोक के स्वार्मा अधिपति होने का संकेत देते हैं।

कहीं-कहीं प्रतिमा जी के ठीक मस्तक के पीछे गोल भामण्डल या तो थातु के बने टॉरे होते हैं या रंग से बने होते हैं। भामण्डल की आणा साक्षात् समवशरण में भगवान के पूर्ण निर्मल ज्ञान के विकास का सन्देश देती है कि अब इसके आगे विकास की कोई उम्मीद या गुंजाइश नहीं है। आपने सुना होगा पढ़ा होगा कि भगवान के समवशरण में जो भामण्डल होता है, उसमें भव्य जीव अपने सात भव (तीन आगे के, तीन पीछे के, एक वर्तमान) देख सकता है। क्या यह सम्भव है? हाँ, एकदम सम्भव है। आज के वैज्ञानिक युग में कम्प्यूटर की स्क्रीन पर, बटन दबाते ही पिछला नेहा-जोहा आ जाता है। आगमी भवों की पर्यायों के परमाणु भी इस भामण्डल की पकड़ में आ जाते हैं। अतः जब कोई भव्य जीव इस प्रकार से चिन्तन करे कि हमारा इस भव से पहला, दूसरा या तीसरा भव क्या था या क्या होगा या वर्तमान भव में क्या है? तो वह तुरन्त ही हिसाब लगाकर भामण्डल पर झलक जायेगा। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही है जैसे टी. वी. का चैनल बदलने के लिये रिमोट कंट्रोलर कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से भावनाओं के रिमोट से भामण्डल रूपी टी.वी.पर आपके भवरूपी चित्र दिखते हैं।

आपने सुना, पढ़ा होगा कि समवशरण में भगवान के ऊपर एक अशोक वृक्ष भी होता है। अतः समवशरण की प्रतीक रूप वेदी में भी अशोक वृक्ष को रंग से बनवा देते हैं। क्या आप समझते हैं, अशोक वृक्ष क्या है और इसका महत्व क्या है? आचार्य प्रभो! आगम-शास्त्रों में लिखते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे तीर्थकर दीक्षा लेते हैं या उन्हें केवल ज्ञान होता है, वही वृक्ष अशोक वृक्ष भी इस सदेश का प्रतीक है कि जो भी भव्य जीव धर्म का आश्रय लेते हैं, वे शोक रहित हो जाते हैं।

आपने सुना, पढ़ा या चित्र में देखा होगा कि तीर्थकर महावीर जंगल के एक रास्ते से निकल

रहे थे। उन्हें एक चण्डकौशिक नाम के सर्प ने पैर में डस लिया। महावीर आशीर्वाद मुद्रा में खड़े रहे। सर्प ने देखा, मैंने आज तक जितने व्यक्तियों को काटा, लाल खून निकला और हमारे काटते ही वे प्राणांत हो गये। लेकिन इस व्यक्ति को काटने से, इसके शरीर से सफेद खून निकला और यह व्यक्ति निश्चल खड़ा है। अवश्य ही कोई महापुरुष है। महावीर ने उसे उपदेश दिया। सर्प ने हिंसा करना छोड़ दिया।

कहने का तात्पर्य क्या है? तीर्थकरों के शरीर में जन्म से ही हमारे समान लाल रक्त (खून) नहीं होता, दूध के समान श्वेत रक्त होता है। श्वेत रक्त होने का भी अपना एक वैज्ञानिक कारण है, विज्ञान कहता है कि मनुष्य के शरीर में लाल रुधिर कणिकायें एवं श्वेत रुधिर कणिकायें पाई जाती हैं। जिस व्यक्ति का हृदय काम-क्रोध-मद-लोभ, विषय-क्रोध आदि हिंसाजन्य प्रवृत्ति, मासाहारी भोजन से साहित है, उनमें लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा अधिक पाई जाती है। परन्तु जिनका हृदय प्रेम-करुणा-दया-वात्सल्य, पूजा-दान आदि की भावनाओं से भरा होगा, उनके रुधिर में श्वेत कणिकाओं की मात्रा अधिक होगी है।

अत जब योड़ी सी दया, प्रेम, वात्सल्य से रुधिर में श्वेत रुधिर की कणिकायें अधिक बढ़ती हैं, तब जो सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों के प्रति वात्सल्य भावना-प्रेम-करुणा से भरा होगा, उसके समस्त शरीर में सफेद रुधिर हो जाये तो कौन-सा आश्चर्य है? क्योंकि सोलह कारण पूजा में आप पढ़ते हैं- “वात्सल्य अंग सदा जो व्यावै, सो तीर्थकर पदवी पावै।” तीर्थकर नाम कर्म, की प्रकृति बंध कराने में वात्सल्य को प्रमुख माना है। लोक व्यवहार में भी जब पाता का हृदय अपने बच्चे के प्रति प्रेम वात्सल्य से भरा होता है तो उसके स्तन से दूध निकलता है, अन्यथा नहीं। जब योड़े से वात्सल्य में माता के स्तन में सफेद दूध होता है, तब तीन लोक के जीवों से वात्सल्य रखने वाले के समस्त शरीर में दूध ही दूध हो जाये तो कोई आश्चर्य नहीं है।

इस प्रकार वेदी के सामने बाजू में बैठकर या खड़े होकर भगवान की मूर्ति के साथ ही उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों को। जैसे-अहिंसा-संयम-तप आदि के बारे में भी विचार करना चाहिये और भावना करना चाहिये कि हे भगवान! आप वीतराणी हैं, हम वित्तराणी (घन-सम्पद के लालची) हैं। आपके समान अनुपम स्वरूप को उपलब्धि हमें भी हो। पुनः वेदी की प्रयोक छोटी बड़ी प्रतिमाओं को एक-एक करके व्यान से एकटक देखना, कौने से तीर्थकर की मूर्ति है, पाषाण की है या धातु की, पूरी वेदी में कुल कितनी मूर्तियाँ हैं, छत्र-चंद्र भाषण्डल आदि उपकरणों से वेदी किस प्रकार सजी है, वेदी किस ढंग से बनी है आदि आदि।

कई लोग वेदी के सामने खड़े होकर या बैठकर ऊँचे बन्द तो कर लेते हैं। लेकिन बन्द ऊँचों में उन्हें क्या दिखता है? आप मंदिर जी में दर्शन करने आये हैं, देखने आये

हैं, आँखें बन्द करने नहीं आये हैं। हाँ ! प्रारम्भ में मन्दिर जी में वेदियों की प्रत्येक मूर्ति के स्वरूप को गौर से देखो, न जाने किस मूर्ति का सूर्यमंत्र आपकी चेतना को धू जाये और आपके अन्दर सम्यक्त्व का कमल खिल जाये। अतः आप पहले तो मूर्ति को बड़े गौर से देखें, पुनः थीरे से आँखों को बन्द करके, मूर्ति के रूप को अपनी बन्द आँखों में देखने का प्रयत्न करें। पुनः आँखें खोले और मूर्ति को देखें और पुनः आँखें बन्द करें। जब तक हृदय पटल पर मूर्ति का रूप अंकित नहीं हो जाता, तब तक आप प्रतिदिन इस प्रकार का अभ्यास करते चले जायें।

प्रारम्भ में आपके उपयोग की अस्थिरता के कारण मूर्ति या वेदी चलती या हिलती हुई आदि दिख सकती है। इस हलन-चलन देखने से घबड़ाने की ज़रूरत नहीं है। उस समय हमारे चंचल मन, अस्थिर बुद्धि के कारण ही ऐसा हो रहा है। जैसे-आपने शान्त पानी में अपना प्रतिविम्ब देखा होगा, यदि पानी में थोड़ी सी तरणे उठ जाये तो वह प्रतिविम्ब हिलता-चलता दिखाई देता है। टेलीविजन भी आप देखते हैं जब तक एण्टीना ठीक नहीं होता, तब तक चित्र विचित्र प्रकार से हिलते हुये दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ही जब मन, बुद्धि स्थिरता से, उपयोग में विशुद्धि होगी तो हमें मूर्तियों की आकृतियाँ बिल्कुल ठीक साफ दिखाई देंगी। जिस दिन आपको मूर्ति का ज्यो का त्यो रूप आपकी बन्द आँखों से हृदय कमल में विराजमान होगा तो समझ लेना कि आपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली फिर तो हमें यही कहना पड़ेगा कि दिल के आइने में है प्रभो! की तस्वीर। थोड़ी गर्दन झुका ली और देख ली।

इसी तरह से आप पहले अपने उपयोग को मन्दिर जी में एक वेदी की एक मूर्ति से अपने चित्त को, बुद्धि को स्थिर करने का अभ्यास करें। पुनः मन्दिर जी की हर एक वेदी एवं अन्य तीर्थ यात्राओं में बने मंदिरों की वेदियों, मूर्तियों को भी इसी तरह उपयोग में बाँध लें। जब भी आप टेन्शन में हों, कोई दर्द जोर कर रहा हो, अनिद्रा अर्थात् नींद नहीं आ रही हो। तब आप इन मन्दिरों के दर्शन आँखें बन्द करके, ठीक उसी प्रकार से कीजिये, मानो कि हम स्वयं मन्दिर जी में पहुँचकर साक्षात् प्रभो! के दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार आप एक क्रमबद्ध तरीके से बचपन से लेकर अभी तक आपने जिस किसी शहर या तीर्थयात्राओं में जितने मन्दिरों के दर्शन किये हों, उन्हें किलम की तरह दुहराते-देखते चले जायें। फिर देखें कि आपका टेन्शन, दर्द, अनिद्रा कहाँ चली गई ?

इस प्रकार करने से एक बात और मुख्य रूप से हमारे जीवन के लिये लाभप्रद होती है/ होगी कि यदि हमारा इस प्रकार से विन्तन का अभ्यास बन गया तो जीवन के अन्त में समाधि के समय बहुत ही अधिक काम में आयेगा। जैसे कोई अन्त समय मरण की तैयारी

कर रहा हो तो स्वयं अपने पूर्वाभ्यास के उपयोग को जाग्रत करे और दूसरों से करावे । स्वयं कहे, देखो, तुमने सम्पेद शिखर जी की यात्रा की है, बन्द्र प्रभु भगवान के ललितकूट के चरणों क

व्यान करो । पाश्वनाथ भगवान के स्वर्णभद्र कूट के चरणों का व्यान करो । यदि इसी व्यान उपयोग में इस जीव का मरण हो गया तो सुनिश्चित समझो कि उसका मरण घर में नहीं हुआ बल्कि तीर्थराज सम्पेद शिखर से हुआ । क्योंकि मरण में प्राण निकलना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि किस उपयोग-व्यान-चिन्तन से प्राण निकले, यह महत्वपूर्ण है । इसी प्रकार से अन्य तीर्थों, मन्दिरों का व्यान भी लगा सकते हैं ।

## शिखर गुम्मज

आकाश की शक्ति अनन्त है, वह चारों तरफ असीम है । अतः हमारे द्वारा प्रेषित व्यनि व्यार्थ स्थान पर नहीं पहुँच पाती है । आपने एक प्रयोग देखा या किया होगा कि किसी भैदान या खेत में खड़े होकर, यदि किसी दूर खड़े हुये व्यक्ति को बुलाना है, तो दोनों हाथों की मुँह पर खड़ी अजुली बनाकर आवाज देने से वह व्यक्ति जल्दी से आवाज को सुन लेता है । किसान बन्धु भी खेतों में काम करते हुये, अपनी आवाज को दूर तक पहुँचाने के लिये मुख या कान के पास अपने हाथ का सहारा जरूर लेते हैं । इससे सिद्ध है कि व्यनि को विखराव से रोकने के लिये हाथों का सहारा निया जाता है ।

टीक उसी प्रकार से हमारे जो भाव-भाषादि मन्दिर जी में भक्ति आदि के माध्यम से प्रगट होती है, वह बाहर की ओर व्यवस्थित ढग से प्रसारित हो । इसके साथ ही उस व्यनि को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बाँधने के लिये एवं आवाज में शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये शिखर या गुम्मज का निर्माण किया जाता है । आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि मन्दिर जी के गर्भ गृह में भक्ति पूजा स्तुति पढ़ने में अधिक मन लगता है ।

शिखर जी के पहाड़ पर चन्द्रप्रभ एवं पाश्वनाथ भगवान की टोंक पर अर्घ्य बोलने पर पूजा पढ़ने में विशेष आनन्द की अनुभूति होती है, कारण कि दोनों भगवानों के चरण चार दीवारी से बन्द होकर ऊपर गुम्मज शिखर से टकराकर पुनः लौटती है जिससे एक प्रकार का वायद्रेशन (कप्पन) पैदा होता है जो मन और मस्तिष्क के तन्तुओं में एक संगीत सुख-आनन्द पैदा करता है । ऐसे स्थानों में लोग दूर-दूर से आकर भजन-पूजन पाठ आदि करते हैं ।

इसका तात्पर्य यह है कि मन्दिर-गुफा आदि के अन्दर हम मात्र भावों को उत्पन्न करने वाले ही नहीं होते हैं, उन्हें पुनः प्रतिव्यनि के माध्यम से सुनने वाले भी हम होते हैं । इसलिये

मूर्ति के ऊपर गुम्बज होती है, क्योंकि मन्दिर जी में होने वाले मंत्र-जाय, पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन आदि से वहाँ के परमाणु वायु भी चार्ज होती है, इससे अधिक समय तक उसका प्रवाह वहाँ विद्यमान रहता है जिससे पुनः-पुनः व्यक्ति को वहाँ पर आकर जप, ध्यान, पूजा-पाठ आदि करने का मन करता है।

मन्दिर जी का शिखर बनाने का दूसरा भाव यह भी है कि किसी भव्य जीव को यदि मन्दिर जी जाने का नियम हो तो परदेश में मन्दिर जी खोजने में आसानी रहती है। दूर से शिखर के दिखने मात्र से ही भव्य जीव को प्रसन्नता होती है जिससे परिणामों में विशुद्धि आती है। शिखर की ऊँचाई से धर्म एवं धर्मात्मा के भावों की उच्चता का भाव होता है कि किस धर्मात्मा व्यक्ति ने अपने चंचल धन का सदुपयोग कर इतना भव्य सुन्दर मन्दिर बनाया होगा।

स्वर्ण आदि के कलश धर्म की, चरित्र की समृद्धता का प्रतीक हैं, साथ ही अन्तिम कलश की नोंक सिद्धालय का संकेत करती है कि हे भव्य जीव तेरा अन्तिम नक्ष्य ऊपर सिद्ध शिला होना चाहिये। मन्दिर जी पर फहराती ध्वजायें निर्मल यशकीर्ति का प्रतीक हैं। ध्वजा वायु के झकोरों से कम्पित होकर धूमती है जो भव्य जीवों को धर्म की शरण में आने का संकेत करती है कि जो भव्य जीव धर्म की शरण को प्राप्त होगा, उसकी निर्मल यशकीर्ति पता का घारों ओर फहरायेगी।

जैसे आपके गमनागमन व्यवस्था में गस्ते के नियम होते हैं। गस्ते में जो यिन्ह बने होते हैं, वाहन-चालक उन्हें देखकर अपनी गाड़ी चलाता है। जैसे- गति अवरोधक यिन्ह देखकर गाड़ी धीरी चलाता है आदि आदि। टीक उसी प्रकार से आपने पढा-सुना होगा कि देव या विद्याधरों के विमान यदि जिनालयों के टांक ऊपर से होकर निकलते हो तो वे गतिहीन (चलने में असमर्थ) हो जाते हैं। अतः देव एवं विद्याधरों के निये स्मृति संकेत के लिये भी ऊपर शिखर बनाये जाते हैं जिन्हें देखकर देव विद्याधर उनसे बचकर अपना विमान निकालते हैं, यदि उनमें श्रद्धा-भक्ति एवं समय हो तो वे भी भक्ति पूजा आदि करके अतिशय आदि भी उत्पन्न करते हैं।

वायुमण्डल का दबाव एवं बादलों की बिजली पतन को अवशोषित करने वाले यन्त्रों को ऊँचाई पर ही लगाया जाता है जिससे नीचे जमीन पर गिरने के पहले ही उस बिजली की शक्ति को बिना नुकसान के यन्त्र के माध्यम से जमीन के नीचे पहुँचा देते हैं जिससे कीमती इमारतें मन्दिर आदि क्षतिग्रस्त होने से बच जाती हैं। अतः मन्दिर जी में शिखर बनाकर तड़ितचालित आदि लगाने से प्राकृतिक प्रकोपों से भी जिन मन्दिरों को बचाया जाता है।

कहीं-कहीं मन्दिरों में सहस्रकूट भी होता है जिसमें एक हजार आठ मूर्तियाँ होती हैं। सहस्रकूट, भगवान के एक हजार आठ नामों का यानि सहस्रनाम का प्रतीक है क्योंकि हम लोग अनादिकाल

मन्दिर । ४६

से ही तीर्थकरों को सहजनाम से सम्बोधित करते हुये नमस्कार करते आये हैं और आगे भी करते चले जायेगे। अतः सहजकूट को नमस्कार करने का मतलब है कि एक साथ एक हजार आठ नामों के प्रतीक जिनेन्द्र देव को नमस्कार करना।

कहीं-कहीं नन्दीश्वर द्वीप-जम्बूद्वीप या मध्यलोक आदि की भी कृत्रिम रचनायें हैं। जिनके दर्शन, पूजन, ध्यान आदि करने से संस्थान विचाय नाम का धर्मध्यान होता है, विशुद्धि बढ़ती है एवं अशुभ कर्मों को निर्जरा होती है। इसी के साथ ही यदि इस जीव का संस्कार भी अच्छा बना तो जब यह जीव मरकर देव पदवी को प्राप्त करता है तो वहाँ से विचार करता है कि वह नन्दीश्वर द्वीप जम्बूद्वीप कहाँ है जिन्हें मैंने मनुष्य भव में कृत्रिम रूप से देखा था? आज हम देवत्व पदवी के थारी हैं, वहाँ पहुँचने में समर्थ हैं। अतः आज हम उन अकृत्रिम जिनालयों की साक्षात् वन्दना करने चले और अपने जीवन को सफल बनायें।

इस प्रकार करने से 'सम्यगदर्शन' जैसे परमार्थ अमूल्य रत्न की प्राप्ति होती है। अतः इस प्रकार से भावना करते हुये प्रतिदिन मन्दिर जी अवश्य आना चाहिये।

आज बस इतना ही

बोलो महादीर भगवान की.....

यदीया वाग्मंगा विविध-नय-कल्लोल-विमला ।

वृहज्ञानां भोभि-र्जगति जनतां या स्नपयति ॥

इदानी-मर्येषा बुधजन-मरालैः परिचिता ।

महावीर स्वामी नयन-पथगामी भवतु मे ॥

जय बोलो श्री १००८ महावीर भगवान की.....

शारदे शरद-सी शीतल.....

जय बोलो श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की....

जय बोलो परमपूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज की

जय बोलो अहिंसामयी विश्वर्थम् की.....

हम अर्भा मन्दिर मे खड़े हैं । पिछले दिनो से हम मन्दिर मे खड़े हैं और मन्दिर के सौन्दर्य का, मन्दिर में आने के प्रयोजन का महत्व समझ रहे हैं । कल आपको भगवान के सामने खड़ा करके और भगवान, इश्वर, प्रभु की प्रति -कृति में, जिनविष्व में क्या- क्या विशेषतायें हैं ? बतलायी थीं । आज भी आप अपने मानस को वहाँ खड़ा कर लें । जिनविष्व के सामने अर्भा आप खड़े हुये हैं और चेष्टा करें कि सर्वांग जिनविष्व को अपने अन्त-स्थल में विराजमान करने का । जब आपने ऊपर से नीचे तक -

“निरञ्जो अर्ग-अंग जिनवर के ।”

अर्ग-अर्ग निरञ्जो, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक बार-बार देखो, उनकी सम्पूर्णता को अपनी हृदय भूमिका में अवतरित करने का प्रयास करो । जब आपकी अपनी आँखों मे जिनेन्द्र भगवान का जिनविष्व सम्पूर्ण रूप से समा जायेगा, व्यवस्थित हो जायेगा, आपके मन को छू जायेगा तो प्रकाश हो प्रकाश हो जायेगा । हमारे अन्तरंग का प्रकाश जाग्रत हो जायेगा ।

आप भगवान के नखों को देखिये । उन नखों से कान्ति निकल रही है । ऐसी अपनी कल्पना कीजिये और वह कान्ति हमारे अन्तस्थल में जा रही है । आँखों के माध्यम से परावर्तित हो रही है क्योंकि भगवान के नखों में कान्ति है । जिनके जीवन में कान्ति है तो उनके जीवन में शान्ति है । आपके जीवन में कोई कान्ति नहीं है । इसलिये आपके जीवन में शान्ति नहीं है । भक्तामर काव्य के प्रथम स्तोत्र मे मानतुंग आचार्य देव यही बात कहते हैं कि भक्त देवों के मुकुट हुये मुकुटों की मणियों की कान्ति को उद्घोदित, प्रकाशित आपके चरण कमल कर रहे हैं । आपके चरणों में इतनी कान्ति है कि मुकुटों की मणियाँ अपने आप झिलमिल-झिलमिल होने लगती हैं । वैसे ही हमारे अन्तस्थल में प्रभु के पादाम्बुजों की प्रभा आभिभूत हो जाए, अलौकिक आनन्द उद्भूत हो जायेगे ।

जैसे कभी अचानक अन्येरा हो जाता है और अन्येरा होने के बाद अचानक उजाला होता है तो सर्वों के मुँह से एक कौतूहल निकलता है, आवाज होना शुरू हो जायेगी। वैसे ही हमारे जीवन में जब आन्तरिक उजाला हो जायेगा, अपने आप व्यनियाँ मुखरित होना शुरू हो जायेगी। अभी तक आप जिनेन्द्र भगवान के साक्षी में खड़े थे। जिनेन्द्र भगवान के प्रतिबिम्ब को आपने निहारा और जिनेन्द्र भगवान का उपदेश प्राप्त किया।

## स्वाध्याय

अब आप जिनवाणी के दर्शन के लिये पहुँचेये। यहाँ पर शायद जिनवाणी को अर्थ चढ़ाने को ऐसी व्यवस्था नहीं है। जिनवाणी की व्यवस्था, विशेष रूप से मन्दिर जी में ही एक अलग अलमारी में हुआ करता है और वहाँ पर बड़े सुव्यवस्थित ढंग से ग्रन्थ रखे होते हैं अच्छे-अच्छे पथापड़े मे। नेकिन हम जितने सुन्दर ढंग से जिनवाणी को विराजमान करेंगे, उतना ही पुण्य एवं परिणामों की विशुद्धि हमारी होगी। अब आप देख जो, आपके यहाँ पर जिनवाणी कैसे रखी हुई है? पूजा की जिनवाणी तो, पढ़ने की जिनवाणी तो सारी अव्यवस्थित। एक आला, एक अलमारी ऐसी होनी चाहिये जो पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित हो जिसमें गद्दी चलती है जिसमें आप शाम को शास्त्र पढ़ते हैं, वह गद्दी का ग्रन्थ कहा जाता है। ग्रन्थ का आसन अलग होना चाहिये।

आप गुरुद्वारे में चले जाइये; कितने सुव्यवस्थित ढंग से गुरुवाणी रखी रहती है। आप तारणपंथ के वैत्यालय में चले जाइये; कितने अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से परिमार्जित ढंग से, जिनवाणी का सम्मान करते हैं। कुरान शरीफ और बाइबिल को देख लाजिये; कितने अच्छे ढंग से रखते हैं। एक जैनी हैं, इतनी जिनवाणी हैं कि किन-किन को संभालते रहें। कदं नहीं करते हैं। जिनवाणी के भी दर्शन करना चाहिये। जिस प्रकार से हम जिनेन्द्र भगवान को अर्थ चढ़ाते हैं, उसी

प्रकार से जिनवाणी को भी अर्थ चढ़ाना चाहिये। कैसे चढ़ाना चाहिये-

उदक चन्दन तन्दुल पुष्पकैः चरु सुदीप सुषुप फलार्थकैः

धवन मंगल गान रवा कुले, जिन गृहे जिन शास्त्र-महं यजे

प्रथमं, करुण-वरणद्वयं नमः जलादि अर्थं निर्वपामीति स्यादा।

प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग को हमारा नमस्कार। हमारी जिनवाणी चार अनुयोग रूप है। आपकी घुर्भुज चार अनुयोग थे। जैसे- चार वेद हैं- अर्थवेद, यजुवेद, सामवेद और ऋग्वेद। ऐसे ही आचार्यों ने इनको भी वेद कहा है। जिनवाणी के माध्यम से सम्पूर्ण ज्ञान की आराधना करनी चाहिये। जिनवाणी क्या है, शास्त्र क्या है और शास्त्र का

क्या स्वरूप है ? स्वामी समन्तभद्र आचार्य देव कहते हैं-

अन्यून-मनति-रिक्तं, याथात्थं विना च विपरीतात् ।

निःसदेहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञान-मागमिनः ॥ ४२॥ (रत्न शा.)

जिनवाणी कैसी होनी चाहिये जिसकी हम आराधना करते हैं ? “अन्यून-मनित रिक्तं” न्यूनता रहित और अधिकता रहित “याथा तथ्यं” जैसी है उसी प्रकार से विपरीतता रहित, सदेह रहित यह जिनवाणी का, शास्त्र का स्वरूप है । आगम के ज्ञाता पुरुषों ने इसे शास्त्र का स्वरूप कहा है । ऐसी जिनवाणी का अध्ययन करना चाहिये, ऐसी जिनवाणी को पढ़ना चाहिये ।

स्वामी समन्तभद्र आचार्य अपने समय के उद्भट, न्यायशास्त्र के शास्त्री रहे हैं । कुन्दकुन्द आचार्य से भी ज्यादा उन्होंने ख्याति प्राप्त की और प्रभावना की । इसलिये शिलालेखों में ऐसा मिलता है कि वह आगामी काल में तीर्थंकर होंगे । उनके सम्यक् ज्ञान की परिभाषा, उनके सम्यक् दर्शन की परिभाषायें और चरित्र की जो भी व्याख्या है, इतनी व्यापक और बहुआयामी है कि आप उसे किसी भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की स्थिति में नगा सकते हैं । बड़ी व्यापक परिभाषाओं को उन्होंने अवतरित किया है । परिभाषा का मतलब प्रमाण-नय, निषेप, आगम अनुमान आदि से जो सुसज्जित हो, वह परिभाषा है । यानि प्रमाणित भाषा को परिभाषा कहते हैं । व्यापक भाषा को परिभाषा कहते हैं । चारों अनुयोगों में सबसे पहले प्रथमानुयोग है । प्रथमानुयोग का क्या स्वरूप है ? स्वामी समन्तभद्र आचार्य अपनी भाषा में बताते हुये गत्करण्डक श्रावकाचार प्रन्थ के अन्दर अपनी बात कहते हैं-

प्रथमानुयोग-मर्थाख्यानं, चरितं पुराण-मणि पुण्यम् ।

बोधि-समाधि-निधानं, बोधति बोधः समीक्षीनः ॥ ४३॥ (रत्न.शा.)

प्रथमानुयोग पुराण पुरुषों का, ऐतिहासिक पुरुषों का चरित्र व्याख्यायित करता है । प्रथमानुयोग पुराण पुरुषों का चरित्र बतलाता है । जिनका जीवन चरित्र पढ़ने से सुनने से क्या होता है ? “बोधि समाधि निधानं ।” बोधि का मतलब सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, समाधि का मतलब समता रूप परिणाम, निधान का अर्थ खजाना जो सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और समता रूप परिणाम का खजाना है । इसलिये इसे बौद्धिक पुरुषों ने सम्यक् ज्ञान कहा है । प्रथमानुयोग ऐसा अनुयोग है जो हर परिस्थिति में व्यक्ति को सम्बल बनाता है ।

आज का व्यक्ति आत्महत्या सबसे ज्यादा क्यों करता है ? दुखः के कारण, क्लेश के कारण, अपवाद के कारण । उसे कुछ दिखता नहीं है । वह मर जाता है । प्रथमानुयोग हमें सम्बल देता है । सीता ने कभी आत्महत्या करने की बात नहीं सोची; द्रौपदी ने मरने की बात नहीं सोची; अनन्त मर्ती, मैना सुन्दरी ने आत्महत्या नहीं की । सेठ सुदर्शन और वारिष्ठ ने आत्महत्या नहीं की । आप लोग क्यों करते हैं ? क्योंकि आप लोगों को अपने कर्म

सिद्धांत के ऊपर विश्वास नहीं है। करणानुयोग के ऊपर विश्वास नहीं है। कितना-कितना अपवाद हुआ सीता का, कितना-कितना कष्ट उठाया, कितने सुख और समृद्धि में पली बलिका और शादी होने के बाद जीवन भर दुःख ही दुःखः देखा। सुख की एक कणिका भी नहीं थी और आप लोगों के लिये ऐसा कौन सा दुःखः है? कौन- सा आपको वनवास हो रहा है; कौन-सा आपका अपवाद हो रहा है? और अपवाद से तो आप डरते ही नहीं हैं। सीधी-सीधी कहते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या? और देचारी सीता ने तो कुछ किया ही नहीं था।

अपवाद हो गया तो घबरा, गये मर गये; कायर व्यक्ति मरा करते हैं। संसार में यदि सबसे ज्यादा पाप है तो वह आत्महत्या है। आत्मघाती महापापी। जिसके यहाँ कोई आत्महत्या करता है, उसके यहाँ छः मर्हीने का सूक्त लगता है। छः मर्हीने तक वह दान नहीं दे सकता, पूजा नहीं कर सकता। शुभ क्रियाओं द्वारा मालुम होना चाहिये कि प्रथमानुयोग हमें सम्बल देता है। अच्छे-अच्छे मुनिराजों के लिये जब समाधि मरण का समय आता है, तब समयसार नहीं सुनाया जाता है। उस समय प्रथमानुयोग सुनाया जाता है। समाधि मरण के अन्त समय प्रथमानुयोग अन्तरंग के सम्बल को अवतरित करता है। खोइ हुयी शक्ति और साहस को जाग्रत करता है।

धन्य-धन्य सुकुमाल महामुनि कैसे धीरजथारी।

एक स्पालनी युग बच्चायुत पांव भख्यो दुखकारी॥

यह उपर्सर्ग सत्यो धर धिरता, आराधन चित्यारी।

तो तुम्हरे जिय कौन दुःख है मृत्यु महोत्सव भारी॥

प्रथमानुयोग यह बताता है कि उन्होंने ऐसे दुःख को कैसे सहन किया? उनके शरीर को आर-आर कर दिया, लेकिन इतना दुःख सहन कर गये और तुम इतने से दुःख से घबरा गये। धिक्कार है, धिक्कार है। मानसिक रोग आज के समय में अधिक क्यों हो रहे हैं। अधिक व्यक्तियों ने धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बिल्कुल बन्द कर दिया है। मैंगीन, अखबार, नॉबिल, जिनसे टैंसन बनता है, जिनसे हमारे जीवन में सन्देह की भूमिकायें तैयार हो जाती हैं। ऐसी चीज तो पढ़ेंगे। लेकिन जिनसे हमारे जीवन के सन्देह धुलते हैं, जिनके पढ़ने से हमारे जीवन के सन्देह दूर होते हैं, ऐसी पुस्तकें पढ़ने के लिये हमारे पास समय नहीं है।

जिन्दगी में चार ग्रन्थों को जरूर पढ़ना चाहिए। एक सम्यक कौमदी, एक धर्म परीक्षा, प्रथमानुयोगी सम्बन्धी बात बता रहा हूँ। राजा श्रेणिक चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र। इन चार ग्रन्थों को यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके जीवन में आधे से ज्यादा क्या? साढ़े निन्यानवे परसेण्ट अन्येरा भाग जायेगा। यह मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ। जो भी धर्म

की मान्यताओं में हमारी विपरीत वृद्धि धुस गई है तो अपने आप उजाला हो जायेगा । तब लालटेन जल जायेगा, उजाला हो जायेगा तो आपको वस्तु स्थिति अपने आप व्यक्त हो जायेगा ।

इन चारों ग्रन्थों के अन्दर आपको इतने नजदीक में ले जाकर बैठा दिया है कि आप अपने आप को पा लो । समय होना चाहिए । ज्यादा बड़े-बड़े ग्रन्थ नहीं हैं, छोटे-छोटे ग्रन्थ हैं । सम्यक्त्व कौमुदी, धर्म परीक्षा, श्रेणिक चरित्र और प्रथमनुयोग चरित्र । ऐसा लगेगा कि यह हमारे जीवन की कहानी है और पढ़ते-पढ़ते यह आभास हो जायेगा कि यह हमारी कहानी है । हम स्वयं इसके पात्र हों तो आपके अन्दर के बैठे सारे भ्रम टूट जायेंगे । प्रथमानुयोग बहुत कुछ देता है । अपने जीवन में चार ग्रन्थों को जरूर पढ़ लेना समय निकाल बरके । यह प्रथमानुयोग बताता है । करुणानुयोग क्या बताता है? स्वामी समन्तभद्र आचार्य देव ही करणानुयोग को व्यवस्थित करते हैं ।

**लोकालोक विभक्ते- युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतिनां च ।**

**आदर्श-मिव तथामति-खैति-करणानुयोगं च ॥ ४४ ॥ (र. श.)**

लोक और अलोक की व्यवस्था को करणानुयोग बतलाया है । करणानुयोग को गणितानुयोग भी कहते हैं जो लोक और अलोक की व्यवस्था को, चारों गतियों की व्यवस्था को बताता है । कैसे 'आदर्श भिवें' मतलब दर्शन के समान स्पष्ट रूप से वह करणानुयोग कहलाता है । करण कहते हैं परिणाम को, भावों को, किस व्यक्ति के किस प्रकार के परिणाम हैं, भाव हैं और उसे उन परिणामों का क्या कैसा फल मिलेगा? यह करणानुयोग बतलाता है, करणानुयोग हमारी आन्तरिक व्यवस्था को बतलाता है । आठ प्रकार के कर्मों की व्यवस्था को बतलाता है । लोक और अलोक के विभाग को, लोक और अलोक की व्यवस्था को बतलाता है । चरणानुयोग क्या बतलाता है?

**गृहमेघ्य-नगराणां, चारित्रोत्पत्ति-वृद्धि-रक्षाइगम् ।**

**चरणानुयोग-समयं, सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥ ४५ ॥ (र. श.)**

गृहस्थ और मुनियों के चरित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा- कितने सुन्दर शब्द दिये हैं स्वामी समन्तभद्र आचार्य ने । चरित्र की उत्पत्ति कैसे हो, चरित्र की वृद्धि कैसे हो और चरित्र की रक्षा कैसे हो? इन तीनों को बताने वाला चरणानुयोग है और द्रव्यानुयोग क्या बतलाता है?

**जीवाजीव-सुतत्वे, पुण्यापुण्ये च बन्ध मोक्षी च ।**

**द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत-विद्यालोक-मातनुते ॥ ४६ ॥ (र. श.)**

द्रव्यानुयोग जीव और अजीव तत्त्वों की, सत तत्त्वों की व्यवस्था को बतलाने वाला पुण्य और पाप की व्यवस्था को करने वाला द्रव्यानुयोग कहलाता है । द्रव्यानुयोग तो अन्तिम चरण हैं जहाँ आपको केवल उन तत्त्वों की अनुशूलि करना है । जहाँ आपको कुछ भी नहीं करना

## मन्दिर । ५२

है। कर्तापने से आपका बुँड़ि, कर्ता और भोक्तापने से बुँड़ि ऊपर चढ़ गयी। केवल वहाँ पर चरित्र का जो फल है, चरित्र का जो रस है, उनका जो अनुषान कर रहा है, वह है इव्यानुयोग।

ये चारों अनुयोग हमारे जीवन में जब तक अवतरित नहीं होंगे, तब तक मोक्ष मार्ग बन नहीं सकता है। क्योंकि सम्यक् ज्ञान चारों अनुयोगों का आधार लेकर चलता है। बहुत से लोग यह कह देते हैं कि प्रथमानुयोग में तो राजा रानी की कहानी है इसके पढ़ने से हमारा उद्धार नहीं हो जायेगा। लेकिन उस राजा रानी की कहानी में भी कहानी छिपी है।

एक बार घटना घटी। एक माँ अपने दो बच्चों के साथ बाजार जा रही थी। गुड़िया छोटी थी। इसलिये उगुर्ली पकड़कर चल रही थी और उसका लड़का थोड़ा बड़ा था। वह तो आगे-आगे चल रहा था उछलता-कूदता। थोड़ी दूर आगे जाकर वह बच्चा किसी कारण से गिर गया। और जब बच्चे गिर जाते हैं तो सभी जानते हैं कि वह क्या करते हैं? रोते हैं और उनके पास काम ही क्या है और कब रोते हैं? जब उन्हें कोई संभालने वाला, देखने वाला हो, तब ज्यादा रोते हैं। वैसे खेलते में गिर जाये तो नहीं रोयेंगे, तब उन्हें कोई पुचकारने वाला नहीं होता है।

लेकिन उसको नालूम है कि मम्मी पीछे आ रही है, अगर गिर गया तो रोयेगा तो फिर कुछ मिलेगा खाने-पीने को। अगर बाजार में दब्बे रोये तो मम्मी की हालत देखो! जब वह नड़का गिर गया, तब मम्मी उसके पास पहुँची तो वह रो रहा था। बेटा, कहो लगी है, तू क्यों रो रहा है? तुझे कही लगी तो नहीं? रो रहा है, चुप हो जा। वह क्यों चुप होने का? माँ क्या कहती है? देखो, अभी दो-चार दिन पहले गुड़िया गिर गयी थी, उसके चौट लग गयी थी, वह इतनी नहीं रोई, जितने तुम रो रहे हो। चुप हो जाओ। तुम्हें तो लगी नहीं और तुम इतने रो रहे हो।

लेकिन वह कहो मानने का, माँ को मुझलाहट आती है और वह कहती है- ठीक लगी, तुम बहुत परेशान करते हो गुड़िया को, अब करोगे गुड़िया को परेशान! बच्चा क्यों चुप होने का! फिर माँ दूसरा फार्मूला अपनाती है। देखभाल कर चलता नहीं है, गिर पड़ता है तो रोता है। देखभाल कर चलता तो क्यों गिरता? अब किसके लिये रो रहा है? अब वह फिर रो रहा है।

अब माँ क्या करती है? उसे गोदी में लेती है और कहती है कि मेरा बेटा तो राजा बेटा है। राजा बेटा होकर रोता है। अब वह क्या गधा बेटा बनना चाहेगा सड़क के ऊपर? वह नहीं बनना चाहता गधा बेटा। बच्चा चुप हो जाता है।

प्रथमानुयोग क्या है? कल गुड़िया गिर गयी थी, उसे खून निकल आया था, उसके चौट लग गयी थी, वह इतनी नहीं रोई और तुम इतना ज्यादा रो रहे हो, यह प्रथमानुयोग है करुणानुयोग

क्या है? तुम गुड़िया को सताते थे, मारते थे, चिड़ाते थे, उसका फल है कि तुम गिरे। यह है करणानुयोग ? चरणानुयोग क्या है ? देखभाल कर चलते नहीं हो तो दोष किसका है ? इसका नाम है चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग क्या है ? कि मेरा बेटा तो राजा बेटा है। आत्मा के कभी लगती नहीं है, चीटा मर गया। घोड़ा कूद गया। बच्चे खुश हो गये। उसका नाम है द्रव्यानुयोग।

पहले से ही अगर राजा बन जाओ तो क्या होगा ? जैसा आज हो रहा है, वैसा ही होगा। 'मैं राजी और तू रानी, कौन भरेगा कुँआ का पानी' इन चारों अनुयोगों का अध्ययन कीजिये, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय कीजिये। एक प्रश्न आ जाता है कि महाराज हम कुछ जानते ही नहीं हैं। हम इन्हें पढ़े-लिखे नहीं हैं, विद्वान् नहीं हैं। इसीलिये हमारे आचार्यों ने बड़ी व्यवस्था की है। स्वाध्याय को अन्तरंग तप के अन्दर रखा है। स्वाध्याय परम तपः और उस स्वाध्याय के भेद किये हैं।

### “दाचना-पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशः। ”

यह तत्त्वार्थसूत्र का सूत्र है। यदि आपको कुछ आता है तो बाँचना भी स्वाध्याय है। पृच्छना, किसी से धर्म सम्बन्धी प्रश्न पूछना भी स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा, सुने हुये को पढ़े हुये को बार-बार विन्नन करना अनुप्रेक्षा है। यह भी स्वाध्याय है।

आम्नाय-आम्नाय का मतलब क्या है? आप तो दो ही आम्नायें जानते हैं- एक तेरह पन्थी और दूसरी बीस पन्थी। दिगम्बर और श्वेताम्बर। इन आम्नाओं से स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं है; कोई सम्बन्ध नहीं है। आम्नाय शब्द का अर्थ है शुद्धता। शब्दों को, ग्रन्थ को शुद्धिपूर्वक पढ़ना, व्याकरण की शुद्धिपूर्वक पढ़ना। छन्द, समास, सन्धि का ध्यान रखते हुये ग्रन्थ का विश्लेषण करना-पढ़ना-आम्नाय नाम का स्वाध्याय है।

प्राचीन काल की प्रणाली रही। प्रेस तो थे नहीं। एक व्यक्ति पढ़ता था और सौ व्यक्ति लिखते थे, प्रतिलिपियाँ बनाते थे। तो जिनके आम्नाय नाम का स्वाध्याय होता था। वह व्यक्ति उच्चारण करता था और बाकी के व्यक्ति लिखते थे। ऐसे लोगों को आचार्यों ने उच्चारणाचार्य की उपाधि से सम्मोहित किया है। वीरसेन आचार्य ने 'धवला' टीका के अन्दर जगह-जगह उच्चारणाचार्य का अभिमत दिया है, उल्लेखन किया है। अमुक बात उच्चारणाचार्य के मत से इस प्रकार से कही है- आपने बहुत प्रकार के आचार्यों के नाम सुने होंगे। हम बहुत से विद्वानों को यह बात बताते हैं और वह ताज्ज्ञव में होते हैं। एलाचार्य बालाचार्य, गणधराचार्य, निर्यापकाचार्य यह तो अपने नाम सुने होंगे लेकिन उच्चारणाचार्य का नाम आपने बहुत कम सुना होगा। अगर जानते भी होंगे तो उसकी व्याख्या और व्यवस्था को नहीं जान पाते। उच्चारण करना भी स्वाध्य है।

## मन्दिर । ५४

धर्मोपदेश- आचार्यों ने बताया कि धर्मोप्रदेश में चार प्रकार की कथाओं को कहना ही धर्मोपदेश है । आकेषणी, विकेषणी, सवेदनी और निवेदनी । चार प्रकार की कथाओं को करना धर्मोपदेश है । वहाँ बैठकर हमें स्वाध्याय करना चाहिये । स्वाध्याय हमें क्या सिखाता है । हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना । चार अनुयोग हमें क्या सिखाते हैं?

प्रथमानुयोग पढ़ने से क्या होता है? प्रथमानुयोग पढ़ने से सवेग जाग्रत होता है और करणानुयोग पढ़ने से प्रश्नमता आती है यानि कथाओं का उपशमन होता है । चरणानुयोग, अनुकृत्या, करुणा, दया गुण बतलाता है और द्रव्यानुयोग आस्तिक्य गुण को प्रकट करता है । सवेग, प्रश्नम, अनुकृत्या और आस्तिक्य यह चार सम्प्रकृत्य के लक्षण हैं ।

जब हम प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो हमारे अन्दर क्या ? सवेग अवतरित होता है, हम कहाँ हैं । यह बात हमारे भानस में आ जाए कि हम कहाँ हैं ? समझ लो, वहाँ से उजाला शुरू हो गया । इस विश्व के अन्दर हमारा कितना- सा अस्तित्व है? जैसे- समुद्र के अन्दर एक बूँद का अस्तित्व है । अपने अस्तित्व की स्वीकारता जहाँ हो जाए, वहाँ अस्तित्व गुण है । जहाँ व्यक्ति अपने गुणों को पहचान ले, वही आस्तिक्य गुण है ।

“परद्रव्यन सौ भिन्न आप में रुचि सम्प्रकृत्य भला है।”

करणानुयोग में प्रश्नमता आती है । कथाओं का उपशमन होता है । नहीं, हमे कथायें नहीं करनी हैं, इसका..... अनुभव होता है । हमे नहीं करना है ऐसा पाप । अन्तर्ग में करणानुयोग की व्यवस्था अपने आप जाग्रत हो जाती है ।

चरणानुयोग बचाता है । किसको? उस विशुद्ध को जिस परिणाम को, जिस सम्प्रकृत्य को आपने प्राप्त किया है, उसकी सुरक्षा करने वाला कवच है चरणानुयोग ।

द्रव्यानुयोग प्रकाश है । फैल रहा है । वहाँ केवन अनुभूति-अनुभूति है । जहाँ शब्द विराम ने जाते हैं, शरीर विराम ने जाता है, वचन विराम ले जाते हैं, वहाँ द्रव्यानुयोग फलित होता है । तो स्वाध्याय हमारे दैनिक जीवन में निरन्तर आ सकता है । आप यह मत समझिये कि ग्रन्थ पढ़ने से ही स्वाध्याय होगा । स्वाध्याय हमे हेय और उपादेश की बात समझाता है । इसके अलावा स्वाध्याय में है ही नहीं कुछ ।

आपने गणेश प्रसाद वर्णी जी का नाम सुना होगा । उनकी धर्ममाता विरीजाबाई एक दिन गेहूँ बीन रही थीं । अकस्मात् वर्णी जी कहीं से घृमकर आये । मनुष्य में एक खासियत है, कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो तो उसे देख रहे हैं कि वह काम कर रहा है । फिर भी हम पूछते हैं कि क्या काम कर रही हो ? सब आँखों के अन्दे हैं । पूछ लिया धर्ममाता विरीजाबाई से कि आप क्या कर रही हैं ? माँ जो कहती है- बेटा मैं स्वाध्याय कर रही हूँ । वर्णी जी को गुस्सा आ गयी । माँ जी आप गेहूँ बीन रही हैं और आप कह रही हैं कि स्वाध्याय कर रही

हूँ। आप झूठ बोलना कब से सीख गयीं?

माता चिरौंजाबाई बड़ी विदुषी महिला थीं। अपने समय की बड़ी विदुषी नहिला रही हैं। उन्होंने समाज का बड़ा सहयोग किया है। अगर धर्ममाता चिरौंजाबाई नहीं होतीं तो वर्णा जी भी नहीं होते, यह ध्यान रखना। वर्णा जी को बनाने में धर्ममाता चिरौंजाबाई का बहुत बड़ा हाथ है। आप वर्णा जी की मेरी जीवन गाथा, पढ़िये। उन्होंने अपनी आत्मकथा अपने हाथों से लिखी है। जैनियों की उन्होंने कितनी ठोकरें खायी हैं क्योंकि वे बेचारे जैन कुल में पैदा नहीं हुये थे। उन्होंने जैन धर्म को प्राप्त करने के लिये अपना तन, मन, धन सब कुछ न्यौतावर कर दिया। तब इतनी विशुद्धि कर पाये और अन्त में टिगच्चर साथु बनकर समाधिमरण को प्राप्त किया। सम्यक् दृष्टि जीवात्मा थीं वर्णा जी की। वर्णा जी भी जैन रामायण, पद्मपुराण सुनकर, पढ़कर जैन बन गये थे। यह हैं प्रथमानुयोग की महिला।

वर्णा जी कहने लगे माता जी आप झूठ बोलना कब से सीख गयी? धर्ममाता चिरौंजाबाई क्या बोलती हैं? कि बेटा, एक बात बता? कि स्वाध्याय काने में किस ओज का ज्ञान होता है? हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना। स्वाध्याय हमे यही बताता है जो कि गलत है उसे, छोड़ो और जो सही है, उसे ग्रहण करो। हम गेहूँ को अपनी तरफ ला रहे हैं और कचरे को बाहर फेंक रहे हैं। इसका नाम ही तो स्वाध्याय है। जो गेहूँ उपादेय है, उसको हम अपनी तरफ ला रहे हैं और जो कचरा हेय है, उसे हम बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। हमारे जीवन की हर चर्चा स्वाध्याय हो सकती है। यह मत समझना कि हम घन्टे ग्रन्थ पढ़ते रहे, पन्ना पलटते रहे। तो इसका नाम स्वाध्याय नहीं हुआ।

यदि आएके विवेक में यह जागृति आ जाए कि हमें पानी को दोहरे छन्ने में छानकर पीना है तो जहाँ पर आप छना पानी पी रहे हैं तो वहाँ पर भी आप स्वाध्याय कर रहे हैं क्योंकि आप जिनेन्द्र भगवान का वाणी का परिपालन कर रहे हैं। कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि पानी छानकर पीना चाहिये। यह स्वाध्याय है। जीता-जागता स्वाध्याय है। यदि आप दिन में भोजन कर रहे हैं। तो आप स्वाध्याय कर रहे हैं क्योंकि आप जिनेन्द्र भगवान की वाणी का परिपालन कर रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि दिन में भोजन करना चाहिये। यह स्वाध्याय है। आप यदि दुकान पर बैठे हैं और ईमानदारी से कमा रहे हैं और आपकी अन्तरात्मा कह रही है कि हमें मिलावट नहीं करनी है। ईमानदारी से इतने प्रतिशत ही लेना है तो वहाँ पर भी बैठकर आप स्वाध्याय कर रहे हैं।

स्वाध्याय केवल किताबें फाड़ने से नहीं होता है। स्वाध्याय की घण्टों चर्चा की। घर में जाकर जंरा सा नमक कम हुआ तो घरवाली को हजारों गलियाँ सुना डालीं। आचार्य ने इसका नाम

स्वाध्याय नहीं बताया है। जहाँ समत्व परिणाम की अनुभूति हो, उसका नाम स्वाध्याय है। जहाँ सुख-दुःख एक से दिखें, उस स्थिति में जाकर स्वाध्याय की परणति बनती है। अपनी आत्मा को सम्पर्कान से सुशोभित करना स्वाध्याय है। पग-पग पर हमें जो पापों का बोध कराये वही स्वाध्याय है, और ऐसे ज्ञान की आराधना करना ही स्वाध्याय हैं। बस, पोथी पढ़ ली, ग्रन्थों के नाम पढ़ लिये, पेज नम्बर, लाइन नम्बर। कोई समझे, बाह, कितना विद्वान है। लम्बे, चौड़े स्वाध्याय करने की कोई जरूरत नहीं है।

यदि आपको भक्ष्य-आभक्ष्य का विवेक आ जाये, वहाँ पर भी आपका स्वाध्याय जाग्रत हो गया। किसी को जीव रक्षा का भाव आ गया तो वहाँ पर भी स्वाध्याय शुरू हो गया। आप अपने डायिट्व को पूरा कर रहे हैं, आप अपने डैनिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। समय से आप ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ भी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप अपने समय से हर किया का परिपालन कर रहे हैं तो स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वह अवतरित होना चाहिये। स्वाध्याय के माध्यम से जो हमारे अन्दर ज्ञान उद्भूत होता है, वह चरित्र में ढलना चाहिये, तब वह स्वाध्याय है।

### “स्वात्मने अध्येति इति स्वाध्याय”

जहाँ हम आत्मा के निकट रहकर अध्ययन करते हैं उसका नाम है स्वाध्याय। जहाँ हमारी चेतना, सचेत और सावधान रहे, वहीं स्वाध्याय है। जहाँ हमें अपने मन और बुद्धि से हटकर अन्तरात्मा का भाव सुनाई देने लग जाये, वहीं स्वाध्याय है। पुस्तक तो माध्यम है अपनी तरफ आने का, पुस्तक हमें संकेत देती है। परथर है, आप इस रस्ते से जाइये, सकेत है। जाओगे, तो पाओगे नहीं तो खड़े-खड़े पछताओगे। अतः स्वाध्याय करना चाहिये।

लेकिन सबसे पहली आप प्रथमानुयोग को पढ़िये, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िये। आपकी आधे से ज्यादा दुविधायें तो वहाँ पर समाप्त हो जायेगी। जो मानसिक विकृतियाँ उद्भूत हो रही हैं आप अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग चारों अनुयोगों के अन्दर अपनी चेतना को मांजो।

लेकिन सबसे पहले प्रथमानुयोग के दौर से गुजरो। प्रथमानुयोग हमारा जितना परिपक्व होगा, उतनी ही हमारी अनुभूतियाँ परिपक्व होंगी और यदि केवल एक ही अनुयोग को पकड़े देटे रहे कि आत्मा आत्मा, आत्मा तो आत्मा इतनी सस्ती चीज़ नहीं है जो ऐसे ही मिल जाए। आत्मा का गुणानुवाद करना, आत्मा की बात करना और आत्मा से बात करना जमीन आसमान का अन्तर है।

एक विद्वान् थे जो विशेष रूप से आत्मा का ही गुणानुवाद करते थे। आचार्य क्या कहते हैं, “अदुःखतं भावितं ज्ञानं क्षीयते दुःख सन्निधौ, यदि आपकी मिलिक्ट्री (सैनिक) घोजन

करती रहे और जंगलों में पड़ी रहे, अस्यास नहीं करे । जब लड़ाई का समय आये तो क्या युद्ध जीत जायेगी ? नहीं जीत पायेगी युद्ध । सुखी जीवन में किया गया तत्व का ज्ञान दुःख आने पर पलायमान हो जाता है । खूंटी पर टॅग जाता है । इसलिये इतनी बात होती है तो हम लोग फालतू थोड़े ही थे, घर में मौज मारते, आत्मा-आत्मा चिल्लाते कोई दिक्कत थी क्या ? लेकिन उस आत्मा को पाने के लिये दुःख-सुख सबकी अनुभूतियाँ करते हैं । उसे माँजते हैं कि आत्मा का समत्व तो आ जाए । विपरीत परिस्थितियाँ जुड़ती हैं कि जीवन से जब बौखलाहट उत्पन्न होती है, तब उसको पाना, शमन करना है । मैं ऐसे विद्वान की बात कर रहा था जो आत्मा, आत्मा, आत्मा चिल्लाते थे । हाय ! मेरी प्यारी आत्मा ! प्रभु आत्मा, प्रभु आत्मा ! उसके बिना उनका काम ही नहीं चलता था । एक बार उनको फोड़ा हो गया और जब फोड़ा हुआ तो भाई उसकी चीरा-फाड़ी हुयी डाक्टर ने क्या किया कि उसको मसक दिया तो वह कहने लगे- हाय ! मरा । एक कोई खड़ा था । वह विद्वान कहने लगा कि आत्मा तो मर्ती नहीं है । पण्डित जी कहते हैं भाड़ में गयी वह आत्मा, अभी तो मैं मरा जा रहा हूँ ।

जरा सोचिये, विचारिये जिस आत्मा के व्यक्ति ने जीवन भर गीत गाये और उस आत्मा को एक सैकेण्ड नहीं नगा, भाड़ मे डाल दिया । बताइये, आप तो हमारी आत्मा से हमें कितना प्यार है ? बन्दरिया जैसा । सच्चा प्यार चिड़िया का और सूठा प्यार बन्दरिया का । चिड़िया का प्यार सच्चा क्यों होता है मानूम है आपको बरसात के दिनों में दाना चुग-चुग कर लाती है । जब उसका बच्चा छोटा होता है तो अपने मुंह से चुगाती है । और बन्दरिया का प्यार देखो, अगर आप बच्चे को खाने को दोगे तो उस बच्चे से मुड़ाकर खा नेगा और बन्दर की एक और विशेषता है कि उसका बच्चा मर जाए तो उसे लिये-लिये धूमेगी । कितना प्यार है, एक प्रेक्टीकल करके देखो । बन्दरिया को पानी के अन्दर डालो और पानी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ाओ तो जब तक पानी का स्तर गर्दन तक आयेगा, तब तक अपने बच्चे को ऊपर बैठायेगी और जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, वैसे ही अपने बच्चे को दोनों हाथों से नीचे डाल देती है पैरों पर और उसके ऊपर खड़ी हो जाती है बन्दरिया ।

ऐसा ही हमारा हाल है । जब दुःख पड़ेगा तो भाड़ मे डाल देंगे आत्मा को । शरीर के प्रति मोह जाग्रत हो जायेगा कि हमारा शरीर बचना चाहिये । सम्यक् दृष्टि को शरीर से मोह नहीं होता है । वर्षी जी को आचार्य वीर सागर महाराज, कुन्तु सागर महाराज जो अभी फिरोजाबाद में समाधिस्थ हुये हैं उनको फोड़ा हो गया था जाँघ के अन्दर, पूरी जाँघ पोली हो गयी । डाक्टर लोग पूरी सलाइ डाल-डाल करके निकालते थे मवाद । उनके बेहरे पर वह खुशी, वह मुस्कान आत्मा अलग है और शरीर अलग है, क्योंकि उहोंने उसे दुःख के माध्यम से प्राप्त किया है ।

ध्यान रखना, जो आदमी अपने जीवन में बड़ी मेहनत से कमाता है, उसको पैसे जाने

में बड़ी तकलीफ होती है कि मेरा पैसा जा रहा है और जो हराम की मिली हुयी है, हराम जैसा ही खाता है, उसको दुःख-दर्द नहीं होता है। जो अपनी आत्मा को कष्ट सड़न करके प्राप्त करेगा, वह अपनी आत्मा के अन्दर विकारों को घुसने नहीं देगा कि मैंने बड़ी मेहनत से इसे प्राप्त किया हूँ अगर ऐसे ही मुफ्त में आत्म मिल गयी तो उसे खिलाये जाओ, पिलाये जाओ।

स्वाध्याय हमें अपनी तरफ आने का संकेत देता है। स्वाध्याय हमारी अन्तर्गत परणति को जाग्रत करने की भूमि है। हमारा यथार्थ अन्तरिक का दर्पण है। हमारी जितनी भी दैनिक परिचर्चायें हैं वह सभी स्वाध्याय पर टिकी हुयी हैं। विश्व की जितनी भी सोने से लेकर जागने तक और जागने से लेकर सोने तक कियाओं का हर प्रकार का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से होता है। अपने जीवन को किस प्रकार से जियें यह भी हमें स्वाध्याय से मिलता है। हर परिस्थिति का सामना किस प्रकार से करें? किस प्रकार से उन लोगों ने किया है, यह सभी फ़ार्मूले हमें मिलते हैं। तो स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये। स्वाध्याय जैसी विधि और सस्ती चीज कोई नहीं है थोड़ी सी अन्य चीजें छोड़ करके। चार ग्रन्थों का अपने अन्दर स्वाध्याय कर लो। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे।

एक बात और कहें देते हैं, मन्दिर जी मे बने चित्रों को भी देखने से स्वाध्याय होता है। क्योंकि इन चित्रों की भाषा अनपढ़ भी पढ़ लेते हैं। अतः मन्दिरों में चित्र बनाने की परम्परा बहुत प्राचीन हैं। आप प्रतिदिन उन चित्रों को देखें, और वितन्तन करें। संसार दृष्ट, षट्लेश्य दर्शन आदि के एक-एक चित्र ही पूरे शस्त्र का ससार समझा देते हैं। अतः इन चित्रों के देखने से भी स्वाध्याय होता है।

इसी के साथ मन्दिर जी में लिखे आगम-श्लोक, नीतिवाक्य, दौहे आदि पढ़ने से भी स्वाध्याय होता है। अतः येनकेन प्रकारेण स्वाध्याय करते ही कहना चाहिए।

आज बस इतना ही

बोलो महावीर भगवान की.....

त्रैलोक्य-दीक्षा-गुरवे नमस्ते  
 यो वर्धमानोऽपि निजोन्ततोऽभूत ।  
 प्रागण्ड-शैलः पुनरद्वि कल्पः  
 पश्चान्मेरुः कुल पर्वतोऽभूत ॥  
 जय बोलो जगदगुरो भगवान महावीर स्वामी की.....  
 शारदे शरद-सी शीतल.....  
 जय बोलो श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की.....  
 गुरु भक्त्या वयं सार्व-द्वीप-द्वितय-वर्त्तिनः  
 वन्दामहे त्रि-संख्योन-नवकोटि-मुनीश्वरान् ॥  
 जय बोलो तीन कम नव करोड़ मुनिराजों की.....  
 जय बोलो परम गुरु आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज की.....  
 जय बोलो शिक्षा गुरु आचार्य कल्प श्री श्रुतसागर जी महाराज की..  
 जय बोलो अहिंसामयी विश्व धर्म की.....

कम हमने जगत कल्पाणी जिनवाणी माँ के गुण स्मरण किये थे। जिनवाणी माँ हमारे अन्तस्थल में बैठे हुये अन्यकार को निकाल देती है। हम मन्दिर में बैठे हैं। मन्दिर आये हैं और मन्दिर में हमने अभी तक क्या-क्या पाया है? मन्दिर माध्यम है अपने अन्दर आने के लिये। अपने से साक्षात्कार कैसे किया जाए? अपने आपको कैसे उपलब्ध किया जाए? अपने आप में जो निधि है, अपने स्वकीय आत्मीय गुण हैं, उनकी पहचान कैसे हो जाए? उनकी पहचान के लिये यह माध्यम बना है मन्दिर जी आना। क्योंकि घर में भी व्यक्ति कुछ कर सकता है। लेकिन घर में जो कुछ करता है, आकुलता-व्याकुलता भरा होता है। कहीं बच्चे, कहीं घर के बृद्ध लोग, कहीं अतिथि। कोई न कोई किसी न किसी रूप में बाधक। जिन संस्कारों से हम अपनी आत्मा के संस्कारों को उद्धाटित नहीं कर पाते हैं, वह वातावरण, वह स्थिति नहीं बन पाती है।

इसलिये घर से थोड़ा दूर चलकर हम आते हैं। वहाँ जाकर के थोड़ा समय हम अपनी बुद्धि को थोड़ा विश्राम करायेंगे। विषयों के कोलाहल से दूर ले जाना चाहिये। इसलिये इष्ट स्मरण के लिये, गुरु स्मरण के लिये, प्रभु प्रार्थना के लिये, देव पूजा के लिये, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च यह सब इसलिये बनाये गये हैं कि व्यक्ति अपनी दैनिक भौतिक सामग्री से परे हो, भौतिक आनन्द को छोड़कर, भौतिक सुख को छोड़कर जिस सुख को ईश्वर ने, परमात्मा ने, प्रभु ने प्राप्त किया, उस सुख की अनुभूति की ललक पाने के लिये, उस सुख की आस्था जगाने के लिये व्यक्ति मन्दिर की ओर आता है।

मन्दिर में आ करके हमने बहुत कुछ किया । हमने मूर्ति से, हमने प्रतिमा से, हमने बुत से बहुत कुछ खोजा व पाया । जिनवाणी की भी बन्दना की, उसका स्वाध्याय किया, अध्ययन किया । जिनवाणी भी मोक्ष मार्ग का एक नक्शा है । कहाँ किस स्थान पर किस वस्तु का अस्तित्व है ? इस बात को बताने के लिये जिनवाणी परम साक्ष है । जिनवाणी भी अनुभूत ज्ञान का खजाना है, कपोल कल्पित ज्ञान का खजाना जिनवाणी नहीं माना जाता है ।

वर्तमान में बहुत सारे साहित्यों का सूजन हो रहा है । उनके नाम कई तरह के हो सकते हैं । लेकिन उसे जिनवाणी नहीं कहा जा सकता हैं । क्योंकि वह सारी की सारी कहानियाँ हमें क्षणिक सुख दिखाती है और बाद में हमारे सारे अस्तित्व को लूट नेता हैं । उन कहानियों में, उन कथाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है । भौतिक जगत का अस्तित्व तो हो सकता है । लेकिन परमात्म जगत का अस्तित्व उन कहानियों में नहीं है ।

जिनवाणी के अन्दर शास्त्रों के अन्दर उस चरम शक्ति को अनुभूत करके लिखा है । जिन्होंने उस आत्मा का साक्षात्कार किया है । यह चश्मदीद लोगों के बयान हैं, चश्मदीद लोगों के दस्तावेज है । जिन्होन आत्मा को बिल्कुल साक्षात् देखा है । किन-किन, कैसी-कैसी परिस्थिति में आत्मा के साथ क्या-क्या हुआ है ? बिल्कुल साक्षात् अनुभूत किया है, चश्मदीद बने हैं और उनके बयानों को लिपिबद्ध किया गया है उसे ही शास्त्र कहा हैं और उन अनुभूतियों को जिन्होंने साक्षात्कार किया है, करेंगे और कर रहे हैं, वह परमेष्ठी हैं गुह है, जो उन साक्षात् अनुभूतियों की करते हैं । तो अभी आप मन्दिर में थे । मन्दिर में आपने इष्ट का दर्शन किया, जिनवाणी को नमन किया ।

आपके पास समय रहा तो आपने माला भी फेरी । प्रायः हर धर्म, संस्कृति में माला का भी अपना महत्व है । माला फेरी जाती है । कोई उक्ती माला फेरते हैं । दाने बाहर को ले जाते हैं । कोई अन्दर की तरफ फेरता है । कोई हाथ से फेरते हैं कोई श्वासोच्छवास से फेरते हैं । कोई रत्नों की माला से फेरत है, कोई मोतियों से फेरते हैं, कोई सूत की माला फेरते हैं, तुलसी की माला फेरते हैं, काई रुद्राक्ष की माला फेरते हैं । परन्तु आज तक एक भी माला नहीं फिरी-

माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर।

कर का मनका डारिकै, मन का मनका फेर॥

माला क्यों फेरी जाती है, माला में कितने दाने होते हैं ? १०८ दाने होते है । प्रायः हर धर्म संस्कृति के जितने भी जाप अनुष्ठान के उपक्रम हैं, वे सन्तुलित हैं, व्यवस्थित हैं । १०८ दाने उस माला के अन्दर क्यों होते हैं ? १०८ के सभी अंकों को आपस में जोड़िये तो नी बन जायेंगे । विश्व के अन्दर नीं की संख्या ऐसी है कि इसको दुगुना करते जाओ और उसका योग लगाओ तो नीं ही निकलते हैं ।

हमारे ईनिक जीवन में किसी भी कार्य को हम सम्पादित करते हैं, वह भी १०८ प्रकार से होता है। चाहे पाप रूप हो, चाहे गुण्य रूप हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। माता-बहिनें आलोचना पाठ पढ़ती हैं। जिनवाणी के अन्दर आलोचना पाठ है। उसके अन्दर लिखा है कि हम जो ईनिक कर्म करते हैं तो वह १०८ प्रकार से कैसे होते हैं-

“समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ।  
कृत कारित भोदन करिकं, क्रोधादि चतुष्टय थरिकं॥”

इन सबको परस्पर में आप मिलाइये। समरंभ, समारंभ, आरंभ, तीन। मन, वचन, काय तीनों को तीन से गुणा कर दो। ( $3 \times 3 = 6$ ) कृत, कारित, अनभोदना फिर गुणा कर दो। ( $6 \times 3 = 27$ ) क्रोध, मान, माया, लोभ ( $27 \times 4 = 108$ ) इनके वशीभूत होकर मनुष्य हर कर्म को करता है। चाहे वह अच्छे हो या बुरा। चारों कथाओं का उपशमन करेगा तो अच्छे कर्म करेगा और चारों कथाओं के साथ चलेगा तो बुरे कर्म करेगा।

समरंभ क्या है? किसी भी कार्य की संकल्प शक्ति मन के अन्दर अवतारित करना। किसी भी अच्छे, बुरे कर्म की संकल्प को मन की अन्दर अवतारित करना समरंभ है। अब उस कार्य को किस प्रकार से फलीभूत किया जाए? उस कार्य को कैसे सम्पादित किया जाए? तो उसकी सामग्री जुटाना, वह है समारंभ। और जब सामग्री जुट गयी तो उसको परिपूर्ण रूप दिया जाए, व्यावहारिक रूप दिया जाए तो वह है आरंभ।

स्वयं करना कृत है। दूसरे से कराना कारित है और कोई कर रहा है, उसकी प्रशसा करना, उसको प्रोत्साहन देना वह अनभोदना है। और क्रोध, मान, माया, लोभ की बात तो सभी जानते हैं। गुस्सा करना क्रोध। अहंकार करना मान। छिपाना, कुटिलता रखना-माया। लालच-लोभ। इतनी प्रकार की प्रक्रियाओं से कर्मों का आश्रव होता है। जो हमारी आत्मा को सुखी व दुःखी करते हैं। जब अच्छे मार्ग में समरंभ, समारंभ, आरंभ, कृत, कारित, अनभोदना, मन, वचन, काय और क्रोध, मान, माया, लोभ की स्थिति को संभालते हुये लग जायेंगे तो अच्छा प्रतिफल देते हैं। और इन्हीं का ही हम कोई दूसरा रूपक ले लें तो विपरीत प्रतिफल देते हैं।

इसलिये उन १०८ कर्मों का आश्रव हमारे जीवन से निकल जाए, माला इसलिये केरी जाती है। प्रभु का स्मरण १०८ प्रकार से किया जाता है कि वह हमारे १०८ प्रकार के माध्यम से जो अशुभ कर्मों का आश्रव हो रहा है, वह प्रभु का नाम लेने से रुक जाए। एक-एक दरवाजे पर एक-एक प्रभु, एक-एक परमात्मा को खड़ा कर देते हैं नाम ले-लेकर कि प्रभु, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। यह कर्म यहाँ से आ रहा है। इसको यहाँ से न आने देना, मेरे अन्दर की शान्ति को यह कर्म नष्ट कर देते हैं। जब प्रभु का नाम वहाँ केन्द्रित हो जाता है, भावनाओं से, भावनात्मक तरीके से तो फिर पाप कर्म की हिम्मत नहीं है कि वह अन्दर पुस आये। प्रभु हमारी आत्मा की पहरेदारी करते हैं, १०८ तरीके से ।

लेकिन हमने आज तक उस तरह से प्रभु को पुकारा ही नहीं कि वह हमारी पहरेदारी करें। हमने तो अपने विषय-कथाओं से इतना मेल-मिलाप कर रखा है कि वहाँ प्रभु आता ही नहीं है। आता भी है तो दरवाजा देखकर चला जाता है कि इसकी परणति ठीक नहीं है। इसके साथ मैं और पिट जाऊँगा। क्योंकि प्रभु सोचता है कि जब तुम्हें हमारे अन्दर आस्था नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा तुम्हारे अन्दर जा करके तुम्हारे संग में हम भी पिस जायेंगे। प्रभु बहुत समझदार है। प्रभु को इतना भोला मत समझो। प्रभु आपकी थोथी बातों से प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु भोली बातों से प्रसन्न होता है, थोथी बातों से नहीं।

एक गड़िरिया था। अपनी भेड़ें चरा रहा था। वह बहुत भोला था और ऐसे लोगों को भगवान मिल भी जाते हैं। बड़ा विचित्र है। महावीर जी में एक ग्वाले को सपना देकर महावीर भगवान निकले। जो जैन धर्म को जानता भी नहीं और मानता भी नहीं हैं, एक उस भोले जीव को दिखे। उस समय तो राजा महाराजा समी थे। भगवान बड़े आदमी के बन जाते लेकिन नहीं। गरीब को जो गरिमा है, गरीबता की जो सुगन्धि है, कैसी सुगन्धि है? जैसे बहुत धूप निकलने के बाद जब बरसात का एक झोका आता है तो पृथ्वी के अन्दर सोए गी-सोधी मिट्टी की सुगन्धि होती है ऐसी गरीब की आत्मा में भक्ति की सुगन्धि होती है। उसकी दिखावे की कृत्रिम सुगन्धि नहीं होती। उसका प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति कैसा प्रेम होता है? तुलसीदास जी महाराज ने एक जगह लिखा है-

“ज्यों गरीब की देह को, जड़कारे को धाम।  
ऐसे कब लग हो प्रभु-तुलसी के मन राम।”

तुलसीदास जी ने कभी बड़े आदमी का उदाहरण नहीं दिया। गरीब की देह को उस जड़कारे का धाम कैसा सुहावना लगता है, भीठा लगता है? उसकी लतक पाने के लिये वह भागता है। ऐसे कब लग हो प्रभु तुलसी के मन राम? ऐसी भक्ति, ऐसी उमग उस भक्त के अन्दर होती है तो वह प्रभु हमारी आत्मा का जाप, माला के माध्यम से स्मरण करते हैं तो वह आता हैं। लेकिन मुश्किल बात यह है-

“मन्दिर तीरथ भटकते, वृद्ध ढे यथा छैल।  
पग की पनहिया पिस गंडी, गश्श २-५८ का मैन।”  
“पाप करते हैं तो बेशुमार करते हैं।  
गिन गिन कर नाम लेते हैं परवर्द्दिगार का।”

ईश्वर का, परमात्मा का, गुरु का नाम गिन-गिन कर लेंगे जैसे रुपया गिन रहे हों। कहीं एक ज्यादा न चला जाए और पाप, कोई गिनती है। दिन भर में मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनमोदना से, समरंभ से, समारंभ से, आरंभ से, क्रोध से, मान से, भाया से, लोभ से कितने प्रकार से हम लोग पाप करते जाते हैं?

इसलिये प्रभु का नाम लेने के लिये १०८ दिनों का प्रावेधान रखा और विशेषता रखी उसके सुमेह पर तीन दाने और डाल दिये। उन १०८ दानों को नियन्त्रण में रखने के लिये तीन दाने और डाल दिये। वह तीन दाने हमारे मन, वचन, काय की एकाग्रता के प्रतीक हैं। सारे के सारे दाने अलग-अलग दो गाउण्ड में रहते हैं, एक ही थागे के अन्दर रहते हैं। दोनों थागे एक ही दाने के अन्दर से गुजरते हैं जहाँ भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है-

“जब मैं था, तब हरि नहीं, जब हरि था मैं नाहिं।

प्रेम गली अति साकरी जामें दो न समाहिं।”

जहाँ अहंकार गुद्ध नहूँ हो जाता है, वहाँ पर परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो यह नीन दाने रत्नत्रय के प्रतीक हैं जो १०८ प्रकार के कर्मों को गोक सकते हैं। रत्नत्रय क्या हैं? कल भी बताया था। हमारी बोल-चाल की भाषा में, हम सबसे पहले इसी बात का उपदेश देने हैं बच्चों को। बेटा देखभाल कर चलो। देखभाल कर चलना, अच्छी तरह देखकर चलना। मतलब कही घटना या दुर्घटना ना हो जाए। घटना व दुर्घटना क्यों होती है? क्योंकि हम अच्छी तरह देखकर नहीं चलते हैं। देखना, सम्पूर्ण दर्शन है। भलना, सम्पूर्ण ज्ञान है और चलना सम्पूर्ण चारित्र है। रत्नत्रय की आराधना से हम इन्हें प्रकार के दुष्कर्मों से छूट सकते हैं।

माना फेरने की आकुलता मत कीजिये कि हमने इन्हीं माला फेरी। आप अपने इष्ट को केवल नौ बार ही जपिये। एक मठानुभाव पूछ रहे थे कि मठाराज, नौ बार ही यमोकार मन्त्र पढ़ने की बात क्यों कही जाती है? तो हमने अभी नौ की ही बात बतार्थी थी कि नौ का अक ऐसा है कि कहीं भी उसके दुगना करके उसका योग निकालना दो तो वह अपने स्वरूप में आ जाता है। कितने ही विस्तार में नै जाओ। जब हम उसका सकलन करते हैं तो वह अपने स्वरूप में आ जाता है। नौ का अक अपने स्वरूप को बताने वाला अक है। कहने का मतलब कि माला जो है, वह आकुलता-व्याकुलता से नहीं निराकुलता से फैरिये। आप दानों से मत गिनये। आप समय तक ऐसा निश्चित कर लीजिये कि हमें केवल पाँच मिनट ही प्रभु का स्मरण करना है। पाँच मिनट में चाहे एक ही बार करों, लेकिन कायदे से करो।

तो मैं उस ग्वाले की बात बता रहा था। वह अकेला बैठा-बैठा प्रभु से कहता था, प्रभु, तू मेरे पास आ जा। मैं खाली रहता हूँ। मैं तेरे पैर दबाऊँगा। मैं तुमको बाजरे की मोटी-मोटी रोटी खिलाऊँगा। मैं तेरी सेवा करूँगा। मैं तुझे दूध पिलाऊँगा, मैं तुझे नहनाऊँगा। तो एक विद्वान वहाँ से गुजर रहा था। वह उस ग्वाले की प्रार्थना को सुन रहा था। उसको बहुत ही झुঁঝলাহট आयी कि तू कैसा मूर्ख है? तू परमात्मा को ऐसे बुला रहा है। उसको पीटा। परमात्मा अवतरित हुआ। उस पण्डित को पकड़ लिया और उसको सजा दी।

उस ग्वाले की भक्ति में खुशबू थी। उसकी भक्ति में आन्तरिक आक्षान था। हम लोग

## मन्दिर । ६४

शब्द आडम्बर ढूँढते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने के लिये भक्त कभी शब्द आडम्बर नहीं ढूँढता है। कभी श्यांग नहीं करता है। भगवान होते हैं और जो परमात्मा, गुरु श्वाग से प्रसन्न हो तो वह परमात्मा गुरु है ही नहीं। गुरु भावों को महत्व देते हैं, भाषा को महत्व नहीं देते हैं। भगवान ने आज तक भावों को महत्व दिया है। भाषा को कभी महत्व नहीं दिया। महादीर्घी में चले जाओ, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, अब वहाँ पर बहुत विशाल मन्दिर बन गया है। गूजर आते हैं त्यौहारों पर रोटी, दाल चावल, खीर लाते हैं और फर्श पर फेकते हैं और कहते हैं ले, बाबा खा ले। गालियाँ देते हैं भगवान को। भगवान उनकी गालियों से इतन नहीं है। नानक महाराज कहते हैं कि उस खून की कमाई की पूँडी से गरीब की खून-पर्दी में मेहनत की सूखी रोटी जो है, उसमें ज्यादा रस है।

आज तक किसी बड़े आदमी ने भगवान के दर्शन नहीं किये। लेकिन गरीब लोगों ने भगवान के बहुत दर्शन किये हैं। अगर अमीर आदमी ने दर्शन किये हैं तो उसे भी गरीब आदमी बनना पड़ा होगा। अमीर बनकर कभी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। उसे हम जैसा गरीब बनना पड़ा होगा। जिनने भी महापुरुष हुये हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जगत को चले गये, गरीब बन गये। अपना जो कुछ था, वह सब लुटा दिया। सब बेकार हैं कि यह सब परमात्मा से मिलने में बाधा करता है। इसके पार्थ्यम से आपस की प्रेम-प्रीति टूटती है। यह माया ही सब हमारे भगवान में भेद कर देती है।

दो मित्र थे। आपस में उनमें बड़ा प्रेम था। एक मित्र ने अपने खेत में ककड़ियाँ बो दी थीं। अच्छे-अच्छे फल की फसल बो दी। एक मित्र कहीं बाहर गया हुआ था। वह कई दिन बाद लौटा। उसे अपनी मित्र की याद आयी तो वह तो अपने खेत पर था, ककड़ियों की रक्षा कर रहा था, फसल की रक्षा कर रहा था। एक अच्छी-सी ककड़ी को देखकर उसके मन में विचार आया और उसका मित्र सामने से आ रहा था। उसने अपने मित्र को देखा और सोचा कि यह तो बड़ी गड़बड़ हो गयी। वह आयेगा तो उसको ककड़ी खिलानी पड़ेगी तो यह ककड़ी टूट जायेगी।

इसलिये वह अपने खेत की पाल पर लेट गया। मित्र आया, उसने देखा कि हमारा मित्र सो रहा है। लेकिन बगल में एक सुन्दर-सी ककड़ी खिल रही है। उसका मन हुआ कि अपने मित्र को जगाये, उठाये। लेकिन वह किसी कारण से आगे बढ़ गया कि मेरे मित्र के मन में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है आदर-सत्कार नहीं करना चाहता है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं ?

“आबत ही हरबै नहीं, नैन नहीं सनेह।  
तुलसी तहाँ न जाइये, कंचन बरसै नेह॥”

कितनी ही प्रेम-प्रीति हो, भाव बता देते हैं। पदार्थ और संसार की और वस्तुएँ, खाने-पीने का मामला अलग है। लेकिन प्रेम और प्रीति केवल भावों से ही जुड़ी होती है। उसके मन में कुछ गड़बड़ हो गयी और वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह मित्र उठा। उसने देखा कि वह ककड़ी वर्ही पर लगी हुयी है। मित्र आकर के चला गया है। बड़ी विचित्र स्थिति बनी उसके मन की। हमारा मित्र बुरा मान गया, मात्र एक ककड़ी के कारण हम दोनों के आपस का प्रेम टूट गया।

उसने उठकर लाठी से उस ककड़ी को पीटना शुरू कर दिया कि तेरे कारण मेरी वर्षों पुरानी मित्रता टूट गयी। तू है ही कितने दिन की? तुझे कोई न कोई खा ही लेगा। लेकिन तेरे कारण जो मेरी मित्रता थी, वह खटायी में पड़ गयी। और उसको लाठियों से पीटने लगा। आवाज आ रही है, ककड़ी को पीट रहा है। लौटकर आ गया मित्र। बिना बुलाये आ गया और कहने लगा, क्या हो गया भाई? इस ककड़ी ने हम दोनों के बीच एक दरार डाल दी, मित्र ने कहा।

तो इस संसार की, विषय-कथायों की वस्तुएँ हम लोगों को धर्म से दूर ले जाती हैं, व्यावहारिक जीवन में दरार डाल देती हैं, सामंजस्य नहीं होने देती हैं तो जिन-जिन पदार्थों से हमारे जीवन में आकुलता-व्यकुलता का प्रादुर्भाव हो, उन-उन पदार्थों की अपेक्षाओं का परित्याग कर दें। अपने आप एक समत्व का साक्षात्कार अपने जीवन में हो जायेगा तो माला फेरने का मन से उपकम करो, करने की चेष्टा करो। उसके बाद हम तीसरी प्रणाली पर आते हैं।

गुरु-दर्शन, यह बहुत कम लोगों को हो पाते हैं। किसी-किसी का अपना-अपना भाग्य होता है। सत्संगति, गुरु दर्शन यह सब एक ही नाम हैं। संसार में दो बातें बड़ी दुर्लभ हैं। तुलसीदास जी कहते हैं-

“सन्त समागम, प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोय।

सुत दारा अठ लक्ष्मी, पापी के भी होय॥”

धन, सम्पदा, स्त्री इत्यादि इससे कोई मतलब नहीं है। यह तो पापी के भी होते हैं। लेकिन सन्तों का समागम और प्रभु का भजन। ये संसार में अत्यन्त दुर्लभ चीज़ हैं।

“शैले-शैले न माणिक्यं, भीकितं न गजे गजे।

साधुवों नहीं सर्वत्र, चन्दनं न वने वने॥”

हर पर्वत पर माणिक नहीं होते हैं। हर हाथी के मस्तिष्क पर मुक्ता नहीं होती है। सज्जन, साथु पुरुष हर जगह नहीं मिलते हैं और आपके आस-पास चन्दन का वृक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिये सन्त संगति को महत्व दिया। कैसे मिलना चाहिये सन्त से? कैसे दर्शन करना चाहिये? कैसे साक्षात्कार करना चाहिये? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं-

“सन्त भिलन को चालिये, तज माया अभिमान।

ज्यों-ज्यों पग आगे धरें, कोटि यज्ञ फल जान॥”

सन्तों के पास जाओ तो माया और अभिमान को बाहर खूबी पर टाँग आओ, छोड़ आओ, क्योंकि गुरु जो बाँट रहे हैं, संत जो बाँट रहे हैं, यदि आप पहले से ही लेकर आओगे तो जो गुरु दे रहे हैं, वह किसमें लेकर जाओगे ? उसके लिये आपके पास जगह नहीं होगी। इसलिये माया और अभिमान का अन्दर से जो भराव है उसको बाहर तिलात्रजली देकर आ जाओ ॥

एक भक्त जब चलने लगा, गुरु दर्शन के लिये तो गुरु महाराज का कमण्डल बाहर रखा हुआ था। उसने कहा-कहाँ जा रहे हो ? इधर आओ। उसने कहा मैं गुरु महाराज के दर्शन करने के लिये जा रहा हूँ तो कमण्डल ने बुलाया और उससे कहा-

“गुरु दर्शन से प्रथम कमण्डल, कहता मुझको देखो;

मुझ जैसा अपने को, गुरु चरणों में भत फेंको॥

क्योंकि त्यागियों की सेवा में, यह मेरा जीवन बीता।

बहुत सुने उपदेश, भगर फिर भी रीते का रीता ॥”

आती पड़ा रहता है बेचारा । भर नहीं पाया आज तक । ऐसे कमण्डल बन कर नहीं आना । जब वह श्रावक, श्रद्धालु, गुरु महाराज के पास पहुँचा तो हाथ में ली हुयी सामग्री को किस प्रकार से अर्पण किया उसने-

“उदक-बन्दन-तन्दुल पुष्पकैःवरु सुदीप सुधूपैः।

थल-मंगलगान-रवाकुले, जिनशृङ्खे गुरुणा-अहंयजे ॥”

ॐ हीं श्री गुरुम्भो अर्घ्यं निर्बापामीती स्वाहा ॥

सम्पूर्ण दर्शन, ज्ञान ,चरित्र स्वरूप गुरु के लिए हमारा नमस्कार हो इस प्रकार मंदिर जी में विराजित आचार्य-उपाध्याय-साधु-अर्धिका जी-ऐलक- क्षुल्लक-क्षुल्लिका जी को द्रव्य-अर्ध्य चढ़ाना चाहिये । आचार्य-उपाध्याय-साधु को नमस्कार करते समय नमो स्तु बोलना चाहिये । अर्धिका माता जी के लिये बन्दामि-ऐलक-क्षुल्लक-क्षुल्लिका जी के लिये इच्छामि या इच्छाकार, ब्रह्मचारी- ब्रह्मचारिणी जी को सादर हाथ जोड़कर बन्दना कहना चाहेये । गुरु को नमस्कार करते हैं पिच्छी बोलने लगी । जो हाथ में एक उपकरण है । जो पिच्छी कहलाती है । यह एक अहिंसा का उपकरण है । लोग कहते हैं कि महाराज इसको लगा दो । अरे ! पिच्छी तो कीड़े-मकोड़ों को हटाने के लिये लगायी जाती है । आप कोई कीड़े मकोड़े तो हो नहीं । इसकी मुदुता, प्राकृतिक कोमलता इतनी है कि इसे व्यक्ति अपनी नंगी (खुली) आँखों पर लगाये, फिर भी आँखों पर किसी प्रकार की जलन नहीं होगी, किरकिरी नहीं मचती है, दर्द नहीं होता है । यह एक प्राकृतिक

उपकरण है। इसलिये इससे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव बच जाता हैं। बचा लेते हैं, तब जमीन पर बैठते हैं पिछों भी कहने लगी कि आपने कमण्डल की बात सुनी, अब कुछ मेरी भी बात सुनो-

“जो पीछि का पीछा करते, वे श्रावक कहलाते।

जब तक पीछि का पीछा है, मोक्ष नहीं जा पाते॥

जिनने पीछि पकड़ी, उनको मोक्ष लहसी बरती।

ऐसे त्यागी सन्तों का, पीछि खुद पीछा करती॥”

गुरु, विश्व के अन्दर गुरु का सबसे बड़ा महत्व है। हर मजहब, हर धर्म, हर संस्कृति, हर सम्प्रदाय में उस धर्म को जिन्दा रखने वाला है तो वह गुरु है। यदि ये गुरु नहीं होते तो जरा आप कल्पना करके देख लो कि धर्म की क्या दशा होती? इस धर्म की सुरक्षित रखने के लिये हमारे गुरुओं ने कितना बलिदान दिया है? कितना तप, त्याग, सयम, तपस्या की है? गुरु एक ऐसा माध्यम है जो परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। कबीरदास जी अपने एक दोहे में निखते हैं-

“कबिरा वे नर अन्ध हैं, गुरु को कहते और।

हरि रुठे गुरु ठौर है, गुरु रुठे नहीं ठौर॥”

अभी किसी साहित्यिक को बुलाया जाए और इसका अर्थ कराया जाए कि इस दोहे का अर्थ क्यों? “कबीरा वे नर अन्ध हैं” वे मनुष्य अन्धे हैं जो गुरु को और बताते हैं, उपेक्षित बताते हैं, गुरु की उपेक्षा करते हैं, गुरु का अपने जीवन में कोई महत्व नहीं समझते हैं। अंतिम पक्षि मे कहते हैं कि “हरि रुठे गुरु ठौर है, गुरु रुठे नहीं ठौर”。 क्या अर्थ इसका हुआ? भगवान रुठ जाए तो गुरु ठौर है और यदि गुरु रुठ गया तो कोई ठौर नहीं है। ये सासारी जीव तो अपने मतलब का अर्थ निकालेंगे।

लेकिन ध्यान रखना जो हरि रुठता है, वह हरि नहीं और जो गुरु रुठता है, वह गुरु नहीं। रुठने वाला कौन होता है? जिसका काम नहीं बनता है वह ही भगवान को गाली देता है। भगवान ने आज तक किसी को गाली दी। आप मन्दिर जाते हैं और आप ८-१० दिन मन्दिर नहीं जाओ तो क्या भगवान आपका हाथ पकड़कर पूछते हैं कि आप मन्दिर क्यों नहीं आये? लेकिन आप आठ-दस दिन मन्दिर आये, आपने प्रार्थना की और आपका काम नहीं हुआ तो आप कहते हैं तुम भगवान नहीं, “तुम तो पत्थर के भगवान हो!” गाली देकर चलते बनोगे, क्योंकि आपकी सुनी नहीं।

“नाराज सो महाराज नहीं, महाराज तो नाराज नहीं।” आप रुठेंगे गुरु से क्योंकि गुरु कड़क होता है। गुरु का अर्थ भारी होता है। गुरु का वजन हर व्यक्ति सहन नहीं कर

पाता है और जो गुरु का वजन सहन नहीं कर पाये, वह संसार में कुछ नहीं कर पाता ।

“गुरु कुम्हार शिष्य कुम्ह है, घड़-घड़ खाड़े खोट ।

अन्तर द्वाय पसार के, बाहर भारे चोट ॥”

कैसा उदाहरण दिया ? यदि मिट्टी कुम्हार की थप्पों की चोटी से डर जाए, तो वह कभी भी व्यक्ति के सिर पर नहीं बैठ सकती है, घड़ा नहीं बन सकती है । यदि पत्थर शिल्पकार की छैनी, हथौड़ी की चोटी से डर जाए तो वह कभी प्रभु की मूरत नहीं बन पाता है । जब एक पत्थर को इतना सहन करना पड़ता है, जब एक मिट्टी को इतना सहन करना पड़ता है । हम तो एक इन्सान हैं । हमें भी कुछ सहन करना होगा । ऐसे भी कहते हैं । शिष्य और शीशी को डांट लगाकर रखना चाहिये ।

गुरु हमारे स्वरूप को उद्याहरित करते हैं । निमित्त कारण है । गुरु हमारे जीवन के शिल्पकार है । हमारा जीवन अनगढ़ पाषाण की तरह है । मिट्टी की तरह है, उनके चरणों में जब हमारा जीवन समर्पित हो जाता है, हमारी श्रद्धा समर्पित हो जाती है, तब गुरु उसमें तरासते हैं । उसकी जैसी सम्भावना होती है, उस तरीके का रूप देते हैं । कोई हीरा होता है, कोई पन्ना होता है, कोई मोती होता है, कोई लाल होता है और कोई माणिक होता है । जिस तरह का होता है, जिस शब्द का, जिस रूप का होता है, उसमें ढाला जाता है ।

वह तो गुरु ही जानता है कि इसमें किस प्रकार की सम्भावना है ? ऐसे ही वह उसको तगसेगा । गुरु कुशल शिल्ली है जो भक्त की भावनाओं को तराशता है । गुरु साक्षात् जीता-जागता शास्त्र है । जिस शास्त्र को आपने महीनों और सालों में पढ़ा । उस शास्त्र का सम्पूर्ण निष्कर्ष गुरु के सान्निध्य में बैठकर एक श्लोक में, एक शब्द में आपको मिल सकता है ।

गुरु का अर्थ है 'गु' का अर्थ अन्धकार और 'रु' का अर्थ दूर करना अर्थात् अन्धकार को दूर करना । जो हमारे अन्तरग में बैठे हुये अज्ञान अन्धकार को दूर करते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं । जो हमारे प्रभ को मिटा दें, वह गुरु हैं । गुरु वैद्य है, गुरु इन्जीनियर है, गुरु वकील है, गुरु डाक्टर है । जितने भी हमारे जीवन के पहलु जुड़े हुये हैं । जिन-जिन माध्यमों से होते हैं, वह सब गुरु के अन्दर उपलब्ध होते हैं । नेक सलाह देते हैं, इसलिये वकील है । हमारी जीवन शैली का एक नक्शा खींच देते हैं, इसीलिये एक इन्जीनियर है । हमारे अन्दर बैठे हुये भ्रग रोगों को निकाल देते हैं, उनका आपरेशन करते हैं इसलिये डाक्टर हैं । मनोविज्ञानिक कहते हैं जितने अच्छे तरीके से आप अपने मन की बात अपने गुरु को बता सकते हो, उतने खुलकर और किसी को नहीं । इसलिये प्रायशिक्षण का विधान हैं गुरु के समक्ष गलती को तथा स्वीकार करना । जैसे आपके शारीरिक चिकित्सा करने वाले फैमली डाक्टर होते हैं, उसी प्रकार

आपके एक कैमली गुरु भी होना चाहिये। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। एक सम्प्रदाय में गुरुमुखी होने की पूरी दीक्षा विधि है। गुरुमन्त्र कान में फूँका जाता हैं ? गुरु क्या नहीं हैं ? जो गुरु साक्षात् ब्रह्म से मिला देते हैं। वह परम मित्र हैं।

“गुरुः ब्रह्म, गुरुः विष्णु, गुरुः देवो महेश्वरः।

गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः॥”

तुम्हीं हो माता, पिता तुम्हीं हो, तुम्हीं हो बन्धु, सखा तुम्हीं हो। सब कुछ वही हैं। लेकिन तुम गुरु से कुछ मुड़ाने की चेष्टा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो झपटने की चेष्टा करते हैं कि गुरु से यह भी ले लो, वह भी ले लो।

घर में माता-पिता की जायदाद होती है कंकड़-पत्थर। हम तो इसको कंकड़-पत्थर ही मानते हैं। हीरा, मोती, सोना, चाँदी यह सब कंकड़ पत्थर तो है ही। यह सब मिट्टी से ही तो निकले हैं। कोई आसमान से तो टपके नहीं हैं तो उनको झपटने के लिये उनकी खुशामद करेंगे। यह नहीं चलता है। गुरु की दृष्टि बड़ी विविच्छ होती है वह समझ जाते हैं- कौन व्यक्ति किस भाव से सेवा कर रहा है ?

इतिहास के अन्दर उसी ने सब कुछ पाया है जिसने गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। और जो गुरु के सिंहासन को छुड़ाने में लगे, गुरु की जायदाद, गुरु का आश्रम अपने नाम कर लो आदि। उनको सब पौद्यालिक पदार्थ तो मिला, लेकिन जो आन्तरिक ज्योति थी जो गुरु की जल रही थी, वह ज्योति तो केवल उसी ने जला पायी जिसने गुरु के बाहरी हर पदार्थ को नकार दिया केवल आन्तरिकता से जुड़ा रहा।

पिछला इतिहास उठाकर देख लो। क्रष्ण-मुनियों के आश्रम में जितने भी बालक पढ़ते थे, जो गुरु की गाय चराता था, जो गुरु को ईधन लाकर देता था। उस बालक ने सबसे ज्यादा ज्ञान उपार्जन किया। और वह बैठे रहे जो पौरी-पतरा पढ़ते रहे। उनको प्रभु के, परमात्मा के, गुरु के किसी के दर्शन नहीं हुये, वह पढ़-पढ़ाकर अपने घर चले गये।

विश्व के अन्दर गुरु एक सबसे बड़ी सामर्थ्य है। एक बार देवताओं के अन्दर विचार-विमर्श चल रहा था कि संसार में सबसे भारी बड़ा कौन है ? तो उन्होंने कहा-सबसे बड़ी पृथ्वी है तो विचार भी किया। हाँ, पृथ्वी सबसे बड़ी है। लेकिन एक देव उससे सहमत नहीं हुआ। वह कहने लगा-यदि पृथ्वी बड़ी है तो यह बताओ कि वह शेषनाग के सिर पर क्यों टिकी है? जो इतनी बड़ी पृथ्वी का वजन सहन कर रहा है तो वह उससे बड़ा हो सकता है। सबकी अकल में आयी हाँ, शेषनाग जी सबसे बड़े हैं। सब कहने लगे- हाँ, भाई ! शेषनाग जी सबसे बड़े हैं।

लेकिन एक देव कहने लगा कि जब शेषनाग जी बड़े हैं तो वह शंकर जी के गले में क्यों पड़े हैं? तो सबकी अवल में आयी कि शंकर जी सबसे बड़े होने चाहिये। तो सब कहने लगे कि शंकर जी सबसे बड़े हैं। एक देव कहने लगा-यदि शंकर जी सबसे बड़े हैं तो वह कैलाश पर्वत पर क्यों पड़े हैं? तो सभी कहने लगे कि हाँ, भाई कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। तो एक देव कहने लगा कि कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है तो यह हनुमान जी के हाथों में क्यों अड़ा है? तब सब कहने लगे कि हनुमान जी सबसे बड़े हैं फिर एक देव कहने लगा कि हनुमान जी सबसे बड़े हैं तो यह रामचन्द्र जी के चरणों में क्यों पड़े हैं? तो फिर सभी कहने लगे कि रामचन्द्र जी बड़े हैं, रामचन्द्र जी बड़े हैं तो एक देव कहने लगा कि रामचन्द्र जी बड़े हैं तो वह गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं, तो सबको मालूम हुआ कि गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है-

**“हरि रुठे गुरु ठौर है, गुरु रुठे नहीं ठौर।”**

एक बार आप भगवान को मानने से इन्कार कर दोगे, भगवान को गाली दे आओगे तो कोई बात नहीं है। गुरु रुठे नहीं ठौर। यदि गुरु से रुठे गये तो संसार में कोई ठौर नहीं है। गुरु एक ऐसा सलाहकार है जो आपकी रुठे हुये से मैत्री करा देगा, किसी न किसी प्रकार से आपको रुठे परमात्मा से मिला देगा। इसलिये-

**“गुरु गोविन्द दोऊ छाडे काके लागूँ पाँय।**

**बलिहारी उन गुरुन की, गोविन्द दियो बताए॥”**

गुरु वह है जो आप परमात्मा से रुठ जाओगे। फिर भी किसी न किसी प्रकार से आपका परमात्मा से परिचय करा देगा। लेकिन यदि गुरु रुठ गये तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको परमात्मा से साक्षात्कार करा दे ?

गुरु उपासन से क्या मिलता है? यह बात बहुत सोचने और समझने की है। हम शास्त्र कितनी भी बार पढ़ लें? फिर भी शास्त्र हमको समझा नहीं सकता है। लेकिन गुरु के पास आकर हम बहुत कुछ समझ राकरते हैं। लेकिन यह गुरुओं का समागम भी, सन्तों का समागम भी बिना पुण्य के नहीं मिल पाता है।

**“पुण्य पुञ्च बिन मिलहिं न संता, सत्संगति संसृति कर अन्ता।”**

उसके लिये प्रकृष्ट पुण्य का संचयन चाहिये। जो सत्य से साक्षात्कार करा देते हैं, उसका नाम है सत्संगति। जो आन्तरिक सत्य हैं, संत उससे हमारा साक्षात्कार करा देते हैं। उस अन्तरंग सत्य में प्रभु, परमात्मा की उद्भूति करा देते हैं वह सन्त होते हैं। जो अन्त से सहित होते हैं। वह संत होते हैं जिनकी सत्संगति संसार को अन्त कराने वाली होती है। सत्संगति संसृति कर अन्तः। सत्संगति का अर्थ- जिनकी संगति हमारे संसार के परिवहन की यात्रा को

मिटा देती है, जो अन्तरंग में विषय-कथाओं के बबण्डर उठ रहे हैं, विषय-कथाओं के तूफान आ रहे हैं। विषय-कथायों के जगत में भटक गये हैं। कथायों के कोटे चुम रहे हैं। इन सबसे परिमुक्त करके गुरु, हमारे अन्दर नयी स्फूर्ति, नया उजाला, नया प्रकाश उद्घाटित कर देते हैं। आपके पास सब कुछ हो। एक भक्त कहता है-

“शरीरं सुरुपं सदा रोग मुक्तं,  
यशश्वासु वित्रं धनं मेरु तुल्यं।  
गुरोरधिं पद्मे मनश्वेत् न लग्नं,  
ततः किं ततः किं ततः किं ? ॥”

आपका शरीर सुन्दर है, रोगमुक्त है, यश है एवं सुन्दर चरित्र भी है और सुमेह पर्वत के समान आपके पास धन है। फिर भी यदि गुरु चरणों की भक्ति नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गुरु, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं और जो व्यक्ति गुरु को अपने अन्तर्स्थल में विराजमान कर लेता है तो गुरु के सहारे भगवान, परमात्मा अपने अन्दर भी आ जाते हैं। इतना सस्ता सौदा और कहाँ मिलेगा? आप अकेले भगवान को पकड़ने जाओ तो परेशान हो जाओगे। भगवान को पकड़ने के लिये बड़ी मनुष्यार करनी पड़ेगी। फिर भी वह प्रसन्न होंगे नहीं होंगे। लेकिन गुरु चरण की सेवा, वह अपने आप आपके अन्दर परमात्मा की उद्भूति करा देगी।

एक बार हम गुरुभक्ति पर प्रवचन दे रहे थे कि गुरु भक्ति करनी चाहिये आदि। एक महिला ने प्रवचन के बाद हमसे पूछा-महाराज जी आज हमारे साथ-गुरु शिधिलाचारी हो गये, हम कैसे जाने कि ये सच्चे साथु, गुरु हैं? हमने कहा कि हमारे पास एक फार्मूला है सच्चे साथु पहचानने का। महिला बड़ी प्रसन्न हुई और आप लोग चाहते भी बया हैं? यही न कि हमें साथु की परीक्षा करना आ जाये। हमने कहा- तुम्हें सच्चे साथु, गुरु जरूर मिलेंगे। जिस दिन आपकी आत्मा, सच्चा श्रावक बन जायेगी, उस दिन आपको सच्चे साथु, गुरु मिल जायेंगे।

आजकल व्यक्ति या तो गुरुओं, साथुओं की अन्यभक्ति करता है जिससे उनके अवगुण भी गुण प्रतीत होते हैं या जहाँ हमारे चरित्र के प्रति साथु ध्यान नहीं दे-हमारी कमज़ोरी को प्रोत्साहन दे, वे हमारे गुरु हैं। ऐसे समय में यह कहावत चरितार्थ होती है कि लोधी गुरु लालची ढेला, होय नरक में ढेलं ढेला। अतः इस बात का व्यान भी हमें होना चाहिये। अथवा हम लोग साथु गुरुओं की इतनी उपेक्षा करते हैं कि उनमें गुण ही दिखाई नहीं देते हैं। अतः अपने को गुरुदर्शन में क्या करना है? यदि पुण्योदय से साथु संघ के सहित आ जायें तो विशेष भक्ति करना ही चाहिये। प्रवचन सुनना चाहिये। जरूरी नहीं, सब

## मन्दिर । ७२

साधु प्रवचन दें ; लेकिन उनके दर्शन एवं आहारदान आदि का लाभ भी जस्तर लेना चाहिये, यथासमय वैयाद्वृत्ति भी करना चाहिये । साधु के लिये ज्ञानोपकरण-संयोगकरण के अलावा ऐसी कोई वस्तु नहीं देनी चाहिये जिससे साधु एवं धर्म का अपलाप हो । लेकिन यदि किसी साधु की चर्चा पर तुम्हारी आस्था न झुके तो उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये ।

जिन्हें आपने अपना धर्म गुरु माना है, वर्ष भर में एक बार सपरिवार या यथावसर उनके दर्शन-वन्दन करने के लिये अवश्य जाना चाहिये । उनसे कोई न कोई नियम, व्रत, संयम अवश्य लेना चाहिये, तभी वे हमारे धर्म गुरु बनेंगे और हर वर्ष कोई न कोई व्रत-नियम बढ़ाते रहना चाहिये । नियम-व्रतों में लगे दोषों की आलोचनापूर्वक प्राशिकृत लेना चाहिये, तभी हम सभी का कल्याण होगा ।

इस प्रकार देव-शास्त्र-गुरु के दर्शन करके मंदिर जी से बाहर निकलते समय, तीन बार आस्तही-आस्तही बोलना चाहिये । आस्तही बोलने का तात्पर्य है कि जिन देवों, क्षेत्रपालादि से हमने दर्शन-पूजन आदि के लिये स्थान लिया था, उन्हें सौंप दिया ।

दर्शन करके बाहर निकलते समय देवशास्त्र-गुरु को पीठ नहीं दिखाना चाहिये, ऐसा शास्त्रकारों का मत है ।

“अग्रतो जिन देवस्य, स्तोत्र-मन्त्रार्चनादिकम् ।  
कुर्यान्न दर्शयेत् पृष्ठं, सम्पुखं द्वार लंघनम् ॥”

अर्थात् जिन देव के आगे स्तोत्र-मन्त्र और पूजन आदि करें परन्तु बाहर निकलते समय अपनी पीठ नहीं दिखायें । सम्पुख ही पिछले पैरों से चलकर द्वार का उलघन करें ।

आज बस इतना ही  
बोलो महावीर भगवान की.....

## मन्दिर

“जिन प्रतिमा के दर्शन से लाभः”

गरापीहारिणी मुद्रा गरुडस्य यथा तथा ।

जिनस्याऽप्येनसो हंत्री दुरिताराति पातिनः ॥

जिस प्रकार गरुड मुद्रा(दर्शन मात्र से) सर्प-विष को नष्ट करने में समर्थ है उसी प्रकार जिन-मुद्रा पापों को नष्ट करने में पूर्णतः समर्थ है ।

विघ्नाप्रणश्यन्ति भयं न जातु, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति ।  
अर्थान्यथेष्टाश्च सदा लभन्ते जिनोत्तामनानां परिकीर्तनेन ।

“छक्खण्डागम जीवट्ठाणं”

जिनेन्द्र देव के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न नाश को प्राप्त होते हैं कभी भी भय नहीं होता, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते हैं और निरन्तर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है ।

**सुह-सुद्धपरिणामेहि कम्मकखाभावे-**

शुभ और शुद्ध दोनों प्रकार के भाव कर्मक्षय के हेतु हैं । यदि ऐसा नहीं माना जायेगा तो कर्मों का क्षय नहीं बन सकेगा ।

शुद्धोपयोगी की तरह शुभोपयोग वालों की भी धर्म परिणत आत्मा के रूप में स्वीकार किया है, अमृतचन्द्राचार्य ने भी—

**यदा तु धर्तं परिणतस्यभावेऽपि शुभोपयोग परिणत्या संगच्छते"**

इस पंक्ति में शुभोपयोग रूप परिणति को भी धर्म में ही सम्मिलित किया है अशुभोपयोग तरह उसे अधर्म नहीं कहा।

सम्यग्दृष्टि के अनुराग तो धर्मात्मा पुरुषनि में धर्म की कथा में आयतन होय है।

— पण्डित सदासुखदास ॥ ५७ ॥

जिनबिम्ब दर्शन सम्यक्त्व की प्राप्ति में कारण है ऐसा  
मूलागम सिद्धान्त "धवल ग्रन्थ" में निम्न प्रकार बताया है:-

तीहि कारणोहि पठम-सम्पत्तमुप्पर्देति केई जाइस्सरा  
केई सोदूण केई जिणविंब दद्दूण ॥ ३० ॥

तीन कारणों से प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है।  
कितने ही जाति स्मरण से, कितने धर्मोपदेश सुनकर और  
कितने ही "जिनबिम्ब" के दर्शन करके।

जिनेन्द्र भगवान के दर्शन मात्र से ऐसे—ऐसे कर्मों का  
नाश होता है जिन कर्मों को अनेक तपों के द्वारा नष्ट नहीं  
किया जा सकता ऐसे "निधत्ति—निकालित" नाम के वज्र  
से अधिक कठोर कर्म भी गलकर नष्ट हो जाते हैं ऐसा  
सिद्धान्त—आगम में कहा है-

**जिणविंब दंसणेण णिधत्तंणिकाचिदस्य ।**

**दिभिच्छत्तादि कम्म कलावस्स खय दंसणादो ॥**

**"धवल ग्रन्थ"**

“सारंभई यहवणाइयहं, जे सावज्ज भणति ।  
दंसणु तेहिं विणासियउ हत्युण कायउ भंति”

सावय धम्म दोहा २०११

जो अभिषेकादि के समारम्भों को सावद्य—दोषपूर्ण कहते हैं उन्होंने सम्यग्दर्शन का नाश कर दिया, इसमें कोई भ्रान्ति नहीं।

जो जीव जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं करते उनके लिए पद्यनंदी आचार्य ने “पद्यनन्दि पञ्चविंशति” ग्रंथ में कहा है कि—

जिनेन्दं न पश्यन्ति ये पूजयन्ति स्तुवन्ति न।  
निष्कलं जीवितं तेषां, तेषां धिक् च गृहाश्रमम् ॥६/१५॥


जो जीव भक्ति से जिनेन्द्र भगवान का न दर्शन करते हैं, न पूजन करते हैं, न स्तुति ही करते हैं उनका जीवन निष्कल है उनके गृहस्थाश्रम को धिक्कार है।

तपस्त्रिं गुरुं वैत्यानां पूजालोपं प्रवर्तनम् ।  
अनाथं दीनं कृपणाभिर्भिक्षादि प्रतिषेधनम् ।


७ तत्त्वार्थसार ४/५५

तपस्त्री, गुरु और प्रतिमाओं की पूजा न करने की प्रवृत्ति चलना, अनाथ, दीन तथा कृपण मनुष्यों को भिक्षा आदि देने का निषेध करना ये सब अन्तराय कर्म, पाप आप्नव के निमित्त हैं।

## आवश्यक चित्र



मुक्ताशुक्ति मुद्रा



वन्दना मुद्रा



पचांग प्रणाम



कार्योत्सर्ग मुद्रा



गवासन



## \* हमारी कामना \*

जैन धर्म तो शाश्वत धर्म है, यह सदा से है और सदा ही रहेगा, समय बदलता रहेगा परन्तु इसका मूल स्वरूप वैसा ही रहेगा, अतः प्रत्येक पीढ़ी का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस धर्म के मूल स्वरूप को आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुँचाये, इस कार्य में पुस्तकें व ग्रन्थ अत्यन्त सहायक व प्रमाणिक सिद्ध होते हैं, मुनि श्री अमित सागर जी की प्रेरणा स्वरूप “वास्ट जैन फाउंडेशन” की आधारशिला कानपुर महानगर में रखी गयी है, इस संम्पादन का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म के मौलिक सिद्धान्तों से सम्बन्धित साहित्य को सहज उपलब्ध कराना है, इस प्रयास का यह प्रथम पुष्ट १०८ मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के चरणों में समर्पित है, मुनि श्री का आर्शिवाद इसी प्रकार बना रहे, यही हमारी कामना है।

वास्ट जैन फाउंडेशन  
59/2, बिरहाना रोड,  
कानपुर - 208 001  
फोन- 0512/352239

विनोद कुमार जैन  
फोन- 0512/300444

अतुल कुमार जैन  
फोन- 0512/313437

संजय कुमार जैन  
फोन- 0512/210404

त्रिभुवन चन्द्र जैन  
फोन- 0512/369213

## द्वितीय संस्करण

( ९,००० प्रतियाँ )

प्रदीप कुमार जैन

24/32, बिरहाना रोड़

कानपुर 208 001 (उ० प्र०)

फोन नं. (0512) 354791

## जीवन परिचय

<b>जन्म</b>	: २६ दि १९६३
<b>जन्मस्थान</b>	: ग्राम-दुगाहाकला, तह - खुरई जिला-सागर (मध्य)
<b>पिनाश्री</b>	: स्व० गुलाब चंद जैन।
<b>मातुश्री</b>	: सुमित्रा वाई जैन (वर्तमान मे आर्थिका प्रबोधपती माताजी, पढ़ाचार्य श्री अभिनन्दन सागरजी संघस्थ)
<b>बचपन का नाम</b>	: अजित कुमार जैन
<b>बन्धुश्री</b>	: कैलाशचन्द जी, कृष्णकुमार जी एवं पवनकुमार जी।
<b>बहिनश्री</b>	: स्व० गृणमाला जी एवं मीना जी
<b>जानि</b>	: परवार
<b>शिक्षा</b>	: लाई स्कूल (कूपी विज्ञान) श्री पाश्वर्नाथ दिंदो जैन गृहकूल। खुरई, जिला-सागर (मध्य प्रदेश)
<b>ब्रह्मचर्यव्रत</b>	: २२ दि ८९, बडा, जिला-सागर (मध्य)
	(मुनिश्री पृष्ठदन सागरजी द्वारा)
<b>मुनि दीक्षा</b>	: ४९०.८४ विजयादशमी, अजमेर (राज.)
<b>दीक्षा गुरु</b>	आचार्य यागोमणि श्री धर्मसागरजी महाराज
<b>शिक्षा गुरु</b>	आचार्य कल्पश्री श्रुतसागरजी महाराज
<b>भाषा-ज्ञान</b>	हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी एवं प्राचीय भाषाये।
<b>प्रकाशित कृतियाँ</b>	: अनेक जैन वित्र कथाये, नैतिकना के आदर्श, "मंदिर", बाल विज्ञान (पाचो भाग) और्ध्वन देखी आन्मा (प्रवचन संकलन) बोलती माटी (महाकाव्य) अनुत्तर यात्रा (प्रवचन संकलन)
<b>अप्रकाशित कृतियाँ</b>	: अनुभूति के द्वारा (मुक्तक रचना) भ्रष्ट अनुभव (कर्त्तव्या रचना) कल्याण मन्दिर (पश्चानुवाद) कुरल काव्य (पश्चानुवाद) अपना परिचय (प्रवचन-संकलन) अपने-पपने (शायरी-गजल)
<b>जीवन्त कृतियाँ</b>	: मुनिश्री आदित्य सागरजी, मुनिश्री आमिनेक्य सागर जी, मुनिश्री अनुकम्पा सागरजी संघस्थ।
<b>समाधिस्थ</b>	: मुनिश्री सर्वेश सागरजी, मुनिश्री भव्य सागरजी, मुनिश्री अमर सागर जी, मुनिश्री अभय सागरजी।

